

# प्रातः किरण

हर खबर पर पकड़

f /Pratahkiran

t /Pratahkiran

📧 /Pratahkiran

**11 शतरंज ओलंपियाड: गुकेश की जीत से भारत ने चीन को हराया**

**नवादा में महादलित टोला पर दबंगों का आतंक जंगलराज का प्रमाण... 12**

वर्ष : 15 | अंक : 160 | नई दिल्ली, शुक्रवार, 20 सितंबर, 2024 | विक्रम संवत् 2081 | पेज : 12 | मूल्य ₹ : 03.00 | www.pratahkiran.com

## खरगो, राहुल ने नवादा की घटना को लेकर बिहार की 'डबल इंजन सरकार' पर निशाना साधा

नई दिल्ली, एजेंसी

### सरकार के जंगलराज

● बिहार के नवादा में महादलित टोला पर दबंगों का आतंक राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) की डबल इंजन सरकार के जंगलराज का एक और प्रमाण है।

पर दबंगों का आतंक राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) की डबल इंजन सरकार के जंगलराज का एक और प्रमाण है। बिहार के नवादा में महादलित टोला पर दबंगों का आतंक राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) की डबल इंजन सरकार के जंगलराज का एक और प्रमाण है। बिहार के नवादा में महादलित टोला पर दबंगों का आतंक राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) की डबल इंजन सरकार के जंगलराज का एक और प्रमाण है।



उदासीनता, आपराधिक उपेक्षा व असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देना अब चरम पर है। खरगो ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा की तरह मौन हैं, नीतीश जी सत्ता के लोभ में बेफिक्र

हैं और राजग की सहयोगी पार्टियों के मुंह में दही जम गया है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, नवादा में महादलितों का पूरा टोला जला देना, 80 से ज्यादा परिवारों के घरों को नष्ट कर देना बिहार में बहुजनों के विरुद्ध अन्याय की डरावनी तस्वीर उजागर कर रहा है। उन्होंने कहा कि अपना घर-संपत्ति खो चुके इन दलित परिवारों की चीत्कार और भयंकर गोलिबारी की गूंज से वंचित समाज में मचा आतंक भी बिहार की सोई हुई सरकार को जगमगाते में कामयाब नहीं हो पाए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया, भाजपा और राजग के सहयोगी दलों के नेतृत्व में ऐसे अराजक तत्व शरण पाते हैं, जो भारत के बहुजनों को डराते हैं, दबाते हैं ताकि वो अपने सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों में मांग पाएं।

### खरगो ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा

कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा मल्लिकार्जुन खरगो को लिखे गए जवाबी पत्र को लेकर बुधस्पातिवार को उन पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे गए खत का निरर्थक जवाब भेजने का काम नड्डा को दे दिया गया। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने खरगो के पत्र का जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं आने को लेकर कटाक्ष किया कि हृदयचोषित परमात्मा के अवतार कुछ अलग ही होते हैं।

**मौसम**  
अधिकतम तापमान 31.0°C  
न्यूनतम तापमान 24.0°C

**बाजार**  
सोना 75,995  
चांदी 92,103  
संसेक्स 83,140  
निफ्टी 25,669

### संक्षिप्त खबरें

**झारखंड के श्रमिकों की गंजबासौदा स्टेशन पर मौत**  
भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विदिशा जिले के गंजबासौदा रेलवे स्टेशन पर झारखंड निवासी एक श्रमिक की मृत्यु पर दुःख जताते हुए मुक्तक के परिवार को एक लाख रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। डॉ. यादव ने एक्स पर कल देर रात पोस्ट करते हुए इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुंबई से दिल्ली जा रहे झारखंड के जिला दुमका निवासी श्रमिक मनोज माझी (36) की विदिशा जिले के गंजबासौदा रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ते समय हुई आकस्मिक मृत्यु का समाचार अत्यंत दुःख है। पार्थिव शरीर कल एंजुलैस के माध्यम से पैतृक गांव दयालपुर भेजा जाएगा।

**बिहार में दलित बस्ती में आगजनी की घटना पर आगजनी ने दी प्रतिक्रिया**  
लखनऊ। बिहार के नवादा में दलित बस्ती में दबंगों ने आग लगा दी। इस दौरान काफी बवाल भी हुआ। इसके बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। इस पर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की सुप्रीमो मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पोस्ट किया, बिहार के नवादा में दबंगों द्वारा गरीब दलितों के काफी घरों को जलाकर राख करके उनका जीवन उजाड़ देने की घटना अति-दुःख व गंभीर है। सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के साथ ही पीड़ितों को पुनः बसाने की व्यवस्था के लिए पूरी आर्थिक मदद भी करे। बिना देर के बिहार के नवादा जिले में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने दलित बस्ती में आग लगा दी थी।

# जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाएंगे: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

श्रीनगर, एजेंसी

- फर्स्ट फेज की वोटिंग में इतिहास रचा, 25 सितंबर को सारे रिकॉर्ड टूटने चाहिए
- पीएम मोदी 21 जून को योग दिवस के मौके पर भी शरे कश्मीर स्टेडियम गए थे।



**जम्मू-कश्मीर में पहली बार दहशतगर्दी के बिना चुनाव हुआ : मोदी**  
श्रीनगर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को श्रीनगर में एक चुनावी रैली में कहा कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बंपर वोटिंग ने पत्थरबाजी और दहशतगर्दी की हमदर्द पार्टियों को खारिज कर दिया है। ऐसा इसलिए हुआ है, क्योंकि बीच आया है। पीएम मोदी ने नैका-पीडीपी व कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि तीन खानदानों ने जम्मू-कश्मीर की सियासत को अपनी जागीर समझ रखा है। ये अपने खानदान के सिवाय, दूसरे किसी को आगे आने ही नहीं देना चाहते। वरना पंचायत, बीडीसी और डीडीसी के इलेक्शन को इन्होंने क्यों रोका ?

होने देंगे और इसलिफ वह यहां अमन की बहाली के लिए पूरी ईमानदारी से जुटे हैं। उन्होंने कहा, आज देखिए, पूरे जम्मू-कश्मीर में स्कूल-कॉलेज आराम से चल रहे हैं। बच्चों के हाथ में कलम, किताबें और लैपटॉप हैं। आज स्कूलों में आग लगने की खबरें नहीं आती, बल्कि आज यहां नए स्कूल, नए कॉलेज, एम्स, मेडिकल कॉलेज और आईआईटी बनने की खबरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से चुनाव में भाजपा के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने की अपील करते हुए कहा कि उनकी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए अमन और खुशहाली के लिए आपके बीच में हैं। पहले चरण के चुनाव के तहत जम्मू-कश्मीर में हुए मतदान का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बंपर मतदान में पत्थरबाजी और दहशतगर्दी की हमदर्द पार्टियों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा, यहां को अमन को मोदी की सुरक्षित और समृद्ध जम्मू-कश्मीर की गारंटी पर पूर्ण विश्वास है। प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान लोगों ने मोदी-मोदी, खुशामोदी मोदी और मोदी है तो मुमकिन है के नारे लगाए, जिस पर मोदी ने उनका हृदय से आभार व्यक्त किया। चुनाव में जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किए जाने के प्रमुख मुद्दे पर भी मोदी ने अपना पक्ष रखा और कहा कि उन्होंने देश की संसद में कहा है कि जम्मू-कश्मीर फिर से राज्य बनेगा।

## बिहार के नवादा में दबंगों का तांडव, फायरिंग के बाद दलितों के 80 घर फूँके

नवादा, एजेंसी



कब्जे को लेकर दूसरे पक्ष से विवाद चल रहा है। मामले की सुनवाई वरिष्ठ अधिकारियों के पास चल रही है। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि बुधवार की शाम अचानक दबंगों ने हमला कर दिया। मारपीट के साथ उनके घरों में आग लगा दी गई, आग लगने की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड को भेजा गया है।

**नवादा के एसपी ने क्या बताया ?**  
एसपी अभिनव धीमान ने बताया, करीब 7 बजे ये सूचना मिली थी कि यहां कुछ व्यक्तियों द्वारा घरों को जलाया गया है। शुरूआत में दावा किया गया था कि 40-50 घर जलाए गए, लेकिन हमने जितना अभी तक सिविल साइड और पुलिस ने रात के अंधेरे में जितना सर्वे किया है, करीब 21 घरों के परिवारों को हमने चिन्हित किया है, इसमें अगर कोई आगे डिटेल सर्वे किया जाएगा, लेकिन जितना अभी तक कंफर्म किया गया है वो 21 घर हैं, इसके अलावा इस घटना में किसी की मौत की सूचना सामने नहीं आई है और न ही किसी की एसी बाँडी मिली है।

बिहार के नवादा जिले में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने दलित बस्ती में आग लगा दी। गांव के लोगों का दावा है कि करीब 80 घर इस आग में जलकर खाक हो गए, हालांकि पुलिस का कहना है कि 20 घर ही आग में जले हैं और इस घटना में किसी की मौत नहीं हुई है। इस मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस घटना पर नीतीश सरकार को घेरा है। यह घटना नवादा के मुफ्तसिल थाना क्षेत्र के ननीय के पास स्थित कुष्णा नगर दलित बस्ती की है। यहां दो पक्षों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर बुधवार की शाम अचानक दबंगों के साथ मारपीट की थी और फिर हवाई फायरिंग के बाद उनके घरों को आग के हवाले कर दिया, बताया जा रहा है कि गांव में जमीन के एक हिस्से पर फिलहाल दलित परिवारों का कब्जा है, इस जमीन पर

### हरियाणा चुनाव : भाजपा का घोषणापत्र जारी एमएसपी पर 24 फसलें खरीदने का वादा



- भाजपा के हरियाणा चुनाव संकल्प पत्र में 20 वोट
- अतिनीचर को सरकारी नौकरी की गारंटी, महिलाओं को 2100 नहीने, यह कांग्रेस से 100 छाप जायद
- रोहतक में भाजपा का संकल्प पत्र जारी करते भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम नायब सेनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ौला।

सैनी ने कहा कि संकल्प पत्र में युवाओं, गरीबों, किसानों और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नड्डा ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में हरियाणा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा है। उन्होंने पिछली सरकारों के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार और घोटालों का जिक्र करते हुए कहा, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं हरियाणा बदल गया है और अंतर स्पष्ट है।

**कांग्रेस का रियल मेनिफेस्टो जमीन घोटाला**  
जेपी नड्डा ने कहा हरियाणा की छवि 10 साल पहले क्या थी? पहले हरियाणा में नौकरी के लिए एसी-खर्ची चलती थी। नौकरी के कारण लोगों को सजाएँ तक हुई। हरियाणा जमीनों के घोटाले के लिए जाना जाता था। उनका रियल मेनिफेस्टो ये था कि जमीन का घोटाला, किसानों की जमीन को हड़पना, उनकी जमीन की श्रेणी को बदलना।

## राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं सफाई मित्र: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

● इंदौर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खरीदी चंदेरी और महेश्वरी साड़ियां, यूपीआई से किया पेमेंट  
● राष्ट्रपति ने कहा-उज्जैन में सफाई और स्वच्छता की परंपरा-गर्मगह में पूजन कर महाकाल लोक देखा, झाड़ू उठाकर मंदिर में सफाई भी की  
● राष्ट्रपति मुर्मू ने महाकाल मंदिर में दर्शन-पूजन किया। झाड़ू लगाकर सफाई भी की।

**उज्जैन, एजेंसी**  
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सफाई मित्रों का सम्मान करते हुए कहा कि सफाई मित्र राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं और उनका सम्मान करके हम वास्तव में अपना गौरव बढ़ा रहे हैं। श्रीमती मुर्मू मध्य प्रदेश के अपने दो दिवसीय प्रवास के दौरान इंदौर-उज्जैन सिक्स लेन रोड के भूमिपूजन कार्यक्रम एवं सफाई मित्र सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं। इस दौरान राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट और गौतम टेटेवाल भी उपस्थित थे। समारोह के दौरान राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने कहा कि उन्होंने जनसेवा का कार्य स्वच्छता कार्यों से ही शुरू किया था। वे साफ सफाई के काम का निरीक्षण करती थीं। सफाई मित्रों से भी बात करती थीं। उन्होंने कहा कि अब स्वच्छता जन आंदोलन बन गया है। स्वच्छ भारत मिशन से देश में जागरूकता बढ़ी है। खुले में शौच से मुक्ति के लिए 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए हैं। महिलाओं की गरिमा बनाए रखने में इस अभियान की अहम भूमिका है।

एक रिपोर्ट के अनुसार इस मिशन से बच्चों की मृत्यु दर में भी कमी आई है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार सात बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। भोपाल भी सबसे स्वच्छ राजधानी है। स्वच्छता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की कई उपलब्धियां हैं। समारोह में उन्होंने चार महिलाओं समेत पांच सफाई मित्रों का सम्मान किया। इस सम्मान के संदर्भ में उन्होंने कहा कि सफाई मित्र अग्रिम पंक्ति के स्वच्छता योद्धा हैं, जो हमें बीमारी और गंदगी से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये

## एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव लोकतंत्र की मूल भावना पर कुटाराघात : सीएम हेमंत सोरेन

रांची, एजेंसी  
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को अलोकतांत्रिक करार दिया है। उन्होंने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी। सीएम हेमंत सोरेन ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट किया, एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव लोकतंत्र की मूल भावना पर कुटाराघात है। यह हमारे संघीय ढांचे को कमजोर करता है और राज्यों की स्वायत्तता को नष्ट करने का एक पद्धतंत्र है। इस प्रस्ताव से लोगों की आवाज दबाई जाएगी और उनके मतदान के अधिकार को अपमान होगा। डिमोनेटाइजेशन की जन-विरोधी एवं असफल नीति की तरह ही यह कदम डी-डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ धकेलने का प्रयास है। हम इस अलोकतांत्रिक कदम का पुरजोर विरोध करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इसके पहले जामताड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भी सीएम हेमंत सोरेन ने कहा था कि भाजपा के लोग चाहते हैं कि पूरे देश में एक ही दल राज करे। चाहे देश हो या राज्य, किसी दूसरी पार्टी की सरकार बने ही नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे इनका यही मकसद है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी इस मुद्दे पर पार्टी का स्टैंड साफ किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा का इरादा संविधान बदलने का है।







THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

# SAHASRA ELECTRONIC SOLUTIONS LIMITED



Our Company was incorporated as Limited Company in the name of "Sahasra Electronic Solutions Limited" under the provisions of the Companies Act, 2013 vide Certificate of Incorporation dated February 22, 2023 issued by Registrar of Companies, Central Registration Centre bearing Corporate Identity Number U26202DL2023PLC410521. At the time of incorporation our company has taken over the running business of proprietorship concern of the promoter Amrit Lal Manwani, namely M/s Sahasra Electronic Solutions along with the assets and liabilities of the proprietorship concern as going concern. For further details of our Company, please refer to chapter titled "History and Corporate Structure" beginning on page 119 of the Red Herring Prospectus.

Registered Office: 33, Pocket 1, Jasola Vihar New Friends Colony, South Delhi-110025, New Delhi, India. Corporate Office: 68-AA Noida Special Economic Zone, Nepz Post Office, Gautam Buddha Nagar, Noida-201305, Uttar Pradesh, India. Tel No: +91-120-4202604; E-mail: cs@sahasraelectronics.com; Website: www.seslimited.in; Contact Person: Neha Tahir, Company Secretary & Compliance Officer

## OUR PROMOTERS: AMRIT LAL MANWANI, ARUNIMA MANWANI & VARUN MANWANI

### "THE OFFER IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON SME PLATFORM OF NSE."

Our Company is an EN 9100:2018 certified company, which is engaged in the business of providing solutions towards electronics system design and manufacturing ("ESDM") services at its manufacturing plant located at 68AA, NSEZ, Noida, Uttar Pradesh, which is equipped with four high speed SMT lines having a total capacity of around 1800000 units.

## THE OFFER

INITIAL PUBLIC OFFER OF UPTO 65,78,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH (THE "EQUITY SHARES") OF SAHASRA ELECTRONIC SOLUTIONS LIMITED ("OUR COMPANY" OR "SESL" OR "THE OFFER") AT AN OFFER PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UP TO ₹ [●] LAKHS ("PUBLIC OFFER") COMPRISING OF A FRESH ISSUE OF UPTO 60,78,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ [●] LAKHS (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UPTO 5,00,000 EQUITY SHARES BY THE SELLING SHAREHOLDER ("OFFER FOR SALE") AGGREGATING TO ₹ [●] LAKHS COMPRISING BY AMRIT LAL MANWANI; OUT OF WHICH 3,29,600 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AT AN OFFER PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING ₹ [●] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE OFFER (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE PUBLIC OFFER LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. OFFER OF [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AT AN OFFER PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UPTO ₹ [●] LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE PUBLIC OFFER AND NET OFFER WILL CONSTITUTE 26.32% AND 25.00% RESPECTIVELY OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

### DETAILS OF SELLING SHAREHODLER, OFFER FOR SALE AND THE WEIGHTED AVERAGE COST OF ACQUISITION

Name of Selling Shareholder	Category of Shareholder	No. of Equity Shares Offered/ amount (in ₹ lakhs)	Weighted average cost of Acquisition (in ₹ per Equity Share)
Amrit Lal Manwani	Promoter Selling Shareholder	Up to 5,00,000 Equity Shares aggregating to ₹ [●] lakhs	10.00

- QIB PORTION: NOT MORE THAN 50.00% OF THE NET OFFER
- RETAIL PORTION: NOT LESS THAN 35.00% OF THE NET OFFER
- NON-INSTITUTIONAL PORTION: NOT LESS THAN 15.00% OF THE NET OFFER
- MARKET MAKER PORTION: UPTO 3,29,600 EQUITY SHARES OR 5.01% OF THE OFFER

PRICE BAND: RS. 269 TO RS. 283 PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE RS. 10/- EACH

THE FLOOR PRICE IS 26.9 TIMES OF THE FACE VALUE AND THE CAP PRICE IS 28.3 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

BIDS CAN BE MADE FOR A MINIMUM OF 400 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 400 EQUITY SHARES THEREAFTER.

## RISKS TO INVESTORS:

- Our business is dependent on the sale of our products to certain key customers which also includes some of our Group Companies. The loss of any of these customers or loss of revenue from sales to these customers could have a material adverse effect on our business, financial condition, results of operations and cash flows.
- We are significantly dependent on revenue from sale of PCBAs. Any inability to anticipate or adapt to evolving up gradation of the required products or inability to ensure product quality or reduction in the demand of these products may adversely impact our revenue from operations and growth prospects.
- The Merchant Banker associated with the Issue has handled 58 SME public issues in the past three years out of which 1 Issue closed below the Offer Price on listing date.
- Average cost of acquisition of Equity Shares held by the Individual Promoters is
- The Price/ Earnings ratio based on Diluted EPS for Fiscal 2024 for the company at the upper end of the Price Band is 15.68
- Weighted Average Return on Net worth for Fiscals 2024, 2023\* and 2022 is 63.16%.
- \*RoNW for the period March 31, 2023 have been calculated considering the combined PAT of the company for the period February 21, 2023 to March 31, 2023 and for the erstwhile proprietorship for the period April 01, 2022 to February 20, 2023 and divided by Networth as on March 31, 2023.
- The Weighted average cost of acquisition of all Equity Shares transacted in the last 1 year, 18 months and 3 years from the date of RHP is as given below:

Period	Weighted Average Cost of Acquisition (in Rs.)	Upper end of the Price Band (Rs. 283) is "X" times the weighted Average cost of Acquisition	Range of acquisition price: Lowest Price – Highest Price (in Rs.)
Last 1 year/ Last 18 months	202.00	1.40	202-202
Last 3 years	19.60	14.44	10-202

and the Offer Price at the upper end of the Price Band is Rs. 283 per Equity Share.

• The Weighted average cost of acquisition compared to floor price and cap price

Types of transactions	Weighted average cost of acquisition (₹ per Equity Shares)	Floor price (i.e. ₹ 269)	Cap price* (i.e. ₹ 283)
WACA of primary issuance(exceeding 5% of the pre issue capital)	202.00	1.33 times	1.40 times
WACA for secondary sale / acquisition (exceeding 5% of the pre issue capital)	NA <sup>^</sup>	NA <sup>^</sup>	NA <sup>^</sup>

Note: \*There were no secondary transactions as mentioned in paragraph 8(b) above, in last 18 months from the date of the Red Herring Prospectus.

## BID/OFFER PROGRAM

BID/ OFFER OPENS ON<sup>(1)</sup>: THURSDAY, SEPTEMBER 26, 2024

BID/ OFFER CLOSES ON: MONDAY, SEPTEMBER 30, 2024

<sup>(1)</sup>Our Company in consultation with the BRLM may consider participation by Anchor Investors. The Anchor Investor Bidding Date shall be one Working Day prior to the Bid/ Offer Opening Date in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations, 2018.

In case of any revisions in the Price Band, the Bid/ Offer Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/ Offer Period for a minimum of one working day, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding ten working days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/ Offer Period, if applicable, will be widely disseminated by notification to the Stock Exchange, by issuing a press release, and also by indicating the change on the website of the Book Running Lead Managers and the terminals of the other members of the Syndicate and by intimation to SCSBs, the Sponsor Bank, Registered Brokers, Collecting Depository Participants and Registrar and Share Transfer Agents.

The Offer is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b)(i) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 253 of the SEBI (ICDR) Regulations, as amended, wherein not more than 50% of the Net Offer shall be allocated on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs"), the "QIB Portion", provided that our Company may, in consultation with the Book Running Lead Managers, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Anchor Investor Portion"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Net Offer shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID in case of RIBs using the UPI Mechanism, if applicable, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or by the Sponsor Bank under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Offer through the ASBA process. For details, see "Offer Procedure" beginning on page 259 of the Red Herring Prospectus.

Bidders/ Applicants should note that on the basis of PAN, DP ID and Client ID as provided in the Bid cum Application Form, the Bidders/Applicants may be deemed to have authorized the Depositories to provide to the Registrar to the Offer, any requested Demographic Details of the Bidders/Applicants as available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for or unblocking of ASBA Account or for other correspondence(s) related to an Offer. Bidders/Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Applicants' sole risk. Bidders/Applicants should ensure that PAN, DP ID and the Client ID are correctly filled in the Bid cum Application Form. The PAN, DP ID and Client ID provided in the Bid cum Application Form should match with the PAN, DP ID and Client ID available in the Depository database, otherwise, the Bid cum Application Form is liable to be rejected. Bidders/Applicants should ensure that the beneficiary account provided in the Bid cum Application Form is active. Investors must ensure that their PAN is linked with AADHAR and are in compliance with CBDT Notification dated February 13, 2020 and press release dated June 25, 2021.

CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS: For information on the main objects and other objects of our Company, see "History and Corporate Structure" on page 119 of the Red Herring Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Offer. For further details, see the section "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 298 of the Red Herring Prospectus.

LIABILITY OF MEMBERS AS PER MOA: The liability of the members is limited and this liability is limited to the amount unpaid, if any, on the shares held by them.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: The Authorized share Capital of the Company is Rs. 25,00,00,000/- (Rupees Twenty-Five Crores) divided into 2,50,00,000 (Two Crore Fifty Lakhs Only) Equity Shares of Rs.10/- each. The issued, subscribed and paid-up share capital of the Company before the Offer Rs. 18,91,47,630 (Rupees Eighteen Crores Ninety One Lakhs Forty Seven Thousand Six Hundred Thirty only) divided into 1,89,14,763 (One Crore Eighty Nine Lakhs Fourteen Thousand Seven Hundred Sixty Three) Equity Shares of Rs. 10 each. For details of the Capital Structure, see "Capital Structure" on the page 57 of the Red Herring Prospectus.

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association of our Company, Amrit Lal Manwani 1,79,64,500, Varun Manwani 1,200, Arunima Manwani 1,200, Varsha B P Manwani 1,200, Akshay Manwani 1,200, Narayan Belbase 100 and Pintu Naskar 100 shares aggregating to 1,79,69,500 Equity Shares of Rs.10/- each. Details of the main objects of the Company as contained in the Memorandum of Association, see "History and Corporate Structure" on page 119 of the Red Herring Prospectus. For details of the share capital and capital structure of the Company see "Capital Structure" on page 57 of the Red Herring Prospectus.

LISTING: The Equity Shares issued through the Red Herring Prospectus are proposed to be listed on the NSE Emerge. Our Company has received an "in-principle" approval from the National Stock Exchange of India Limited (hereinafter referred to as NSE) for the listing of the Equity Shares pursuant to letter Ref.: NSE/LIST/4080 dated September 16, 2024. For the purposes of the Offer, the Designated Stock Exchange shall be NSE. A signed copy of the Red Herring Prospectus dated September 19, 2024 has been filed with the RoC and Prospectus shall be filed to the RoC in accordance with Section 26(4) of the Companies Act, 2013. For details of the material contracts and documents available for inspection from the date of the Red Herring Prospectus up to the Bid/ Offer Closing Date, see "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 298 of the Red Herring Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI"): Since the Offer is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018. The Red Herring Prospectus has been filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Offer Document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI beginning on page 241 of the Red Herring Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE ("NSE EMERGE") (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to the Offer Document for the full text of the Disclaimer Clause of NSE.

TRACK RECORD OF BOOK RUNNING LEAD MANAGERS: The Merchant Banker associated with the Issue has handled 58 SME public issues in the past three years out of which 1 Issue closed below the Issue Price on listing date.

GENERAL RISK: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Offer unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issuer and this Offer, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" on page 25 of the Red Herring Prospectus.

## ASBA\* | Simple, Safe, Smart way of Application- Make use of it!!!

\*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For details, check section on ASBA below. Mandatory in Public Issues from January 01, 2016. No cheque will be accepted



UPI-Now available in ASBA for Retail Individual Investors (RII)\*\*

Investors are required to ensure that the bank account used for bidding is linked to their PAN. UPI – Now available in ASBA for RIIs applying through Registered Brokers, DPs & RTAs. RIIs also have the option to submit the application directly to the ASBA Bank (SCSBs) or to use the facility of linked online trading, demat and bank account.

Investors have to apply through the ASBA process. "ASBA has to be availed by all the investors except anchor investor. UPI may be availed by Retail Individual Investors. For details on the ASBA and the UPI process, please refer to the details given in ASBA form and abridged prospectus and also please refer to the section "Offer Procedure" beginning on page 259 of the Red Herring Prospectus. The process is also available on the website of Association of Investment Bankers of India ("AIBI"), the Stock Exchanges and in the General Information Document.

\*ASBA forms can be downloaded from the website of NSE ("NSE Emerge")

\*\*List of banks supporting UPI is also available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. ICICI Bank Limited has been appointed as Sponsor Bank for the Offer, in accordance with the requirements of the SEBI circular dated November 1, 2018, as amended. For UPI related queries, investors can contact NPCI at the toll free number-18001201740 and Mail Id- ipo.upi@npci.org.in. For the list of UPI Apps and Banks live on IPO, please refer to the link www.sebi.gov.in. For Offer related grievance investors may contact: Hem Securities Limited- Sourabh Garg (+91 141 -4051000) (Email Id: ib@hemsecurities.com).

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE OFFER	REGISTRAR TO THE OFFER	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
<p><b>HEM SECURITIES LIMITED</b> Address: 904, A Wing, Naman Midtown, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Lower Parel, Mumbai-400013, Maharashtra, India Tel. No.: +91- 022- 49060000; Fax No.: +91- 022- 22625991 Email: ib@hemsecurities.com; Investor Grievance Email: redressal@hemsecurities.com Website: www.hemsecurities.com Contact Person: Sourabh Garg SEBI Regn. No. INM000010981</p>	<p><b>BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED</b> Address: S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai – 400093, Maharashtra India. Telephone: +91 22 6263 8200; Facsimile: +91 22 6263 8299 Email: ipo@bigshareonline.com; Investor Grievance Email: investor@bigshareonline.com Website: www.bigshareonline.com Contact Person: Vinayak Morbale SEBI Regn. No.: INR000001385</p>	<p><b>NEHA TAHIR</b> <b>SAHASRA ELECTRONIC SOLUTIONS LIMITED</b> Registered Office: 33, Pocket 1, Jasola Vihar New Friends Colony, South Delhi-110025, New Delhi, India. Corporate Office: 68-AA Noida Special Economic Zone, Nepz Post Office, Gautam Buddha Nagar, Noida-201305, Uttar Pradesh, India. Tel No: +91-120-4202604; E-mail: cs@sahasraelectronics.com; Website: www.seslimited.in</p> <p>Investors can contact the Company Secretary and Compliance Officer or the BRLMs or the Registrar to the Offer in case of any pre-offer or post-offer related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account and refund orders, etc.</p>

AVAILABILITY OF RED HERRING PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Offer. Full copy of the Red Herring Prospectus is available on the website of the Company at https://www.seslimited.in/ipo.html the website of the BRLM to the Offer at www.hemsecurities.com, the website of NSE Emerge at https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-offer-documents#sme\_offer respectively.

AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS: Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: Sahasra Electronic Solutions Limited, Tel No: +91-120-4202604; BRLM: Hem Securities Limited, +91-22-4906 0000 and the Syndicate members: Hem Finlease Private Limited, Telephone: +91-22-49060000 and at the selected locations of the Sub-Syndicate Members, Registered Brokers, RTAs and CDPs participating in the Offer. Bid-cum-application Forms will also be available on the websites of NSE and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the stock exchanges and SEBI.

ESCROW COLLECTION BANK/ REFUND BANK/ PUBLIC OFFER ACCOUNT BANK/ SPONSOR BANK: ICICI Bank Limited.; LINK TO DOWNLOAD ABRIDGED PROSPECTUS: https://www.seslimited.in/ipo.html;

UPI: Retail Individual Bidders can also Bid through UPI Mechanism.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus.

Place: Delhi  
Date: September 19, 2024

Disclaimer: Sahasra Electronic Solutions Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares the Red Herring Prospectus dated September 19, 2024 has been filed with the Registrar of Companies, Delhi, and thereafter with SEBI and the Stock Exchanges. The RHP is available on the website of NSE Emerge at https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-offer-documents#sme\_offer and is available on the websites of the BRLM at www.hemsecurities.com. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the Red Herring Prospectus including the section titled "Risk Factors" beginning on page 25 of the Red Herring Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in "offshore transactions" in reliance on Regulation "S" under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States.

On behalf of Board of Directors  
SAHASRA ELECTRONIC SOLUTIONS LIMITED  
Sd/-  
NEHA TAHIR  
Company Secretary and Compliance Officer



THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

# SAHASRA ELECTRONIC SOLUTIONS LIMITED



Our Company was incorporated as Limited Company in the name of "Sahasra Electronic Solutions Limited" under the provisions of the Companies Act, 2013 vide Certificate of Incorporation dated February 22, 2023 issued by Registrar of Companies, Central Registration Centre bearing Corporate Identity Number U26202DL2023PLC410521. At the time of incorporation our company has taken over the running business of proprietorship concern of the promoter Amrit Lal Manwani, namely M/s Sahasra Electronic Solutions along with the assets and liabilities of the proprietorship concern as going concern. For further details of our Company, please refer to chapter titled "History and Corporate Structure" beginning on page 119 of the Red Herring Prospectus.

**Registered Office:** 33, Pocket 1, Jasola Vihar New Friends Colony, South Delhi-110025, New Delhi, India.  
**Corporate Office:** 68-AA Noida Special Economic Zone, Nepz Post Office, Gautam Buddha Nagar, Noida-201305, Uttar Pradesh, India.  
**Tel No:** +91-120-4202604; **E-mail:** cs@sahasraelectronics.com; **Website:** www.seslimited.in  
**Contact Person:** Neha Tahir, Company Secretary & Compliance Officer

## OUR PROMOTERS: AMRIT LAL MANWANI, ARUNIMA MANWANI & VARUN MANWANI

**"THE OFFER IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON SME PLATFORM OF NSE."**

Our Company is an EN 9100:2018 certified company, which is engaged in the business of providing solutions towards electronics system design and manufacturing ("ESDM") services at its manufacturing plant located at 68AA, NSEZ, Noida, Uttar Pradesh, which is equipped with four high speed SMT lines having a total capacity of around 1800000 units.

## THE OFFER

INITIAL PUBLIC OFFER OF UPTO 65,78,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH (THE "EQUITY SHARES") OF SAHASRA ELECTRONIC SOLUTIONS LIMITED ("OUR COMPANY" OR "SESL" OR "THE OFFER") AT AN OFFER PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UP TO ₹ [●] LAKHS ("PUBLIC OFFER") COMPRISING OF A FRESH ISSUE OF UPTO 60,78,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ [●] LAKHS (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UPTO 5,00,000 EQUITY SHARES BY THE SELLING SHAREHOLDER ("OFFER FOR SALE") AGGREGATING TO ₹ [●] LAKHS COMPRISING BY AMRIT LAL MANWANI; OUT OF WHICH 3,29,600 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AT AN OFFER PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING ₹ [●] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE OFFER (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE PUBLIC OFFER LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. OFFER OF [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AT AN OFFER PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UPTO ₹ [●] LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE PUBLIC OFFER AND NET OFFER WILL CONSTITUTE 26.32% AND 25.00% RESPECTIVELY OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

### DETAILS OF SELLING SHAREHODLER, OFFER FOR SALE AND THE WEIGHTED AVERAGE COST OF ACQUISITION

Name of Selling Shareholder	Category of Shareholder	No. of Equity Shares Offered/ amount (in ₹ lakhs)	Weighted average cost of Acquisition (in ₹ per Equity Share)
Amrit Lal Manwani	Promoter Selling Shareholder	Up to 5,00,000 Equity Shares aggregating to ₹ [●] lakhs	10.00

- QIB PORTION:** NOT MORE THAN 50.00% OF THE NET OFFER
- NON-INSTITUTIONAL PORTION:** NOT LESS THAN 15.00% OF THE NET OFFER
- RETAIL PORTION:** NOT LESS THAN 35.00% OF THE NET OFFER
- MARKET MAKER PORTION:** UPTO 3,29,600 EQUITY SHARES OR 5.01% OF THE OFFER

**PRICE BAND: RS. 269 TO RS. 283 PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE RS. 10/- EACH**

**THE FLOOR PRICE IS 26.9 TIMES OF THE FACE VALUE AND THE CAP PRICE IS 28.3 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.**

**BIDS CAN BE MADE FOR A MINIMUM OF 400 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 400 EQUITY SHARES THEREAFTER.**

## RISKS TO INVESTORS

- Our business is dependent on the sale of our products to certain key customers which also includes some of our Group Companies. The loss of any of these customers or loss of revenue from sales to these customers could have a material adverse effect on our business, financial condition, results of operations and cash flows.
- We are significantly dependent on revenue from sale of PCBA. Any inability to anticipate or adapt to evolving up gradation of the required products or inability to ensure product quality or reduction in the demand of these products may adversely impact our revenue from operations and growth prospects.
- The Merchant Banker associated with the Issue has handled 58 SME public issues in the past three years out of which 1 Issue closed below the Offer Price on listing date.
- Average cost of acquisition of Equity Shares held by the Individual Promoters is

Sr. No.	Name of the Promoters	Average cost of Acquisition (in ₹)
1.	Amrit Lal Manwani	10.00
2.	Arunima Manwani	10.00
3.	Varun Manwani	10.00

and the Offer Price at the upper end of the Price Band is Rs. 283 per Equity Share.

- The Price/ Earnings ratio based on Diluted EPS for Fiscal 2024 for the company at the upper end of the Price Band is 15.68

- Weighted Average Return on Net worth for Fiscals 2024, 2023\* and 2022 is 63.16%. \*RoNW for the period March 31, 2023 have been calculated considering the combined PAT of the company for the period February 21, 2023 to March 31, 2023 and for the erstwhile proprietorship for the period April 01, 2022 to February 20, 2023 and divided by Networth as on March 31, 2023.
- The Weighted average cost of acquisition of all Equity Shares transacted in the last 1 year, 18 months and 3 years from the date of RHP is as given below:

Period	Weighted Average Cost of Acquisition (in Rs.)	Upper end of the Price Band (Rs. 283) is "X" times the weighted Average cost of Acquisition	Range of acquisition price: Lowest Price – Highest Price (in Rs.)
Last 1 year/ Last 18 months	202.00	1.40	202-202
Last 3 years	19.60	14.44	10-202

- The Weighted average cost of acquisition compared to floor price and cap price

Types of transactions	Weighted average cost of acquisition (₹ per Equity Shares)	Floor Price (i.e. ₹ 269)	Cap Price (i.e. ₹283)
WACA of primary issuance(exceeding 5% of the pre issue capital)	202.00	1.33 times	1.40 times
WACA for secondary sale / acquisition (exceeding 5% of the pre issue capital)	NA <sup>^</sup>	NA <sup>^</sup>	NA <sup>^</sup>

Note:

<sup>^</sup>There were no secondary transactions as mentioned in paragraph 8(b) above, in last 18 months from the date of the Red Herring Prospectus.

## BASIS FOR OFFER PRICE

Investors should read the following summary with the section titled "Risk Factors", the details about our Company under the section titled "Our Business" and its financial statements under the section titled "Financial Information of the Company" beginning on page 25, 95 and 142 respectively of the Red Herring Prospectus. The trading price of the Equity Shares of Our Company could decline due to these risks and the investor may lose all or part of his investment.

Price Band/ Offer Price shall be determined by our Company and Selling shareholder in consultation with the Book Running Lead Manager on the basis of the assessment of market demand for the Equity Shares through the Book Building Process and on the basis of the qualitative and quantitative factors as described in this section. The face value of the Equity Shares is ₹ 10/- each and the offer Price is 26.9 times of the face value at the lower end of the Price Band and 28.3 times of the face value at the upper end of the Price Band.

For the purpose of making an informed investment decision, the investors should also refer "Risk Factors", "Our Business" and "Financial Statement as restated" beginning on page 25, 95 and 142 respectively of this Red Herring Prospectus.

### QUALITATIVE FACTORS

We believe the following business strengths allow us to successfully compete in the industry and the following are our primary competitive strength:

- Dedicated solutions for ESDM services.
- Established relationships with customers
- Established manufacturing capabilities
- Quality Assurance
- Experienced Promoters, management and operating team

For a detailed discussion on the qualitative factors which form the basis for computing the price, please refer to sections titled "Our Business" beginning on page 96 of the Red Herring Prospectus.

### QUANTITATIVE FACTORS

The information presented below relating to our Company is based on the Restated Financial Statements. For details, please refer section titled "Financial Information of the Company" on page 142 of this Red Herring Prospectus.

Some of the quantitative factors which may form the basis for calculating the Offer Price are as follows:

- Basic & Diluted Earnings per share (EPS) (Face value of ₹ 10 each), as adjusted for change in capital:** As per the Restated Financial Statements;

Sr. No.	Period	(Amount in ₹)	Weights
1.	Period ending March 31, 2022	1.41	1
2.	Period ending March 31, 2023*	11.41	2
3.	Period ending March 31, 2024	18.05	3
	<b>Weighted Average</b>	<b>13.06</b>	

\*EPS for the period March 31, 2023 have been calculated considering the combined EPS of the company for the period February 21, 2023 to March 31, 2023 and for the erstwhile proprietorship for the period April 01, 2022 to February 20, 2023.

### Notes:

- The figures disclosed above are based on the Restated Financial Statements of the Company as adjusted with the effect of issue of Bonus shares.
- The face value of each Equity Share is ₹10.00.
- Earnings per Share has been calculated in accordance with Accounting Standard 20 – "Earnings per Share" issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
- The above statement should be read with Significant Accounting Policies and the Notes to the Restated Financial Statements as appearing in Annexure IV.
- Basic Earnings per Share = Net Profit/(Loss) after tax, as restated attributable to equity shareholders / Weighted average number of equity shares outstanding during the year/ period

vi. Diluted Earnings per Share = Net Profit/ (Loss) after tax, as restated attributable to equity shareholders / Weighted average number of diluted potential equity shares outstanding during the year/ period.

- Price Earning (P/E) Ratio in relation to the Price Band of ₹ 269 to ₹ 283 per Equity Share of Face Value of ₹ 10/- each fully paid up**

Particulars	(P/E) Ratio at the Floor Price	(P/E) Ratio at the Cap Price
P/E ratio based on the Basic & Diluted EPS, as restated for period ending March 31, 2024.	14.90	15.68
P/E ratio based on the Weighted Average EPS, as restated.	20.60	21.67

Industry P/E Ratio*	
Highest (Kaynes Technology India Limited)	181.56
Lowest (Trident Techlabs Limited)	153.99
<b>Industry Average</b>	<b>167.77</b>

\*For the purpose of industry, we believe the companies engaged in the same sector or engaged in the similar line of business segment, however, they may not be exactly comparable in terms of size or business portfolio on a whole with that of our business. Average PE have been calculated based on the PE of the Peer company of Kaynes Technology India Limited & Trident Techlabs Limited.

### Note:

- The P/E ratio has been computed by dividing Offer Price with EPS.
- P/E Ratio of the company is based on the exchange announcement of the company for the year 2024 and stock exchange data dated September 17, 2024.

- Return on Net worth (RoNW)\***

Sr. No.	Period	RoNW (%)	Weights
1.	Period ending March 31, 2024	54.09%	3
2.	Period ending March 31, 2023**	100.12%	2
3.	Period ending March 31, 2022	16.44%	1
	<b>Weighted Average</b>	<b>63.16%</b>	

\*Restated Profit after tax/Net Worth

\*\*RoNW for the period March 31, 2023 have been calculated considering the combined PAT of the company for the period February 21, 2023 to March 31, 2023 and for the erstwhile proprietorship for the period April 01, 2022 to February 20, 2023 and divided by Networth as on March 31, 2023.

### Note:

- The RoNW has been computed by dividing net profit after tax (excluding exceptional items) with restated Net worth as at the end of the year/period

- Net Asset Value (NAV) per Equity Share:**

Sr. No.	NAV per Equity Share*	Amount in ₹
1.	As at March 31, 2022	08.57
2.	As at February 21, 2023	13.55
3.	As at March 31, 2023	11.43
4.	As at March 31, 2024	33.37
5.	NAV per Equity Share after the Offer	
	i) At Floor Price	89.55
	ii) At Cap Price	92.96
6.	Offer Price	[●]

\*The above NAV has been calculated giving the effect of Bonus Shares

### Notes:

- The NAV per Equity Share has been computed by dividing restated networth with weighted average number of equity shares outstanding at the end of the year/ period.

- Comparison of Accounting Ratios with Industry Peers**

Name of Company	Current Market Price (₹)	Face Value (₹)	EPS * (₹)	PE	RoNW (%) *	Book Value (₹)	Total Income (₹ in Lakhs)
Sahasra Electronic Solutions Limited	[●]	10.00	18.05	[●]	54.09%	33.37	10278.79
<b>Peer Group</b>							
Kaynes Technology India Limited	5561.20	10.00	30.63	181.56	7.37	389.32	186053.50
Trident Techlabs Limited	850.00	10.00	5.52	153.99	20.12	26.95	7300.39

### Notes:

- Source – Annual report of the company for the year 2024 and stock exchange data dated September 17, 2024. For our Company, we have taken CMP as the Offer price of equity share. Further, P/E Ratio is based on the CMP of the respective scrip's.
- The EPS, NAV, RoNW and revenue from operations of the Company are taken as per Restated Financial Statement for the Financial Year 2023-24 as adjusted with the effect of Bonus Issue.
- P/E Ratio of the company is based on the Annual report of the company for the year 2024 and stock exchange data dated September 17, 2024.
- RoNW has been computed as net profit after tax divided by closing net worth.
- Net worth has been computed in the manner as specifies in Regulation 2(1) (hh) of SEBI (ICDR) Regulations, 2018.
- The face value of Equity Shares of our Company is ₹ 10/- per Equity Share and the Offer price is [●] times the face value of equity share.

- Key Performance Indicators**

The KPIs disclosed below have been used historically by our Company to understand and analyze the business performance, which in result, help us in analyzing the growth of various verticals in comparison to our peers.

The KPIs disclosed below have been approved by a resolution of our Audit Committee dated June 11, 2024 and the members of the Audit Committee have verified the details of all KPIs pertaining to our Company. Further, the members of the Audit Committee have confirmed that there are no KPIs pertaining to our Company that have been disclosed to any investors at any point of time during the three years period prior to the date of filing of this Red Herring Prospectus. Further, the KPIs herein have been certified by M/s. Kapoor Tandon & Co. Chartered Accountants, by their certificate dated June 11, 2024.

The KPIs of our Company have been disclosed in the sections titled "Our Business" and "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations – Key Performance Indicators" on pages 95 and 214, respectively. We have described and defined the KPIs, as applicable, in "Definitions and Abbreviations" on page 1 of this Red Herring Prospectus.

Our Company confirms that it shall continue to disclose all the KPIs included in this section on a periodic basis, at least once in a year (or any lesser period as determined by the Board of our Company), for a duration of one year after the date of listing of the Equity Shares on the Stock Exchange or till the complete utilisation of the proceeds of the Fresh issue as per the disclosure made in the Objects of the Offer Section, whichever is later or for such other duration as may be required under the SEBI ICDR Regulations.

Continued on next page



Continued from previous page

## Key Performance Indicators of our Company

(₹ In Lakhs except percentages and ratios)

Particulars	As of and for the year/period ended			
	March 31, 2024	February 22, 2023 to March 31, 2023	April 1, 2022 to February 21, 2023	March 31, 2022
Revenue from Operations <sup>(1)</sup>	10115.27	1043.1	5865.23	2175.65
EBITDA <sup>(2)</sup>	3526.58	246.23	1876.88	377.48
EBITDA Margin <sup>(3)</sup>	34.86%	23.61%	32.00%	17.35%
Profit After Tax (PAT)	3262.77	230.55	1794.56	250.17
PAT Margin <sup>(4)</sup>	32.26%	22.10%	30.60%	11.50%
ROE <sup>(5)</sup>	54.09%	11.37%	73.70%	16.44%
ROCE <sup>(6)</sup>	42.50%	9.11%	56.81%	16.30%

- Notes:**  
(1) Revenue from Operations means the Revenue from Operations as appearing in the Restated Financial Statements.  
(2) EBITDA is calculated as Profit before tax + Depreciation + Interest Cost - Other Income

- (3) 'EBITDA Margin' is calculated as EBITDA divided by Revenue from Operations  
(4) 'PAT Margin' is calculated as PAT for the period/year divided by revenue from operations.  
(5) Return on Equity is ratio of Profit after Tax and Shareholder Equity  
(6) Return on Capital Employed is calculated as EBIT divided by capital employed, which is defined as shareholders' equity plus total borrowings (current & non-current).

## Explanation for KPI metrics

KPI	Explanations
Revenue from Operations	Revenue from Operations is used by the management to track the revenue profile of the business and in turn helps to assess the overall financial performance of our Company and volume of our business in key verticals
EBITDA	EBITDA provides information regarding the operational efficiency of the business
EBITDA Margin (%)	EBITDA Margin (%) is an indicator of the operational profitability and financial performance of our business
PAT	Profit after tax provides information regarding the overall profitability of the business.
PAT Margin (%)	PAT Margin (%) is an indicator of the overall profitability and financial performance of our business.
RoE (%)	RoE provides how efficiently our Company generates profits from shareholders' funds.
RoCE (%)	ROCE provides how efficiently our Company generates earnings from the capital employed in the business.

## 7. Set forth below are the details of comparison of key performance of indicators with our listed industry peers:

(₹ In Lakhs except percentages and ratios)

Key Financial Performance	Sahasra Electronic Solutions Limited				Kaynes Technology India Limited			Trident Techlabs Limited		
	FY 2023-24	February 22, 2023 to March 31, 2023	April 1, 2022 to February 21, 2023	FY 2021-22	FY 2023-24	FY 2022-23	FY 2021-22	FY 2023-24	FY 2022-23	FY 2021-22
Revenue from operations <sup>(1)</sup>	10115.27	1043.1	5865.23	2175.65	180461.9	112611.40	70,624.90	7262.06	6,734.71	2,974.34
EBITDA <sup>(2)</sup>	3526.58	246.23	1876.88	377.48	25416.80	16650.5	9281	1596.92	888.37	435.25
EBITDA Margin (%) <sup>(3)</sup>	34.86%	23.61%	32.00%	17.35%	14.08%	14.79%	13.14%	21.99%	13.19%	14.63%
PAT(4)	3262.77	230.55	1794.56	250.17	18328.90	9519.6	4167.5	936.75	466.69	64.49
PAT Margin (%) <sup>(5)</sup>	32.26%	22.10%	30.60%	11.50%	10.16%	8.45%	5.90%	12.90%	6.93%	2.17%
RoE (%) <sup>(6)</sup>	54.09%	11.37%	73.70%	16.44%	10.63%	16.36%	24.25%	28.32%	28.34%	4.95%
RoCE (%) <sup>(7)</sup>	42.50%	9.11%	56.81%	16.30%	10.20%	14.52%	22.44%	24.26%	20.84%	8.32%

\*All the information for listed industry peer mentioned above are on a standalone basis and is sourced from their respective audited/ unaudited financial results and/or annual report.

- Notes:**  
(1) Revenue from Operations means the Revenue from Operations as appearing in the Restated Financial Statements/ Annual Reports of the respected  
(2) Growth in Revenue from Operations (%) is calculated as Revenue from Operations of the relevant period minus Revenue from Operations of the preceding period, divided by Revenue from Operations of the preceding period.  
(3) EBITDA is calculated as Profit before tax + Depreciation + Interest Cost - Other Income  
(4) 'EBITDA Margin' is calculated as EBITDA divided by Revenue from Operations  
(5) 'PAT Margin' is calculated as PAT for the period/year divided by revenue from operations.  
(6) Net worth means the aggregate value of the paid-up share capital and all reserves created out of the profits and securities premium account

## 8. Weighted average cost of acquisition

a) The price per share of our Company based on the primary/ new issue of shares (equity/convertible securities) Except as stated below, there has been no issuance of Equity Shares, during the 18 months preceding the date of this Red Herring Prospectus, where such issuance is equal to or more than 5% of the fully diluted paid-up share capital of the Company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction(s) and excluding employee stock options granted but not vested), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of 30 days.

Date of Allotment	No. of equity Shares allotted	Face value per Equity share (₹)	Issue price per Equity share (₹) (Including Securities Premium)	Nature of allotment	Nature of consideration	Total Consideration (in ₹ lakhs)
February 16, 2024	6,80,591	10/-	202/-	Private Placement	Cash	1374.79
February 29, 2024	2,64,672	10/-	202/-	Private Placement	Cash	534.64

b) The price per share of our Company based on the secondary sale/ acquisition of shares (Equity Shares) There have been no secondary sale/acquisitions of Equity Shares, where the promoters, members of the promoter group or shareholder(s) having the right to nominate director(s) in the board of directors of the Company are a party to the transaction (excluding gifts), during the 18 months preceding the date of this certificate, where either acquisition or sale is equal to or more than 5% of the fully diluted paid up share capital of the Company (calculated based on the pre-Offer capital before such transaction/s and excluding employee stock options granted but not vested), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling 30 days.

## Weighted average cost of acquisition, floor price and cap price:

Types of transactions	Weighted average cost of acquisition (₹ per Equity Shares)	Floor price (i.e. ₹ 269)	Cap price (i.e. ₹ 283)
Weighted average cost of acquisition of primary / new issue as per paragraph 8(a) above.	202.00	1.33 times	1.40 times
Weighted average cost of acquisition for secondary sale/ acquisition as per paragraph 8(b) above.	NA <sup>^</sup>	NA <sup>^</sup>	NA <sup>^</sup>

**Note:**  
<sup>^</sup>There were no secondary sale/ acquisition as mentioned in paragraph 8(b) above, in last 18 months from the date of this Red Herring Prospectus.

Sahasra Electronic Solutions Limited is a Book Built Issue and the price band for the same shall be published 2 working days before opening of the Offer in all editions of the English national newspaper Business Standard, all editions of Hindi national newspaper Business Standard and Delhi Edition of Regional newspaper Pratah Kiran where the registered office of the company is situated each with wide circulation.

The Offer Price of ₹ (●) has been determined by our Company and Selling Shareholder in consultation with the BRLM and will be justified by us in consultation with the BRLM on the basis of the above information. Investors should read the abovementioned information along with "Our Business", "Risk Factors" and "Restated Financial Statements" on pages 95, 25 and 142 respectively, to have a more informed view. The trading price of the Equity Shares of our Company could decline due to the factors mentioned in "Risk Factors" or any other factors that may arise in the future and you may lose all or part of your investments.

# BID/ OFFER PROGRAM

## BID/ OFFER OPENS ON<sup>(1)</sup>: THURSDAY, SEPTEMBER 26, 2024

## BID/ OFFER CLOSES ON: MONDAY, SEPTEMBER 30, 2024

<sup>(1)</sup>Our Company in consultation with the BRLM may consider participation by Anchor Investors. The Anchor Investor Bidding Date shall be one Working Day prior to the Bid/ Offer Opening Date in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations, 2018.

In case of any revisions in the Price Band, the Bid/ Offer Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/ Offer Period for a minimum of one working day, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding ten working days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/ Offer Period, if applicable, will be widely disseminated by notification to the Stock Exchange, by issuing a press release, and also by indicating the change on the website of the Book Running Lead Managers and the terminals of the other members of the Syndicate and by intimation to SCSBs, the Sponsor Bank, Registered Brokers, Collecting Depository Participants and Registrar and Share Transfer Agents.

The Offer is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b)(i) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 253 of the SEBI (ICDR) Regulations, as amended, wherein not more than 50% of the Net Offer shall be allocated on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs"), the "QIB Portion", provided that our Company may, in consultation with the Book Running Lead Managers, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations ("Anchor Investor Portion"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Net Offer shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID in case of RIBs using the UPI Mechanism, if applicable, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or by the Sponsor Bank under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Offer through the ASBA process. For details, see "Offer Procedure" beginning on page 259 of the Red Herring Prospectus.

**Bidders/ Applicants should note that on the basis of PAN, DP ID and Client ID as provided in the Bid cum Application Form, the Bidders/Applicants may be deemed to have authorized the Depositories to provide to the Registrar to the Offer, any requested Demographic Details of the Bidders/Applicants as available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for or unblocking of ASBA Account or for other correspondence(s) related to an Offer. Bidders/Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Applicants' sole risk. Bidders/Applicants should ensure that PAN, DP ID and the Client ID are correctly filled in the Bid cum Application Form. The PAN, DP ID and Client ID provided in the Bid cum Application Form should match with the PAN, DP ID and Client ID available in the Depository database, otherwise, the Bid cum Application Form is liable to be rejected. Bidders/Applicants should ensure that the beneficiary account provided in the Bid cum Application Form is active. Investors must ensure that their PAN is linked with AADHAR and are in compliance with CDDT Notification dated February 13, 2020 and press release dated June 25, 2021.**

**CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS:** For information on the main objects and other objects of our Company, see "History and Corporate Structure" on page 119 of the Red Herring Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Offer. For further details, see the section "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 298 of the Red Herring Prospectus.

**LIABILITY OF MEMBERS AS PER MOA:** The liability of the members is limited and this liability is limited to the amount unpaid, if any, on the shares held by them.

**AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE:** The Authorized share Capital of the Company is Rs. 25,00,00,000/- (Rupees Twenty-Five Crores) divided into 2,50,00,000 (Two Crore Fifty Lakhs Only) Equity Shares of Rs.10/- each. The issued, subscribed and paid-up share capital of the Company before the Offer Rs. 18,91,47,630 (Rupees Eighteen Crores Ninety One Lakhs Forty Seven Thousand Six Hundred Thirty only) divided into 1,89,14,763 (One Crore Eighty Nine Lakhs Fourteen Thousand Seven Hundred Sixty Three) Equity Shares of Rs. 10 each. For details of the Capital Structure, see "Capital Structure" on the page 57 of the Red Herring Prospectus.

**NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM:** Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association of our Company, Amrit Lal Manwani 1,79,64,500, Varun Manwani 1,200, Arunima Manwani 1,200, Varsha B P Manwani 1,200, Akshay Manwani 1,200, Narayan Balbasa 100 and Pintu Naskar 100 shares aggregating to 1,79,69,500 Equity Shares of Rs.10/- each. Details of the main objects of the Company as contained in the Memorandum of Association, see "History and Corporate Structure" on page 119 of the Red Herring Prospectus. For details of the share capital and capital structure of the Company see "Capital Structure" on page 57 of the Red Herring Prospectus.

**LISTING:** The Equity Shares issued through the Red Herring Prospectus are proposed to be listed on the NSE Emerge. Our Company has received an "in-principle" approval from the National Stock Exchange of India Limited (hereinafter referred to as NSE) for the listing of the Equity Shares pursuant to letter Ref.: NSE/LIST/4080 dated September 16, 2024. For the purposes of the Offer, the Designated Stock Exchange shall be NSE. A signed copy of the Red Herring Prospectus dated September 19, 2024 has been filed with the RoC and Prospectus shall be filed to the RoC in accordance with Section 26(4) of the Companies Act, 2013. For details of the material contracts and documents available for inspection from the date of the Red Herring Prospectus up to the Bid/ Offer Closing Date, see "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 298 of the Red Herring Prospectus.

**DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI"):** Since the Offer is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018. The Red Herring Prospectus has been filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Offer Document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI beginning on page 241 of the Red Herring Prospectus.

**DISCLAIMER CLAUSE OF NSE ("NSE EMERGE") (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE):** It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to the Offer Document for the full text of the Disclaimer Clause of NSE.

**TRACK RECORD OF BOOK RUNNING LEAD MANAGERS:** The Merchant Banker associated with the Issue has handled 58 SME public issues in the past three years out of which 1 Issue closed below the Issue Price on listing date.

**GENERAL RISK:** Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Offer unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issuer and this Offer, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" on page 25 of the Red Herring Prospectus.




**ASBA\* | Simple, Safe, Smart way of Application- Make use of it!!!** \*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For details, check section on ASBA below. Mandatory in Public Issues from January 01, 2016. No cheque will be accepted

**UPI** UNIFIED PAYMENTS INTERFACE UPI-Now available in ASBA for Retail Individual Investors (RII)\*\*

Investors are required to ensure that the bank account used for bidding is linked to their PAN. UPI – Now available in ASBA for RIIs applying through Registered Brokers, DPs & RTAs. RIIs also have the option to submit the application directly to the ASBA Bank (SCSBs) or to use the facility of linked online trading, demat and bank account. Investors have to apply through the ASBA process. "ASBA has to be availed by all the investors except anchor investor. UPI may be availed by Retail Individual Investors. For details on the ASBA and the UPI process, please refer to the details given in ASBA form and abridged prospectus and also please refer to the section "Offer Procedure" beginning on page 259 of the Red Herring Prospectus. The process is also available on the website of Association of Investment Bankers of India ("AIBI"), the Stock Exchanges and in the General Information Document.

\*ASBA forms can be downloaded from the website of NSE ("NSE Emerge")

\*\*List of banks supporting UPI is also available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. ICICI Bank Limited has been appointed as Sponsor Bank for the Offer, in accordance with the requirements of the SEBI circular dated November 1, 2018, as amended. For UPI related queries, investors can contact NPCI at the toll free number-18001201740 and Mail Id- ipo.upi@npci.org.in. For the list of UPI Apps and Banks live on IPO, please refer to the link www.sebi.gov.in. For Offer related grievance investors may contact: Hem Securities Limited- Sourabh Garg (+91 141 4051000) (Email Id: ib@hemsecurities.com).

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE OFFER	REGISTRAR TO THE OFFER	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
 <b>HEM SECURITIES LIMITED</b> Address: 904, A Wing, Naman Midtown, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Lower Parel, Mumbai-400013, Maharashtra, India Tel. No.: +91- 022- 49060000; Fax No.: +91- 022- 22625991 Email: ib@hemsecurities.com Investor Grievance Email: redressal@hemsecurities.com Website: www.hemsecurities.com; Contact Person: Sourabh Garg SEBI Regn. No. INM000010981	 <b>BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED</b> Address: S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai – 400093, Maharashtra India. Telephone: +91 22 6263 8200; Facsimile: +91 22 6263 8299 Email: ipo@bigshareonline.com Investor Grievance Email: investor@bigshareonline.com Website: www.bigshareonline.com; Contact Person: Vinayak Morbale SEBI Regn. No.: INFRO0001385	 <b>NEHA TAHIR SAHASRA ELECTRONIC SOLUTIONS LIMITED</b> Registered Office: 33, Pocket 1, Jasola Vihar New Friends Colony, South Delhi-110025, New Delhi, India. Corporate Office: 68-AA Noida Special Economic Zone, Nepz Post Office, Gautam Buddha Nagar, Noida-201305, Uttar Pradesh, India. Tel No: +91-120-4202604; E-mail: cs@sahasraelectronics.com; Website: www.seslimited.in Investors can contact the Company Secretary and Compliance Officer or the BRLMs or the Registrar to the Offer in case of any pre-offer or post-offer related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account and refund orders, etc.

**AVAILABILITY OF RED HERRING PROSPECTUS:** Investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Offer. Full copy of the Red Herring Prospectus is available on the website of the Company at https://www.seslimited.in/ipo.html the website of the BRLM to the Offer at www.hemsecurities.com, the website of NSE Emerge at https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-offer-documents#smc\_offer respectively.

**AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS:** Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: Sahasra Electronic Solutions Limited, Tel No: +91-120-4202604; BRLM: Hem Securities Limited, Telephone: +91-22-4906 0000 and the Syndicate Members: Hem Finlease Private Limited, Telephone: +91-22-49060000 and at the selected locations of the Sub-Syndicate Members, Registered Brokers, RTAs and CDPs participating in the Offer. Bid-cum-application Forms will also be available on the websites of NSE and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the stock exchanges and SEBI.

**ESCROW COLLECTION BANK/ REFUND BANK/ PUBLIC OFFER ACCOUNT BANK/ SPONSOR BANK:** ICICI Bank Limited. **LINK TO DOWNLOAD ABRIDGED PROSPECTUS:** https://www.seslimited.in/ipo.html **UPI:** Retail Individual Bidders can also Bid through UPI Mechanism.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus.

Place: Delhi  
Date: September 19, 2024

On behalf of Board of Directors

Sahasra Electronic Solutions Limited

Sd/-

Neha Tahir

Company Secretary and Compliance Officer

**Disclaimer:** Sahasra Electronic Solutions Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares the Red Herring Prospectus dated September 19, 2024 has been filed with the Registrar of Companies, Delhi, and thereafter with SEBI and the Stock Exchanges. The RHP is available on the website of NSE Emerge at https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-offer-documents#smc\_offer and is available on the websites of the BRLM at www.hemsecurities.com. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the Red Herring Prospectus including the section titled "Risk Factors" beginning on page 25 of the Red Herring Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in "offshore transactions" in reliance on Regulation "S" under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States.







## संक्षिप्त खबरें

**डॉ. अमित वर्मा को गणेश महोत्सव में सरहानीय योगदान के लिए किया गया सम्मानित**



रघोहारा नगर भर में चल रहे गणेश महोत्सव के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने में व्यापारी व भाजपा नेता अरुण वर्मा और उनके परिवार का भी विशेष और सरहानीय सहयोग रहा जिसके चलते बड़ा बाजार की गणेश कमिटी द्वारा अरुण वर्मा की अनुपस्थिति में उनके पुत्र एवम उनके जनप्रतिनिधि एड. अमित वर्मा को पटका और पगड़ी पहनाकर और कृष्ण भगवान की मूर्ति देकर सम्मानित किया गया जिसका आभार व्यक्त करते हुए एड. अमित वर्मा ने कहा कि भगवान गणेश जी की अर्चना और आस्था हम सब को पूर्ण श्रद्धा से करनी चाहिए और इस बार भी हम सबने जो सहयोग और श्रद्धा के साथ गणेश उत्सव पूरी श्रद्धा से बनाया है यही उत्साह और श्रद्धा आगे भी बनी रहनी चाहिए इस मौके पर कमिटी की ओर से पंकुल रस्तोगी, जीलू रस्तोगी, पिंकी रस्तोगी, डा सौरभ वर्मा, हेमराज आदि भी मौजूद रहे।

## दहेज के लिए सुसलाल वालों ने विवाहिता को घर से निकाला

मण्डी धनौरा। दहेज में बोलेरो और रुपये नहीं मिलने पर सुसलाल वालों ने विवाहिता को पीटकर घर से निकाल दिया। एएसपी के आदेश पर सुसलाल वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के नेकपुर गांव निवासी रश्मि की शादी मार्च माह में रजबपुर थाना क्षेत्र के फरीदपुर गांव निवासी मनोज के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के दिन बाद ही सुसलाल वालों ने विवाहिता से दहेज में बोलेरो व रुपये की मांग कर दी। मांग पूरी नहीं होने पर सुसलाल वालों ने विवाहिता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। कभरे में भ्रूषा व प्यासा रखा तथा पीटकर घर से निकाल दिया। सीओ श्वेताभ भास्कर ने मनोज व अन्य सुसलाल वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही।

## पशु चिकित्सक ने किया बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा, पशुओं को विनाश से बचाने के बताए उपाय

मण्डी धनौरा। डा. आभा दत्त ने बाढ़ ग्रस्त गांवों का दौरा कर ग्रामीणों को पशुओं में होने वाली बीमारियों व उनसे बचने के उपाय बताए। पशु चिकित्सिकारी ने बाढ़ग्रस्त गांव मीरापुर, बिसावली, रमपुरा, चकनवाला, देवीपुरा आदि का दौरा कर पावन संबंधी, त्वचा संबंधी, फंगल संक्रमण, वायरल आदि बीमारियों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बीमार पशुओं को दवाइयों का वितरण किया। इस मौके पर पशु चिकित्सिकारी डा. भागेश कुमार, सुरेंद्र सिंह, सुरेश कुमार, धर्मापाल सिंह, नौसिंह, जयप्रकाश और लोकेश आदि रहे।

## निवर्तमान अध्यक्ष हरिओम मौर्य ने दी सुर्य प्रकाश को जन्मदिन की बधाई

रामपुर। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष सुर्यप्रकाश पाल को उनके जन्मदिन के मौके पर उनके निवास स्थान पर नगर पंचायत मजवासी के निवर्तमान अध्यक्ष हरिओम मौर्य ने बुके देकर शुभकामनाएं दी तथा मिष्ठान खिलाकर उनके दीर्घायु एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की तथा केक काटकर घुमघुमाम से उनका जन्मदिन मनाया। इस मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे।

## शिक्षक विधायक ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात

अमरोहा। शिक्षक विधायक डॉ. हरी सिंह दिल्ली ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट कर शिक्षकों एवं निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषयों व समस्याओं से अवगत कराया। वर्ष 1981 से वर्ष 2020 के मध्य नियुक्त शिक्षकों की जांच संबंधी आदेश को निरस्त किए जाने की मांग की। इस दौरान विधायक उमेश द्विवेदी भी मौजूद रहे।

# बालिकाओं को आत्मरक्षा का उपयोग कानूनी अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है: विभा श्रीवास्तव

प्रातः किरण, संवाददाता

अमरोहा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत 15 सितंबर से 25 सितंबर 2024 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस के अवसर पर डिप्टी कलेक्टर विभा श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सेप्टी वर्कशॉप राजकीय बालिका इंटर कालेज और हाशमी इंटर कालेज में अनाता (प्रेरक महिलाओं तथा बालिकाओं की पहचान व सम्मान) जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें बालिकाओं को डिफेंस का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

विभा श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर द्वारा बालिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि बालिकाओं को आत्मरक्षा का उपयोग कानूनी अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, जिसे आत्मरक्षा का अधिकार कहा जाता है। आज की



दुनिया में खुद की सुरक्षा करना जानना बहुत जरूरी है। महिलाएँ एवं बालिकाएं अपने जीवन काल में किसी न किसी के हिंसक हमले का शिकार होती हैं। प्रशिक्षण हमले को रोकना सिखाता है इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा

चलाई जा रही योजना के सम्बन्ध में तथा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला जिसमें योजना की बढ़ाई गई धनराशि के बारे में एवं स्यान्सरशिप योजना, निराश्रित पेंशन योजना के बारे में विस्तार से बताया गया, साथ ही वन स्टॉप सेंटर तथा चाइल्ड हेल्पलाइन की

कार्यप्रणाली एवं वहां प्राप्त होने वाली सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ में 18वर्ष से कम उम्र के बालक/ बालिकाओं के साथ हों रही यौन हिंसा से बचने व उनकी शिकायत करने एवं अपनी बात खुलकर रखने के बारे में जानकारी दी गई और उनके अधिकारों के बारे में बताया गया। सरकार द्वारा संचालित हेल्पलाइन नंबर 1098, 181, 1090, 112, 1076 की जानकारी भी प्रदान की गई। दहेज प्रथा को समाप्त करने, बाल विवाह की कुप्रथा को रोकने, बाल श्रम को रोकने के लिए सभी को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम के अवसर पर विभा श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर महोदया, ममता दुबे, वन स्टॉप सेंटर (सेंटर मैनेजर), करुणा निधि, मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता एवं प्रधानाचार्य, अध्यापिका, अध्यापक, आदि उपस्थित रहे।

# यश पब्लिक स्कूल के छात्र- छात्राओं को किया स्वच्छता के प्रति जागरूक



प्रातः किरण, संवाददाता

गजरोला। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छता प्रभारी एवं लेखाकार आदेश कुमार द्वारा यश पब्लिक स्कूल की छात्र एवं छात्राओं को स्वच्छता की शायथ पिलाई गई तथा छात्र एवं छात्राओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। तथा

छात्र एवं छात्राओं को बताया गया कि अपने अपने घरों में सुखा व गीला कूड़ा अलग-अलग डस्टबिन में रखें तथा नगर पालिका की गाड़ी आने पर उसको अलग-अलग करके ही अलग-अलग डस्टबिन में डालें तथा सिंगल यूज प्लास्टिक का पूर्णतया बहिष्कार करें। इस अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन आईटीसी एक्सपर्ट श्री

सहवाज हुसैन श्री तरवेज श्रीमती वंदना अग्रवाल सफाई प्रभारी अजय कुमार, लिपिक श्री ललित कुमार, सफाई नायक श्री महेश कुमार श्री दीपू कुमार श्री कपिल भटनागर श्री शुभम सिंगल विभोर जितेंद्र वंशिक गौरव कुमार सुमित कुमार रामपाल व्यास ओम प्रकाश आदि कर्मचारी एवं अधिकारियों उपस्थित रहे।

# कलेक्ट्रेट पर राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन का प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन

प्रातः किरण, संवाददाता

बिजनौर/स्योहरा। राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन का दिव्यांगों के हितों में किया जाने वाला पहले से तम शुदा धरना प्रदर्शन राष्ट्रीय अध्यक्ष एम.आर. पाशा के नेतृत्व में किया गया इससे पहले राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन की एक बैठक बुधवार को गन्ना समिति बिजनौर में आयोजित की गई। जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष एमआर पाशा तथा संचालन जिला उपाध्यक्ष मास्टर साकिर व जीवन अग्रवाल ने संयुक्त रूप से किया। गन्ना समिति से दिव्यांगों को जूलूस प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी के कार्यालय पर एसडीएम बिजनौर को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन



के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमआर पाशा ने कहा उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों की संख्या दो करोड़ तथा पूरे भारतवर्ष में 11 करोड़ है। और जिला बिजनौर में दिव्यांगों संख्या 40000 से अधिक है लेकिन अभी दिव्यांगों के लिए दी जाने वाली सुविधाओं का अभाव है। इसलिए दिव्यांग जन

अपनी समस्त मांगों को लेकर ये ज्ञापन दिया। और धरना प्रदर्शन भी किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष एम.आर. पाशा ने कहा हमारे द्वारा दिये गये विज्ञापन में उल्लिखित दिव्यांगों की समस्याओं का प्रशासन जल्द से जल्द निस्तारण करें। समस्त सरकारी विभागों में दिव्यांग जनों को सम्मान दिया जाए

तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें रोजगार के लिये ऋण दिया जाए। ताकि वह अपना रोजगार कर सकें। झालू नगर पंचायत में कार्यरत शाकिर अली जो दिव्यांग है उसको सविदा से हटा दिया गया है उनको सविदा पर रखा जाए उन्होंने कहा कि दिव्यांग जनों का उत्पीड़न किसी भी कीमत

# धान की पराली जलाने के घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन सख्त

प्रातः किरण, संवाददाता

अमरोहा। धान की पराली जलाने की घटनाओं को रोकने को प्रशासन सख्त हो गया है। जनपद और तहसील स्तर पर टीमें का गठन किया गया है। साथ ही लखनऊ और दिल्ली से लगातार सेटलाइट द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। उप कृषि निदेशक राम प्रवेश के मुताबिक फसल अवशेष जलाने से होने वाले दुष्प्रभाव से किसानों को अवगत कराने को जागरूकता अभियान चलाया गया है। इसके अंतर्गत फसल का अवशेष का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, इस संबंध में किसानों को जानकारी दी जा रही है। साथ ही गन्ने की पत्ती व धान की पराली व अन्य फसलों के अवशेष को नष्ट कराने के लिए डी कंपोजर मलचर का प्रयोग

करने के प्रति किसानों को जागरूक अगला किया जा रहा है। बताया कि फसल अवशेष जलाने से निकलने लेख कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड गैस बहुत ही खतरनाक है जो लगातार पर्यावरण को दूषित कर रही है। यदि इस पर विचार नहीं किया गया रोक नहीं लाई गई तो परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी किसान फसल अवशेष निस्तारण के लिए उपयुक्त विधि को प्रयोग में लाएं। यदि फसल अवशेष में पराली अधिक चलाया गया है। इसके अंतर्गत फसल का अवशेष का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, इस संबंध में किसानों को जानकारी दी जा रही है। साथ ही गन्ने की पत्ती व धान की पराली व अन्य फसलों के अवशेष को नष्ट कराने के लिए डी कंपोजर मलचर का प्रयोग

प्रातः किरण, संवाददाता

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने गुरुवार को कहा कि जाति और संप्रदायवादी राजनीति में उलझी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और अन्य विपक्षी दलों के प्रति जनता का विरवास डगमगा रहा है और ऐसे में जनहित और जनकल्याण जैसे मुद्दों को प्रखरता से उठाने वाली उनकी पार्टी के लिये आगामी विधानसभा उपचुनाव में भरपूर अवसर है। विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिये बुलायी गयी प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की बैठक को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार और विपक्षी पार्टियों के बीच जनहित व जनकल्याण के ज्वलंत मुद्दों को लेने की बजाय केवल जातिवादी, साम्प्रदायिक व

जाति-बिरादरी पर आधारित संकीर्ण राजनीति करने से इनके विरुद्ध जन विश्वास में कमी आयी है। ऐसे में बसपा को मुस्तीदी से अपनी पैठ जनता के बीच बनानी चाहिये जिसका लाभ उपचुनाव में मिलेगा। उन्होंने कहा कि गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार के दावों को अगर मान भी लिया जाए तो यह यूपी की विशाल आबादी के हिसाब से उठ के मुँह में जीरा जैसा होगा। ऐसे में इनकी स्थिति सुधरने वाली नहीं है बल्कि सरकारी नौकरी में भी भारी बैकलॉग व्याप्त है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि प्रदेश के करोड़ों गरीब, बेरोजगार, महिला, छोटे व्यापारी व अन्य मेहनतकश लोगों को राहत, सुविधा व सुरक्षा की धोर कमी है जबकि हर प्रकार की असुरक्षा, शोषण एवं उत्पीड़न ज्यादा है। अधिकतर मामलों में सरकारी वादे

पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में जिला अध्यक्ष मोहम्मद खालिद, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मास्टर एजाज अहमद, जिला उपाध्यक्ष मास्टर शाकिर, ब्लॉक अध्यक्ष विनीत कुमार, शाहजाद गोविंदपुर वाले, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिला सचिव इकबाल उस्मानी, सुशील कुमार वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंदपुर वाले, अकरम अली राष्ट्रीय महासचिव, जुबेर अहमद मंडल अध्यक्ष, नदीम अहमद नगर अध्यक्ष नगीना, शबाना खातून, आमिर जहाँ, पिंकी देवी दीप सिंह वरिष्ठ पदाधिकारी रोहित कुमार वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेन्द्र सिंह जाहिद अंसारी, मोहम्मद आफिल, मोहम्मद अलमल, नसीम अहमद मंडल अध्यक्ष, मोहम्मद वसीम वाइस प्रेसिडेंट आदि सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

# 120 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी योगी सरकार, विभिन्न रुटों पर होगा संचालन

प्रातः किरण, संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 120 इलेक्ट्रिक बसें को खरीदेगी। इसका संचालन लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद, अयोध्या और गोरखपुर क्षेत्रों में होगा। योगी सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बेड़े में 120 इलेक्ट्रिक बसें (100 के अतिरिक्त) के शामिल करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। जल्द ही विभागीय तर्फ से निविदा की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये बसें अलीगढ़, मुरादाबाद, लखनऊ, अयोध्या एवं गोरखपुर क्षेत्र में संचालित की जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसें सुविधायुक्त, अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होंगी। इलेक्ट्रिक-मुरादाबाद क्षेत्र में 30-30 इलेक्ट्रिक बसें, लखनऊ, अयोध्या एवं गोरखपुर क्षेत्र में 20-20 इलेक्ट्रिक बसें

संचालित की जाएंगी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के मुताबिक अलीगढ़ क्षेत्र में अलीगढ़-नोएडा वाया जेवर 10, अलीगढ़-बालाबाग-फरीदाबाद चार, अलीगढ़-मथुरा चार, अलीगढ़-कौशांबी वाया खुर्जा आठ, अलीगढ़-डिबाई-अनुपशहर-संभल-मुरादाबाद रूट पर चार बसें संचालित होंगी। इसी प्रकार मुरादाबाद क्षेत्र में कुल 30 इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएंगी। मुरादाबाद-कौशांबी रूट पर 10, मुरादाबाद-मेरठ रूट पर छह, मुरादाबाद-नजीबाबाद कोटवार रूट पर चार, कटघर-बरेली रूट पर दो, कटघर-हल्द्वानी रूट पर चार, कटघर-अलीगढ़ रूट पर दो एवं कटघर-रामनगर रूट पर दो इलेक्ट्रिक बसें का संचालन किया जायेगा। लखनऊ क्षेत्र में न्यू बाराबंकी स्टेशन-अवध बस स्टेशन रूट पर 20 इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएंगी।

# विस उपचुनाव में बसपा के लिये मौका: मायावती

प्रातः किरण, संवाददाता

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने गुरुवार को कहा कि जाति और संप्रदायवादी राजनीति में उलझी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और अन्य विपक्षी दलों के प्रति जनता का विरवास डगमगा रहा है और ऐसे में जनहित और जनकल्याण जैसे मुद्दों को प्रखरता से उठाने वाली उनकी पार्टी के लिये आगामी विधानसभा उपचुनाव में भरपूर अवसर है। विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिये बुलायी गयी प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की बैठक को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार और विपक्षी पार्टियों के बीच जनहित व जनकल्याण के ज्वलंत मुद्दों को लेने की बजाय केवल जातिवादी, साम्प्रदायिक व

जाति-बिरादरी पर आधारित संकीर्ण राजनीति करने से इनके विरुद्ध जन विश्वास में कमी आयी है। ऐसे में बसपा को मुस्तीदी से अपनी पैठ जनता के बीच बनानी चाहिये जिसका लाभ उपचुनाव में मिलेगा। उन्होंने कहा कि गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार के दावों को अगर मान भी लिया जाए तो यह यूपी की विशाल आबादी के हिसाब से उठ के मुँह में जीरा जैसा होगा। ऐसे में इनकी स्थिति सुधरने वाली नहीं है बल्कि सरकारी नौकरी में भी भारी बैकलॉग व्याप्त है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि प्रदेश के करोड़ों गरीब, बेरोजगार, महिला, छोटे व्यापारी व अन्य मेहनतकश लोगों को राहत, सुविधा व सुरक्षा की धोर कमी है जबकि हर प्रकार की असुरक्षा, शोषण एवं उत्पीड़न ज्यादा है। अधिकतर मामलों में सरकारी वादे



व दावे कोरे व कागजी है।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकारों में द्वेषपूर्ण व विध्वंसक बुलडोजर राजनीति का उच्चतम न्यायालय द्वारा रोज से ही सही मगर उचित संत्रान लेने से लोगों में थोड़ी राहत है। मायावती ने कहा कि एक देश, एक चुनाव की व्यवस्था के तहत देश में लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय निकाय का चुनाव एक साथ कराने वाले प्रस्ताव पर उनकी पार्टी का रुख

सकारात्मक है लेकिन इसका उद्देश्य देश व जनहित में होना जरूरी है। बसपा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में महिला असुरक्षा भी चिन्तित करने वाला बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर भी जातिवादी द्वेष व साम्प्रदायिक पक्षपात आदि की राजनीति और उसी के हिसाब से कानून का इस्तेमाल वास्तव में स्थिति को और भी अधिक गंभीर व तनावपूर्ण बना रहा है उन्होंने कहा कि एससी/एसटी

व ओबीसी आरक्षण के प्रति संकीर्ण जातिवादी रवैया अपनाने का मामला है तो इसमें न तो भाजपा/एनडीए तथा ना ही कांग्रेस-सपा व इनका इण्डिया गठबंधन भी कोई एक-दूसरे से पीछे है, बल्कि दोनों का चाल, चरित्र व चेहरा पहले की तरह आज भी वही घोर आरक्षण-विरोधी भासा हुआ है, भले ही वे पार्टियाँ इन वर्गों के वोट की खिन्ना अपना रंग गिरगिट की तरह बदलते रहते हैं, लेकिन इनके छलावा में अब और नहीं आना है।

सूत्री मायावती ने कहा कि एससी, एसटी व ओबीसी आरक्षण भी चिन्तित करने वाला बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर भी जातिवादी द्वेष व साम्प्रदायिक पक्षपात आदि की राजनीति और उसी के हिसाब से कानून का इस्तेमाल वास्तव में स्थिति को और भी अधिक गंभीर व तनावपूर्ण बना रहा है उन्होंने कहा कि एससी/एसटी

# अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर कसा तंज, बोले-मेड़ियों को नहीं पकड़ पा रहे तो एसटीएफ को टोकने के लिए कह दो

प्रातः किरण, संवाददाता

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को योगी सरकार कटाक्ष किया है। अखिलेश यादव ने एसटीएफ को सरेआम ठोको फोर्स करार देते हुए कहा कि आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए इसे बहराइच भेजा जाना चाहिए। अखिलेश यादव गुरुवार को भेड़ियों के हमले से परेशान जिलों के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि भाजपा सरकार आने के बाद से ही जानवरों का आतंक बढ़ रहा है। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यूपी में जानवरों



की समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि पूरा रोडमैप तैयार है लेकिन अब हमले बढ़ गए हैं। जंगल के आसपास के जिलों में हमले बढ़ गए हैं। अब गौदड़ और

भेड़िए से बहराइच और आसपास के जिलों के लोग खौफ में हैं। उन्होंने योगी सरकार पर गरीबों से भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि जानवरों के हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को

10 लाख रुपये और घायलों को पांच लाख रुपये दिए जाएं। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए एसटीएफ बनाई जाए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि बहराइच लाइफ मैनेजमेंट के लिए जारी किए गए अरबों रुपये कहाँ गए। भेड़ियों को नहीं पकड़ पा रहे तो एसटीएफ को टोकने के लिए कह दिया जाए। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आगे कहा कि भाजपा सरकार हर बात छिपाना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान अलग आ रहे हैं। मैंने कभी भी किसी साधु-संत के लिए कुछ नहीं कहा है। जिसे क्रोध आता है वो योगी कैसे हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे सीएम मठाधीश मुख्यमंत्री हैं।

# मथुरा के पास मालगाड़ी के 26 डिब्बे पटरी से उतरे

प्रातः किरण, संवाददाता

मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में राजस्थान के सूरतगाढ़ पावर प्लांट के लिए कोयला ले जा रही एक मालगाड़ी के 26 डिब्बे वृंदावन के पास पटरी से उतर गए। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।



मथुरा जंक्शन के स्टेशन निदेशक एस.के. श्रीवास्तव ने घटना की पुष्टि की। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि दिल्ली जा रही मालगाड़ी के 26 डिब्बे रात करीब साढ़े आठ बजे उत्तर मध्य रेलवे के वृंदावन रोड और अजहाई स्टेशनों के बीच पटरी से उतर गए।

उन्होंने बताया कि कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए हैं जबकि अन्य पलट गए हैं। अधिकारियों ने बताया, पलट हुए डिब्बों की सही संख्या का पता लगाया जा रहा है। आगरा रेल मंडल के प्रबंधक तेज प्रकाश अग्रवाल ने संवाददाताओं को बताया कि राजस्थान के सूरतगाढ़ पावर प्लांट के लिए जा रही एक मालगाड़ी के डिब्बे रात करीब

आठ बजे वृंदावन याई को पार करते वक्त पटरी से उतर गये। उन्होंने बताया कि इस घटना की वजह से तीन रेलवे लाइनों पर यातायात ठप हो गया है। अग्रवाल ने बताया कि घटना के कारणों का अभी पता नहीं लग पाया है। उन्होंने बताया कि प्रभावित रेल यातायात को बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है।

# अयोध्या के दीपोत्सव से सपा मुखिया अखिलेश-कांग्रेस व पाकिस्तान को होती है परेशानी : योगी

प्रातः किरण, संवाददाता

अयोध्या। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। सीएम योगी ने अयोध्या की मिलकीपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि सपा सरकार में माफिया की पैरर सरकार चलती थी। अबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था। अबुआ दोषपूर्ण में 12 बजे सोकर उठता था। प्रदेश की जनता पिसती थी। माफियाओं के आगे सरकार नाक रगड़ती थी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अयोध्या के विकास से समाजवादी पार्टी परेशान है। सीएम ने कहा कि त्रेतायुग में भी यही हुआ था। रामद्वीही कभी भी अयोध्या का विकास नहीं होने



देना चाहते। दरअसल, पिछले दिनों अयोध्या में जमीन खरीद के मामले पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा था। अब योगी सार्वजनिक सभा के जरिए अखिलेश को जवाब देते दिख रहे हैं। सीएम योगी ने जनसभा में कहा कि यूपी देश के विकास का प्रोथ इंजन है। 2017 के पहले प्रदेश के विकास में

बैरियर था। 2017 के पहले गरीबों का भोजन सपा के गुंडे ले जाते थे। सीएम ने हमला करते हुए कहा कि प्रदेश में जितने भी माफिया हैं, वह सपा से जुड़े हुए थे। सपा की सरकार के कार्यकाल में माफिया ही सरकार चलती थी। सीएम ने कहा कि समाजवादी सरकार के दौरान गरीब का भोजन लूटते थे, जमीन कब्जा करते थे, जब उन पर

कार्रवाई होगी तो सरगना तो परेशान होगा ही। सीएम योगी ने अखिलेश यादव के अयोध्या में जमीन घोटाले के आरोपों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जमीन का कोई घोटाला नहीं हुआ है। दीपोत्सव पर जब अयोध्या में दीप जलते हैं तो परेशानी सपा मुखिया और पाकिस्तान दोनों को होती है। इनको विवादित

ढांचा प्यारा था, जिसे रामभक्तों ने नैसतनाबूद कर दिया। सीएम ने कहा कि उसके हथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं। सपा का सारा कच्चा-चिड़्डा सामने आएगा तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में जितने अपराध में लिप्त हैं माफिया हैं, सब इनके चाचाजान थे। माफिया के सामने नाक रगड़ने वाला आज संत-महात्माओं को माफिया कहता है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने 2017 में सरकार बनने के बाद एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स बनाई। सपा के माफिया और मुंडों ने जो जमीन कब्जा की थी। 64,000 हेक्टेयर जमीन को इनके कब्जे से मुक्त कराया। जब गुणों से जमीन को मुक्त कराएँगे, तो सरगना

को तो परेशानी तो होगी ही होगी। योगी ने कहा कि अयोध्या में जब-जब दीप जलते हैं तो परेशानी दो लोगों को होती है। सपा का सारा कच्चा-चिड़्डा सामने आएगा तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में जितने अपराध में लिप्त हैं माफिया हैं, सब इनके चाचाजान थे। माफिया के सामने नाक रगड़ने वाला आज संत-महात्माओं को माफिया कहता है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने 2017 में सरकार बनने के बाद एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स बनाई। सपा के माफिया और मुंडों ने जो जमीन कब्जा की थी। 64,000 हेक्टेयर जमीन को इनके कब्जे से मुक्त कराया। जब गुणों से जमीन को मुक्त कराएँगे, तो सरगना

# मंदिर के पास बनी मजार को तोड़कर शिवलिंग स्थापित किया, पुलिस बल तैनात

शाहजहांपुर। जिले के एक गांव में अराजक तत्वों ने कथित तौर पर मंदिर के पास बनी मजार को तोड़कर वहां शिवलिंग स्थापित कर दिया जिसे बाद में पुलिस ने हटवाया और स्थिति को सामान्य किया। पुलिस ने यह जानकारी दी। इस मामले में पुलिस ने मंदिर के पुजारी तथा कुछ अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है और गांव में बड़ी संख्या में पुलिस तथा पीएसबी बल को तैनात किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) मनोज अवस्थी ने बृहस्पतिवार को बताया कि थाना सिधौली अंतर्गत सहोरा गांव में एक मंदिर के पास दो मजार हैं। उन्होंने कहा कि मजारों पर एक समुदाय के लोगों ने झालर लगाकर सजावट की थी और पुलिस ने यह सूचना मिलने पर मंगलवार को झालर आदि हटवा दी थी।



# ओडिशा की भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे, मुख्यमंत्री माझी पुरी में सौपेंगे रिपोर्ट कार्ड

भुवनेश्वर, एअॅसी

ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के बृहस्पतिवार को सत्ता में 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज पुरी में आयोजित एक समारोह में अपनी सरकार द्वारा अब तक किए गए कामकाज का ब्यौरा देंगे। भाजपा की ओडिशा ईकाई के अध्यक्ष मनमोहन सामल ने कहा कि इस अवसर पर पुरी में

एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य सरकार को लोगों के लिए सुलभ बनाना है। भाजपा ने इस साल ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजू जनता दल (बीजद) को हराया था। जिसके बाद ब्योझर जिले के आदिवासी नेता चुके माझी ने 12 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। पुरी में होने वाले कार्यक्रम में माझी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, केंद्रीय मंत्री, विधायक, सांसद और भाजपा के प्रमुख नेता शामिल होंगे।

माझी इस समारोह में अपनी सरकार द्वारा पिछले 100 दिन में किए गए कामकाज का ब्यौरा देंगे और चुनाव-प्रचार अभियान के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। माझी सरकार के पहले 100 दिन के मुख्य फैसलों में महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना का कार्यान्वयन शामिल है। इस योजना के तहत एक करोड़ से अधिक महिलाओं को पांच वर्ष में 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र



मोदी द्वारा 17 सितंबर को शुरू की गई इस योजना की पहली किश्त के तौर पर लगभग 25 लाख महिलाओं को 5,000 रुपये दिए जा चुके हैं। ओडिशा सरकार द्वारा पूरे किए गए अन्य वादों में पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार खोलना तथा भगवान के रत्न भंडार (मंदिर के खजाने) को भी खोलना शामिल है। सूत्रों ने बताया कि माझी विभिन्न चिटफंड कंपनियों में लोगों द्वारा जमा कराए गए रूपयों को वापस लौटाने के राज्य सरकार के

प्रयासों पर भी चर्चा करेंगे। सामल ने कहा, घोटाळे के पीड़ितों को पैसा लौटाने का काम शुरू कर दिया गया है और कानूनी पहलुओं का आकलन करने के लिए एक समिति गठित की गई है। भाजपा को जल्द ही उनका पैसा वापस मिल जाएगा। भाजपा सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार ने 100 दिन पूरे होने पर 20 सितंबर से 22 सितंबर तक सभी जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करने का फैसला लिया है।

## संक्षिप्त खबरें

**झारखंड के चाईबासा में आईईडी विस्फोट में कोबरा बटालियन का एक जवान घायल**

चाईबासा। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में बृहस्पतिवार को माओवादियों के खिलाफ तलाशी अभियान के दौरान हुए आईईडी विस्फोट में कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि घटना जराईकेला थाना इलाके के सारंडा वनक्षेत्र में सुबह करीब 7:30 बजे हुई। चाईबासा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) आशुतोष शेखर ने बताया, बृहस्पतिवार सुबह हुए आईईडी विस्फोट में कोबरा 209 बटालियन का एक जवान घायल हो गया। उसे बेहतर इलाज के लिए रांची ले जाया जा रहा है। पुलिस के अनुसार इलाके में माओवादियों के खिलाफ अभियान जारी है। पुलिस के एक और अधिकारी ने कहा कि माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों को निशाना बनकर लगाया गया आईईडी तलाशी अभियान के दौरान फट गया।

**उत्पीड़न गारंटर जानी मास्टर यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तार**

हैदराबाद। प्रसिद्ध कोरियोग्राफर जानी मास्टर को पुलिस ने उनके साथ काम करने वाली एक महिला द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया जाने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। जानी मास्टर का असली नाम शेखर जानी है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जानी मास्टर को गोवा में साइबरबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, जहां उन्हें स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा।

**केंद्रीय गृह मंत्री बृहस्पतिवार को झारखंड दौरे पर**

रांची। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बृहस्पतिवार को दो दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रदेश इकाई के एक नेता ने यह जानकारी दी। भाजपा नेता ने कहा कि शाह आज शाम रांची पहुंचेंगे और शुक्रवार को साहिबगंज में भाजपा की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शादेव ने कहा, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री आज शाम रांची पहुंचेंगे।

**केलाश विजयवर्गीय का सोशल अकाउंट हैक**

इन्दौर। सोशल साइट्स वर्ल्ड में एक सनसनीखेज घटनाक्रम के चलते बुधवार रात दुनिया भर में कई सोशल अकाउंट्स हैकर्स द्वारा हैक किए गए उनमें इन्दौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक एक से विधायक और मध्यप्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री केलाश विजयवर्गीय भी शामिल हैं। हैकर ने केलाश विजयवर्गीय के एकस एकस अकाउंट को बुधवार रात हैक कर उस पर अंग्रेजी में लिखा कि - यह हैक किया गया अकाउंट है !! सोलाना- हम जिस भी अकाउंट को हैक करते हैं, हम उसका टोकन पता प्रकाशित करते हैं, ताकि हम उसे पंच कर सकें और साथ में मुनाफा कमा सकें। केलाश विजयवर्गीय सहित कई अन्य के अकाउंट पर पोस्ट इस मैसेज के बाद बताया जा रहा है कि यह हैकिंग क्रिप्टोकॉर्सी के प्रमोशन के उद्देश्य से की गई है। हैकर ने अंग्रेजी में लिखे अपने एक मैसेज के साथ एक लिंक भी शेयर की थी। 18 सितंबर की रात करीब 11.30 बजे कैबिनेट मंत्री केलाश विजयवर्गीय सहित जो अकाउंट हैक हुए, उनमें दुनिया के गोल ब्राजील, हैदराबाद मेट्रो, सैंटा क्रूज काउंटी आदि प्रमुख अकाउंट्स शामिल हैं।

**साझेदारी**

# बीएलएस ई-सर्विसेज ने ग्राहकों तक बीमा सेवाएं पहुंचाने के लिए एसबीआई जनरल इश्योरेंस के साथ की साझेदारी

नई दिल्ली, प्रातः किरण

बीएलएस ई-सर्विसेज ने भारत में जरूरी बीमा उत्पादों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए एसबीआई जनरल इश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के साथ बीएलएस के विशाल नेटवर्क का उपयोग कर, प्रमुख बीमा उत्पादों जैसे 2000 रुपये तक का लाभ चुन सकते हैं, जिससे हॉस्पिटैल, वाहन बीमा, निजी दुर्घटना बीमा, और



दुकान बीमा तक लोगों की पहुंच बढ़ाई जाएगी। हॉस्पिटैल एक फ्लेक्सिबल इनकम प्रोटेक्शन प्लान है, जो रोज कमाने वाले लोगों के लिए है। यदि वे बीमार होकर अस्पताल में भर्ती होते हैं, तो इस योजना के तहत उन्हें रोजाना पैसे मिलते रहेंगे। ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से प्रतिदिन 1000 से अधिक कारगर और यूजर के अनुकूल बनाया जाएगा। ग्राहकों को यह फायदे मिलेंगे: → बीमा उत्पादों की एक व्यापक रेंज तक

स्थिति सुरक्षित रहेगी। इस साझेदारी से बीएलएस ई-सर्विसेज ने ई-गवर्नेंस सेक्टर में अपनी मजबूत उपस्थिति का फायदा उठाया है, और अब तक 40,000 से अधिक ग्राहकों को बीमा सेवाओं का लाभ पहुंचा चुकी है। इस महत्वपूर्ण साझेदारी का लक्ष्य बीमा लेने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। साथ ही प्रक्रिया को अधिक कारगर और यूजर के अनुकूल बनाया जाएगा। ग्राहकों को यह फायदे मिलेंगे: → बीमा उत्पादों की एक व्यापक रेंज तक

आसान पहुंच → बीएलएस ई-सर्विसेज के माध्यम से पॉलिसी का आसान प्रबंधन → क्लेम की तेज प्रोसेसिंग और ग्राहक को ज्यादा सहयोग इस साझेदारी पर बात करते हुए, बीएलएस ई-सर्विसेज के चेयरमैन, श्री शिखर अग्रवाल ने कहा, इस सहयोग से हमने एक बड़ा कदम उठाया है जिससे हम और ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। हम सिर्फ बीमा बेचने तक सीमित नहीं हैं,

बल्कि लोगों को वे भी समझ रहे हैं कि बीमा क्यों जरूरी है। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति और हर व्यवसाय बीमा के महत्व को समझे और खुद को सुरक्षित रखे। हमारा लक्ष्य है कि भारत में बीमा के प्रति सोच बदले और हर कोई आसानी से बीमा खरीद सके। एसबीआई जनरल इश्योरेंस की बिजनेस हेड, सुश्री प्रिया कुमार ने कहा, बीएलएस ई-सर्विसेज के साथ मिलकर काम करना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे हम ना केवल ज्यादा

लोगों तक पहुंच पाएंगे, बल्कि बीमा खरीदने का तरीका भी बदलेंगे। आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो हम भी बीमा खरीदने के ऑनलाइन और सरल बनाना चाहते हैं। बीएलएस के अभिनव प्लेटफॉर्म की मदद से हम ऐसे बीमा उत्पाद बना रहे हैं जो लोगों की जरूरतों के हिसाब से होंगे, जिससे गांवों में रहने वाले लोग भी आसानी से बीमा खरीद सकें। हम ग्राहकों की जरूरतों को समझकर उनके लिए नई बीमा सेवाएं तैयार करेंगे और बीमा के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करेंगे।

# बिहार के नवादा में महादलित बस्ती में आगजानी के मामले में 11 गिरफ्तार, पुलिस कर रही कैम्प

नवादा, एअॅसी

बिहार के नवादा में महादलित टोला में निकट दलित बस्तियों ने बुधवार की शाम को फायरिंग करते हुए लगभग 80 घरों में आगजनी के मामले में पुलिस ने गुरुवार की सुबह तक 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जिसकी पुष्टि नवादा के एसपी अभिनव धीमन ने की है।

डीएम आशुतोष वर्मा का कहना है की घटना के बाद पुलिस पहुंचकर सख्त कार्रवाई की है। दंडाधिकारियों के नेतृत्व में काफी संख्या में पुलिस बल को प्रभावित गांवों में तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी अनहोनी की घटना को अंजाम नहीं दिया जा सके। उन्होंने अभी बताया कि इस अभियान के मुख्य आरोपी नंदू पासवान सहित 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे। सभी को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नवादा जिले के मुफरिसल थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर महादलित टोले में निकट के ही प्राणबीषा दलित टोले के नंदू पासवान के नेतृत्व में 100 से भी अधिक बंदूक हथियारों ने गांव को घेर कर आग के हवाले कर दिया था। जिलाधिकारी आशुतोष वर्मा ने भी 21 घरों को पूर्ण रूप से जलने की पुष्टि की है। एक दर्जन से अधिक मवेशी की मौत आग में झुलस कर हो चुकी है। जिसके बाद बड़ी संख्या में मौके पर पुलिस कैंप कर रही है। पूरा मामला मुफरिसल थाना क्षेत्र का है। इस घटना में कई मवेशी भी जलकर मर गईं।


कई मवेशी मरे

पीड़ित ग्रामीणों ने बताया कि आगजनी में कई मवेशी आदि जलकर मर गईं। घर का सामान पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया है। लोगों के समक्ष खाने-पीने, रहने-सहने की समस्या हो




## नवादा की घटना पर भड़के जीतनराम मांझी, बोले- एससी की जमीन कब्जा कर रहे ओबीसी के लोग

पटना। जातिगत सर्वे के बाद अब बिहार में जमीन सर्वे सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को प्रभावित कर रहा है। जमीन सर्वे के दौरान नवादा के मांझी टोला में दलित बस्ती पर हुए हमले और करीब एक सौ झंपड़ियों को जलाने की घटना के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। इस मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दलित नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक जाति विशेष के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गया सांसद और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि नवादा में मुसहर, चमार और दुसाध जाति के लोग वर्षों से एक जगह पर रहे हैं, लेकिन विरोधी जाति के लोग, खासकर यादव जाति के जो लोग हैं, वह जमीन कब्जा करने के लिए कुछ दुसाध जाति के लोगों को अपने साथ मिलाकर उन्हें आगे कर के इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने जब इस मामले में एक्शन लिया तो 12 लोग जो पकड़े गए हैं। वह सभी यादव जाति के लोग हैं। उन्होंने कहा कि इससे तो यही साबित हो रहा है कि समूचे बिहार में यादव जाति के लोग अभियान चलाकर एससी जाति के लोगों की जमीनों को चाहे वह उसपर रह रहे हैं या खाली जमीन है, उसको कब्जा कर उन जमीनों पर मकान बनाते हैं या उसे बेच देते हैं। इसपर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। मांझी ने कहा कि हम इस बात को शुरू से बोलते रहे हैं। जब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे तब भी विधानसभा में कहा था कि बिहार की पूर्वा वाली 70 फीसद जमीन एक पार्टी विशेष लोगों के कब्जे में है और उन जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है उसपर सरकार ध्यान दे। जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। नवादा के मुफरिसल थाना क्षेत्र के महादलित टोले में हुई आगजनी मामले में जीतनराम मांझी के बयान पर राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कहा कि जीतन राम मांझी भ्रमित कर रहे हैं। हम देखेंगे कौन समाज के लोग थे और ये घटना क्यों हुई है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जीतन राम मांझी केंद्र सरकार में मंत्री हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं। वह इस तरह की भाषा जातीय उन्माद फैलाने वाली ना कहें। यह हाफ पेट वाली की भाषा बोल रहे हैं। बीजेपी के साथ जाकर ऐसा बोल रहे हैं।



# थरूर होंगे विदेश संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष, दिग्विजय को मिली शिक्षा से जुड़ी समिति की कमान

कोरबा, एअॅसी



नई दिल्ली, एअॅसी

विदेश, कृषि और ग्रामीण विकास संबंधी तीन स्थायी समितियों की अध्यक्षता मिली है। कांग्रेस को राज्यसभा की शिक्षा संबंधी स्थायी समिति की अध्यक्षता का उत्तरदायित्व भी मिला है। पार्टी ने अब इन समितियों के अध्यक्षों के नाम तय कर दिए हैं। हालांकि संसद की स्थायी समितियों की अध्यक्षता को लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना नहीं आई है, लेकिन इसके जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल पहले से ही लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष हैं। संसद में विभागे से संबंधित कुल 24 स्थायी समितियां हैं। लोकसभा के तहत 16 और राज्यसभा के तहत आठ स्थायी समिति होती हैं। इनमें से प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं, जिन्हें संबंधित दलों की अनुशांसा पर लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है। इन समितियों का कार्यकाल एक वर्ष का होता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने गत नौ सितंबर को कहा था कि स्थायी समितियों के गठन में कोई देरी नहीं हुई है और परंपरा के अनुसार, सितंबर महीने के अंत तक उनका गठन किया जाएगा।

कोरबा जिला कलेक्टर अजीत वसंत ने कटघोरा विकासखंड के गोपालपुर में किए जा रहे गिरदावरी एवं धनरास में डिजिटल क्रांप सर्वे कार्य का निरीक्षण किया। इस अवसर पर कटघोरा एसडीएम रोहित कुमार, तहसीलदार सहित राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने गोपालपुर में किसानों

के खेतों में किए जा रहे परम्परागत गिरदावरी कार्य का निरीक्षण कर खसरा एवं रकबे में लगाए गए फसल का सत्यापन किया। कलेक्टर ने किसानों द्वारा ली गई फसल के वास्तविक रकबे का खसरा एवं नक्शा से मिलान किया एवं राजस्व अमले से गिरदावरी के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि त्रुटि रहित गिरदावरी

# बहराइच में दिखा भेड़ियों का नया झुंड

बहराइच, एअॅसी

उत्तर प्रदेश के बहराइच में आखिरी आदमखोर भेड़ियों की तलाश के बीच महसी तहसील के मैंगला गांव में एक फार्म हाउस के पास चार भेड़ियों का झुंड देखा गया। स्थानीय लोग भेड़ियों के इस नए झुंड में एक लंगड़ा भेड़िया होने का भी दावा कर रहे हैं, जिसके बारे में माना जा रहा है कि वह आदमखोर झुंड का वही भेड़िया है जिसकी नाम विभाग को तलाश है। हालांकि प्रभागीय वन अधिकारी अजीत प्रताप सिंह का कहना है कि ऐसा नहीं लगता कि इस नये झुंड में आदमखोर भेड़िया शामिल होगा। उन्होंने आशंका जताई कि भेड़ियों का यह झुंड अगर नरभक्षी नहीं है, फिर भी इसे पकड़ने की कवायद हुई तो इसके सदस्य भेड़िए

में ही भेड़िए छिपे हैं। थोड़ी देर बाद अंधेरा होने पर भेड़िए दिखना बंद हो गये थे। उन्होंने बताया, इसी स्थान के नजदीक भेड़ियों की एक मांद भी है। बारिश के कारण व नदियों का जलस्तर बढ़ने से अक्सर जंगली जानवर बाहर निकल आते हैं। इस संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) अजीत प्रताप सिंह ने बताया, महसी तहसील के रामगांव थाना क्षेत्र के कुछ गांवों में भेड़िये दिखने की सूचना मिली है। जिस अधिकारी को घटनास्थल पर भेजा गया था उनके अनुसार भेड़ियों के पैरों के निशान जरूर मिले हैं, लेकिन उनकी गतिविधियों से ऐसा नहीं लगता कि इस झुंड में उपद्रवी आदमखोर भेड़िया शामिल होगा। डीएफओ ने कहा, भेड़ियों का यह झुंड अगर नरभक्षी नहीं है, फिर भी इसे पकड़ने की कवायद हुई तो इसके सदस्य भेड़िए

को घटना के मद्देनजर स्वास्थ्य सचिव एन. एस. निगम के खिलाफ विभागीय

भविष्य में सीमांकन में भी उपयोगी होगा। गौरतलब है कि डिजिटल क्रांप सर्वे शासन की बहुआयामी योजना है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से सर्वे गिरदावरी कार्य आसान बनाया गया है। जिले के दरी तहसील के 13 ग्रामों में डिजिटल क्रांप सर्वे प्रारंभ हो गया है। जहां जियो रिफ्रेंसिंग कार्य पूर्ण किया गया है। सभी खसरों का डिजिटल क्रांप सर्वे किया जाना है। इसमें स्थानीय लोगो की सहभागिता शत प्रतिशत रहेगी।

साथी के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ में एक आरोपी घायल

मेरठ। मेरठ में गोकशी के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ में एक आरोपी घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। घायल बदनमाश के एक अन्य साथी को भी पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया, जबकि उनका तीसरा साथी अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल हो गया, जिसकी पहचान के प्रयास किये जा रहे हैं। घायल बदनमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला पुलिस ने बताया कि बुधवार और बृहस्पतिवार की दरमियानी रात थाना लोहायानगर इलाके में मेरठ पुलिस को जिलानी गार्डन से बजेट वाले रास्ते पर गोकशी की सूचना मिली। उन्होंने बताया कि इसके बाद पुलिस सतर्क हो गई और जब पुलिस दल ने आरोपियों को रोकने की कोशिश की तो तीन सौदिय जंगल की ओर भागने लगे।

# आरजी कर गतिरोध: दूसरे दौर की वार्ता बेनतीजा रही, चिकित्सकों की हड़ताल जारी



कोलकाता, एअॅसी

आरजी कर अस्पताल मुद्दे पर गतिरोध को हल करने के लिए प्रदर्शनकारी कनिष्ठ चिकित्सकों और पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों के बीच दूसरे दौर की वार्ता बुधवार रात को बेनतीजा रहने के कारण चिकित्सक हड़ताल जारी रखेंगे। चिकित्सकों का आरोप है कि राज्य सरकार ने बैटक का लिखित विवरण देने से इनकार कर दिया। बैटक के बाद चिकित्सकों ने घोषणा की कि वे अपना आंदोलन और काम रोकेंगे अभियान तब तक जारी रखेंगे जब तक सरकार बैटक में हुई सहमति के अनुसार सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की सुरक्षा के संबंध में लिखित निर्देश जारी नहीं कर देती।

प्रदर्शनकारी चिकित्सकों में शामिल डॉ. अनिकेत महतो ने कहा, बातचीत तो सुचारू रूप से हुई लेकिन सरकार ने उन मुद्दों का हस्ताक्षरित और लिखित विवरण सौंपने से इनकार कर दिया जिन पर चर्चा हुई। हम सरकार के रवैये से निराश और हताश महसूस कर रहे हैं। महतो ने कहा, हम अपनी मांगों की विस्तृत जानकारी देते हुए कल एक ईमेल भेजेंगे, जिस पर सरकार ने निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया है। हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे और जब निर्देश जारी कर दिए जाएंगे तो हम इस पर निर्णय लेंगे। आरजी कर अस्पताल की स्नातकोत्तर प्रशिक्षु से कथित बलात्कार और उसकी हत्या की घटना के मद्देनजर स्वास्थ्य सचिव एन. एस. निगम के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने की चिकित्सकों की मांग को भी स्वीकार करने से राज्य सरकार ने मना कर दिया। प्रशिक्षु डॉक्टर से कथित बलात्कार और हत्या की घटना तथा सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यापक भ्रष्टाचार एवं छात्रों और प्रशिक्षु चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार के आरोपों के बाद से राज्य की राजधानी में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। पिछले 48 घंटे में चिकित्सकों और राज्य सरकार के बीच यह दूसरी वार्ता थी। पहले दौर की वार्ता सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर हुई थी। मुख्य सचिव मनोज पंत की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा कार्य बल और 30 कनिष्ठ चिकित्सकों के प्रतिनिधि मंडल के बीच बुधवार को हनबाननह (राज्य सचिवालय) में रात्र्य द्वारा तय समय से एक घंटे बाद शाम करीब साढ़े सात बजे बैटक शुरू हुई, जो साढ़े पांच घंटे से अधिक समय तक चली प्रदर्शनकारी चिकित्सकों ने कहा कि उन्होंने बैटक में राज्य सरकार द्वारा संचालित अस्पताल परिसर के अंदर अपनी सुरक्षा के मुद्दों और वादे के अनुरूप कार्य बल के गठन का विवरण एवं उसके कार्यों को रेखांकित किया। चिकित्सकों ने रेफरल सिस्टम में पारदर्शिता, मरीजों को बिस्तर आवंटन, स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती और परिसरों में प्रचलित धमकाने की संस्कृति को खत्म करने से संबंधित मामले उठाए।

# त्रुटि रहित गिरदावरी शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता: कलेक्टर अजीत वसंत

कलेक्टर ने गोपालपुर में गिरदावरी एवं धनरास में डिजिटल सर्वे कार्य का किया निरीक्षण

# बहाराइच में दिखा भेड़ियों का नया झुंड

भावना से इंसानों पर हमलावर होकर एक नई समस्या खड़ी कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधान परिषद सदस्य पदमसेन चौधरी के फार्म हाउस पर बुधवार शाम चार भेड़ियों का एक झुंड देखा गया, जिनमें से एक भेड़िया लंगड़ा बताया जा रहा है। जिस स्थान पर भेड़ियों का नया झुंड दिखाई दिया वह भेड़ियों के आतंक को लेकर सर्वाधिक संवेदनशील सिसैया चूरामनि गांव से मात्र पांच किलोमीटर दूरी पर स्थित है। चौधरी ने बृहस्पतिवार को बताया, बुधवार शाम चार बजे ग्रामीणों को चार भेड़ियों का एक झुंड हमारे आम के बगीचे में दिखाई दिया है, इनमें एक भेड़िया लंगड़ा है। ग्रामीणों ने भेड़ियों को घेरना शुरू किया तो वे हमारे मक्के के खेत से होते हुए पड़ोसी के खेत में चले गये। अब संभवतः किसी खेत

खसरा पाचशाला में दर्ज करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार कलेक्टर ने धनरास में कृषक बृजपाल के खेत में सर्वेय द्वारा किए जा रहे डिजिटल क्रांप सर्वे कार्य का भी निरीक्षण किया। डिजिटल क्रांप सर्वे की उपयोगिता के बारे में स्थानीय सर्वेय एवं किसानों द्वारा बताया गया कि इससे त्रुटि रहित गिरदावरी हो रही है। साथ ही यह

कलेक्टर ने गोपालपुर में गिरदावरी एवं धनरास में डिजिटल सर्वे कार्य का किया निरीक्षण

भावना से इंसानों पर हमलावर होकर एक नई समस्या खड़ी कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधान परिषद सदस्य पदमसेन चौधरी के फार्म हाउस पर बुधवार शाम चार भेड़ियों का एक झुंड देखा गया, जिनमें से एक भेड़िया लंगड़ा बताया जा रहा है। जिस स्थान पर भेड़ियों का नया झुंड दिखाई दिया वह भेड़ियों के आतंक को लेकर सर्वाधिक संवेदनशील सिसैया चूरामनि गांव से मात्र पांच किलोमीटर दूरी पर स्थित है। चौधरी ने बृहस्पतिवार को बताया, बुधवार शाम चार बजे ग्रामीणों को चार भेड़ियों का एक झुंड हमारे आम के बगीचे में दिखाई दिया है, इनमें एक भेड़िया लंगड़ा है। ग्रामीणों ने भेड़ियों को घेरना शुरू किया तो वे हमारे मक्के के खेत से होते हुए पड़ोसी के खेत में चले गये। अब संभवतः किसी खेत

खसरा पाचशाला में दर्ज करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार कलेक्टर ने धनरास में कृषक बृजपाल के खेत में सर्वेय द्वारा किए जा रहे डिजिटल क्रांप सर्वे कार्य का भी निरीक्षण किया। डिजिटल क्रांप सर्वे की उपयोगिता के बारे में स्थानीय सर्वेय एवं किसानों द्वारा बताया गया कि इससे त्रुटि रहित गिरदावरी हो रही है। साथ ही यह

कलेक्टर ने गोपालपुर में गिरदावरी एवं धनरास में डिजिटल सर्वे कार्य का किया निरीक्षण

भावना से इंसानों पर हमलावर होकर एक नई समस्या खड़ी कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधान परिषद सदस्य पदमसेन चौधरी के फार्म हाउस पर बुधवार शाम चार भेड़ियों का एक झुंड देखा गया, जिनमें से एक भेड़िया लंगड़ा बताया जा रहा है। जिस स्थान पर भेड़ियों का नया झुंड दिखाई दिया वह भेड़ियों के आतंक को लेकर सर्वाधिक संवेदनशील सिसैया चूरामनि गांव से मात्र पांच किलोमीटर दूरी पर स्थित है। चौधरी ने बृहस्पतिवार को बताया, बुधवार शाम चार बजे ग्रामीणों को चार भेड़ियों का एक झुंड हमारे आम के बगीचे में दिखाई दिया है, इनमें एक भेड़िया लंगड़ा है। ग्रामीणों ने भेड़ियों को घेरना शुरू किया तो वे हमारे मक्के के खेत से होते हुए पड़ोसी के खेत में चले गये। अब संभवतः किसी खेत

खसरा पाचशाला में दर्ज करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार कलेक्टर ने धनरास में कृषक बृजपाल के खेत में सर्वेय द्वारा किए जा रहे डिजिटल क्रांप सर्वे कार्य का भी निरीक्षण किया। डिजिटल क्रांप सर्वे की उपयोगिता के बारे में स्थानीय सर्वेय एवं किसानों द्वारा बताया गया कि इससे त्रुटि रहित गिरदावरी हो रही है। साथ ही यह

कलेक्टर ने गोपालपुर में गिरदावरी एवं धनरास में डिजिटल सर्वे कार्य का किया निरीक्षण

भावना से इंसानों पर हमलावर होकर एक नई समस्या खड़ी कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधान परिषद सदस्य पदमसेन चौधरी के फार्म हाउस पर बुधवार शाम चार भेड़ियों का एक झुंड देखा गया, जिनमें से एक भेड़िया लंगड़ा बताया जा रहा है। जिस स्थान पर भेड़ियों का नया झुंड दिखाई दिया वह भेड़ियों के आतंक को लेकर सर्वाधिक संवेदनशील सिसैया चूरामनि गांव से मात्र पांच किलोमीटर दूरी पर स्थित है। चौधरी ने बृहस्पतिवार को बताया, बुधवार शाम चार बजे ग्रामीणों को चार भेड़ियों का एक झुंड हमारे आम के बगीचे में दिखाई दिया है, इनमें एक भेड़िया लंगड़ा है। ग्रामीणों ने भेड़ियों को घेरना शुरू किया तो वे हमारे मक्के के खेत से होते हुए पड़ोसी के खेत में चले गये। अब संभवतः किसी खेत

खसरा पाचशाला में दर्ज करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार कलेक्टर ने धनरास में कृषक बृजपाल के खेत में सर्वेय द्वारा किए जा रहे डिजिटल क्रांप सर्वे कार्य का भी निरीक्षण किया। डिजिटल क्रांप सर्वे की उपयोगिता के बारे में स्थानीय सर्वेय एवं किसानों द्वारा बताया गया कि इससे त्रुटि रहित गिरदावरी हो रही है। साथ ही यह

कलेक्टर ने गोपालपुर में गिरदावरी एवं धनरास में डिजिटल सर्वे कार्य का किया निरीक्षण

भावना से इंसानों पर हमलावर होकर एक नई समस्या खड़ी कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधान परिषद सदस्य पदमसेन चौधरी के फार्म हाउस पर बुधवार शाम चार भेड़ियों का एक झुंड देखा गया, जिनमें से एक भेड़िया लंगड़ा बताया जा रहा है। जिस स्थान पर भेड़ियों का नया झुंड दिखाई दिया वह भेड़ियों के आतंक को लेकर सर्वाधिक संवेदनशील सिसैया चूरामनि गांव से मात्र पांच किलोमीटर दूरी पर स्थित है। चौधरी ने बृहस्पतिवार को बताया, बुधवार शाम चार बजे ग्रामीणों को चार भेड़ियों का एक झुंड हमारे आम के बगीचे में दिखाई दिया है, इनमें एक भेड़िया लंगड़ा है। ग्रामीणों ने भेड़ियों को घेरना शुरू किया तो वे हमारे मक्के के खेत से होते हुए पड़ोसी के खेत में चले गये। अब संभवतः किसी खेत

खसरा पाचशाला में दर्ज करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार कलेक्टर ने धनरास में कृषक बृजपाल के खेत में सर्वेय द्वारा किए जा रहे डिजिटल क्रांप सर्वे कार्य का भी निरीक्षण किया। डिजिटल क्रांप सर्वे की उपयोगिता के बारे में स्थानीय सर्वेय एवं किसानों द्वारा बताया गया कि इससे त्रुटि रहित गिरदावरी हो रही है। साथ ही यह

कलेक्टर ने गोपालपुर में गिरदावरी एवं धनरास में डिजिटल सर्वे कार्य का किया निरीक्षण

भावना से इंसानों पर हमलावर होकर एक नई समस्या खड़ी कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधान परिषद सदस्य पदमसेन चौधरी के फार्म हाउस पर बुधवार शाम चार भेड़ियों का एक झुंड देखा गया, जिनमें से एक भेड़िया लंगड़ा बताया जा रहा है। जिस स्थान पर भेड़ियों का नया झुंड दिखाई दिया वह भेड़ियों के आतंक को लेकर सर्वाधिक संवेदनशील सिसैया चूरामनि गांव से मात्र पांच किलोमीटर दूरी पर स्थित है। चौधरी ने बृहस्पतिवार को बताया, बुधवार शाम चार बजे ग्रामीणों को चार भेड़ियों का एक झुंड हमारे आम के बगीचे में दिखाई दिया है, इनमें एक भेड़िया लंगड़ा है। ग्रामीणों ने भेड़ियों को घेरना शुरू किया तो वे हमारे मक्के के खेत से होते हुए पड़ोसी के खेत में चले गये। अब संभवतः किसी खेत

खसरा पाचशाला में दर्ज करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार कलेक्टर ने धनरास में कृषक बृजपाल के खेत में सर्वेय द्वारा किए जा रहे डिजिटल क्रांप सर्वे कार्य का भी निरीक्षण किया। डिजिटल क्रांप सर्वे की उपयोगिता के बारे में स्थानीय सर्वेय एवं किसानों द्वारा बताया गया कि इससे त्रुटि रहित गिरदावरी हो रही है। साथ ही यह

कलेक्टर ने गोपालपुर में गिरदावरी एवं धनरास में डिजिटल



## वन नेशन, वन इलेक्शन संविधान के खिलाफ एक व्यक्ति की तानाशाही है: संजय राउत

मुंबई, एजेंसी

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने एक देश, एक चुनाव को संविधान के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि वन नेशन, वन इलेक्शन एक व्यक्ति की तानाशाही है। उन्होंने कहा, भारत बहुभाषी राष्ट्र है। यहां विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं। ऐसे में एक साथ सभी चुनाव कराना जटिल व दूषित मार्ग हो सकता है। उन्होंने भाजपा पर सवाल उठाते हुए

कहा, यह पार्टी आज से नहीं, बल्कि शुरू से ही संविधान के खिलाफ काम करती आई है। अगर डायरेक्टली नहीं कर पाती, तो इन-डायरेक्टली करती है। यह सरकार संविधान की मूल संरचना से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। संजय राउत ने दावा किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगला चुनाव हारने जा रहे हैं, इसलिए वो इस तरह के कदम उठा रहे हैं। वन नेशन, वन इलेक्शन कुछ नहीं, एक प्रकार की तानाशाही है। अगर इस तरह से



चुनाव हुए, तो नेशन जैसी स्थिति भी पैदा करती है। अगर इस कदम को जमीन पर उतारा गया, तो यह देश के संविधान, लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा साबित होगा। जब संजय राउत से वन नेशन, वन इलेक्शन को शरद पवार द्वारा समर्थन किए जाने के संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने दो टूक कहा, इस पर आगे विस्तारपूर्वक बात करेंगे, क्योंकि इंडिया ब्लॉक में कई तरह के घटक दल हैं। सभी की अपनी अलग-अलग राय है, लिहाजा हम आगे चलकर पहले इस

पर विस्तारपूर्वक बात करेंगे। संजय राउत ने इंडिया ब्लॉक में मतभेद की खबरों को सिर से खारिज किया। उन्होंने कहा, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। हम सभी आजादी से काम कर रहे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है। सीट शेयरिंग को लेकर भी हमारे बीच कोई विवाद नहीं है। राहुल गांधी पर की जा रही अर्थात् विपक्षीय पर संजय राउत ने कहा, यह बीजेपी का संस्कार है। बीजेपी इसी तरह से हमारे नेता के बारे में विवादित टिप्पणी करती रहती

है। इस तरह की टिप्पणी से बीजेपी लोगों के बीच अपने संस्कार और संस्कृति जाहिर कर रही है। देश की जनता सब देख रही है। आपको यह देखना होगा कि आप किस पर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। आप हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। आपको यह समझना होगा कि राहुल गांधी को देश की जनता ने विपक्षी दल का नेता बनाया है। इस पद पर खुद बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता रह चुके हैं।

### संक्षिप्त खबरें

**खडगे-प्रियंका ने दलितों के घर जलाने की घटना की निंदा की**

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिहार में दलितों के घर जलाने की निंदा करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। श्री खडगे ने कहा बिहार के नवदाम में महादलित टोला पर दबंगों का आतंक एनडीए की डबल इंजन सरकार के जंगलराज का एक और प्रमाण है। बेहद बिंदनीय है कि करीब 100 दलित घरों में आग लगाई गई, गोलीबारी की गई और रात के अँधेरे में गरीब परिवारों का सब कुछ छीन लिया गया। भाजपा और उसके सहयोगी दलों की दलितों-विधियों के प्रति घोर उदासीनता, आराधिका उपेक्षा व अस्माजिक तत्वों को बढ़ावा अब चरम पर है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी इसको लेकर हमला किया और कहा प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा की तरह मौन हैं, नीतीश जी सत्ता के लोभ में बेफिक्र हैं और एनडीए की सहयोगी पार्टियों के मुँह में दही जम गया है। राहुल गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कर्नाटक भाजपा विधायक के खिलाफ एफआईआर

बेंगलुरु। कर्नाटक पुलिस ने बुधवार को भाजपा विधायक बासनगोड़ा पाटिल यतनाल के खिलाफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर एफआईआर दर्ज की। कांग्रेस नेता द्वारा विधायक यतनाल के खिलाफ भारतीय व्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 192, 196, 353 (2) के तहत शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। यह शिकायत महासचिव एस मनोहर ने बुधवार को भाजपा विधायक यतनाल के खिलाफ लोकसभा में दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ने पुलिस से विधायक यतनाल को गिरफ्तार करने का आग्रह किया। मनोहर ने अपनी शिकायत में कहा, मीडिया से बात करते हुए विधायक यतनाल ने पूछा था कि राहुल गांधी किस जाति के हैं? क्या उनका जन्म मुस्लिम से हुआ था? या ईसाई से? या हिंदू ब्राह्मण से? उनके माता-पिता अलग-अलग धर्मों से हैं। उनकी मां इटली से हैं और उनके पिता मुगल हैं। अनुच्छेद 370 की बहाली पर हमारी और कांग्रेस-एनसी गठबंधन की राय एक: पाकिस्तानी रक्षा मंत्री

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अब पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अनुच्छेद 370 को लेकर एक बयान दिया है जिसके बाद से बीजेपी कांग्रेस पर हल्लावर है। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मावनीय ने एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल की वीडियो क्लिप शेयर करते हुए दावा किया कि जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेट्स वापसी के मुद्दे पर पाकिस्तान और कांग्रेस-नेशनल कॉन्फ्रेंस की राय एक है। उन्होंने गुरुवार को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर की बानवित का वीडियो एक्स पर शेयर किया। अगस्त 2019 में कश्मीर का स्पेशल स्टेट्स और राज्य का दर्जा छिन जाने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव हो रहा है। चुनाव में अनुच्छेद 370 एक बड़ा मुद्दा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जहां अनुच्छेद 370 को बहाल करने की बात बार-बार कही गई है, वहीं कांग्रेस ने इस बारे में पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। पार्टी ने अपने घोषणापत्र में भी इसका जिक्र नहीं किया है। हालांकि, कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की बात कही है। वीडियो शेयर करते हुए मावनीय ने लिखा, पाकिस्तान, एक आतंकवादी स्टेट, कश्मीर पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के राख का समर्थन करती है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज पर हामिद मीर के कैप्टल टॉक में कहा- जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35ए को बहाल करने के लिए पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन एक ही पेज पर हैं।

## महिला कर्मचारियों से बोलीं मुर्मु, चुन कर दे दें कोई हल्के रंग की साड़ी

इंदौर, एजेंसी

मध्य प्रदेश का इंदौर उस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की सादगी और सहजता का कायल हो गया, जब श्रीमती मुर्मु ने हस्तशिल्प एंपोरियम मृगनयनी की महिला कर्मचारियों से सहज चर्चा के दौरान कहा कि वे कर्मचारी स्वयं ही उन्हें कोई हल्के रंग की महेश्वरी साड़ी चुन कर दें। अपने मध्य प्रदेश प्रवास के पहले दिन कल राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने मृगनयनी एंपोरियम में हथकरघा पर निर्मित साड़ियों को देखा और उनकी कलाकारी देखकर प्रसन्न हुईं। वहां कार्यरत महिला कर्मचारियों से उन्होंने साड़ियों के नाम एवं पैटर्न की जानकारी ली। इस पर उन्हें चंदेरी, महेश्वरी, कंटन एवं सिल्क की साड़ियां दिखायी गईं और उनके बारे में विस्तार से बताया गया।

इस दौरान बेहद सहज होकर संवाद कर रही राष्ट्रपति ने वहां की महिला कर्मचारियों से कहा कि वे अपनी पसंद की हल्के रंग की कोई एक साड़ी उनके लिये चुन दें। इस पर महिला कर्मचारी सरिता गहार्डे ने उन्हें हल्के गुलाबी रंग की महेश्वरी साड़ी पसंद कर दी।



राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने इस साड़ी का कांटेर पर जाकर यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान भी किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भी प्रदेश की ओर से चंदेरी साड़ी भेंट की। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने आदिवासी क्षेत्र के हस्तशिल्पी, बुनकरों एवं जनजाति कारीगरों से रूबरू होकर चर्चा की और उनकी कला को सराहा।

कलाकारों द्वारा राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु को अपने हाथों से निर्मित हस्तशिल्प भी भेंट किया गया। सभी कलाकार राष्ट्रपति से मुलाकात को लेकर बहुत उत्साहित थे। इस अवसर पर राज्यपाल मंगुभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव तथा लघु उद्योग निगम के प्रबंध संचालक एवं सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के सचिव डॉ मोहन कोठारी भी उपस्थित थे।

राष्ट्रपति ने इन कलाकारों से चर्चा के दौरान कहा कि हमारी पुरानी संस्कृति एवं परम्परा को संजो कर एवं संरक्षित रखने की जरूरत है। यह कलाकार इसमें अच्छा योगदान दे रहे हैं। इन्हें प्रोत्साहन देने की जरूरत है, जिससे इन कलाकारों को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। राष्ट्रपति ने इन कलाकारों के आग्रह पर उनके साथ तस्वीर भी खिंची वायी। धार जिले

के कारीगर मुबारिक खत्री से चर्चा के दौरान राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने उनकी कला के बारे में जानकारी ली और पूछा कि वे कब से यह काम कर रहे हैं। इस पर मुबारिक खत्री ने बताया कि उनकी 11 पीढ़ियों से बाग प्रिंट का कार्य किया जा रहा है। वे अपनी इस कला को आने वाली पीढ़ियों को भी सिखा रहे हैं। उन्होंने कंटन के कपड़े पर बाग प्रिंट कैसे किया जा सकता है, यह करके भी दिखाया और बताया कि अब बांस एवं सिल्क की साड़ियों पर भी बाग प्रिंट किया जाता है। खरगोन जिले के महेश्वर के बुनकर अलाउद्दीन अंसारी ने राष्ट्रपति को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हथकरघा साड़ी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि नर्मदा नदी में दोहर के समय सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं और उनसे नदी में जो लहरें चमकती हैं, उन्हीं लहरों का प्रिंट हथकरघा साड़ियों की बॉर्डर पर उतारा जाता है। श्रीमती मुर्मु इस कलाकारी से बहुत प्रभावित हुईं और उन्होंने पूछा कि वे यह काम कब से कर रहे हैं। तब अलाउद्दीन अंसारी ने बताया कि उनका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी यह कार्य कर रहा है। वर्तमान समय में वे अपने इस कार्य से 300 से अधिक लोगों

को रोजगार दे रहे हैं, जिसमें 70 महिलाएं शामिल हैं। वर्तमान में भोपाल निवासी एवं मूलतः डिंडोरी की निवासी गौड़ भित्तिचित्र की कलाकार पद्मश्री श्रीमती दुर्गा बाई व्याम की कला को देखकर राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु बहुत प्रभावित हुईं और उसकी इस बात के लिये सराहना की कि वे संस्कृति एवं कला को जीवित रखने और उसे आगे बढ़ाने के लिये कार्य कर रही हैं। दुर्गा बाई ने बताया कि वे बच्चों को इस कला को सिखा रही हैं और एक संस्था के माध्यम से अन्य लोगों को भी निःशुल्क इस कला का प्रशिक्षण दे रही हैं। झाबुआ जिले के कलाकार दंपति पद्मश्री श्री रमेश एवं श्रीमती शांति परमार द्वारा निर्मित गुड़ियों को देखकर राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने उनसे पूछा कि क्या यह गुड़िया मिट्टी से बनाई गई है। तब इन कलाकारों ने बताया कि उनके द्वारा कपास एवं कपड़े से आकर्षक गुड़ियों का निर्माण किया जाता है। वे अपनी इस कला को जीवित रखने के लिये अलाउद्दीन अंसारी को निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं। उन्होंने बताया कि बाजार, मेलों में वे जितनी गुड़िया लेकर जाते हैं, वे सभी बिक जाती हैं।

### खड़गे के 'खत' का जेपी नड्डा ने दिया जवाब

## राहुल खुद पीएम का कई बार कर चुके हैं अपमान

नई दिल्ली, एजेंसी

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं द्वारा पीएम मोदी को कहे गए अपशब्दों की याद दिलाते हुए तंज कसा। जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने पिछले 110 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 110 से अधिक गालियां दी हैं। इसमें कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी शामिल है। खड़गे की ओर से हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र का जवाब देते हुए जेपी नड्डा ने उन्हें लिखे पत्र में आरोप लगाया कि आपने राजनीतिक मजबूरीवश जनता द्वारा बार-बार नकारे गए अपने फेल्ड प्रोडक्ट को एक बार फिर से पॉलिश कर बाजार में उतारने के प्रयास में जो पत्र पीएम मोदी को लिखा है, उस पत्र को पढ़कर मुझे लगा कि आपके द्वारा कही गई बातें यथार्थ और सत्य से कौनों देर हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पत्र में आप राहुल गांधी सहित अपने नेताओं की करतूतों को या तो भूल गए हैं या उसे जानबूझकर नजर अंदाज किया है, इसलिए मुझे लगा कि उन बातों को



विस्तार से आपके संज्ञान में लाना जरूरी है। चूंकि आपने अपने पत्र में सेलेक्टिव तरीके से बात केवल राहुल गांधी को लेकर की, इसलिए मैं उसी से अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगा। जिस व्यक्ति का इतिहास ही देश के प्रधानमंत्री सहित पूरे औबोसी समुदाय को चोर कहकर गाली देने का रहा हो, देश के प्रधानमंत्री के लिए अत्यंत अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने का रहा हो, जिसने संसद में देश के प्रधानमंत्री को डंडे से पीटने की बात कही हो, जिसकी धृष्ट मानसिकता से पूरा देश बाकिफ हो, उस राहुल गांधी को सही ठहराने की

कोशिश आप किस मजबूरी के चलते कर रहे हैं? ये राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी ही थीं ना खड़गे जी, जिन्होंने पीएम मोदी के लिए हामीत का सौदारण जैसे अत्यंत अपशब्द अपशब्दों का प्रयोग किया था? इन सभी दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयानों का तो आप और आपकी पार्टी के नेता महिमांडन करते रहे। क्यों तब राजनीतिक शुचिता की बातें कांग्रेस भूल गई थी? जब राहुल गांधी ने सरेआम 'मोदी की छवि को खराब कर देंगे' वाली बात कही थी तो राजनीतिक मर्यादा को किसने खंड-खंड किया था खड़गे जी? मैं ये समझता

हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे कि अपने नित्य निरंतर फेल्ड प्रोडक्ट का बचाव करना और उसे महिमांडित करना आपको मजबूरी है, लेकिन कम से कम कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते आपको इन चीजों पर आत्ममंथन भी तो करना चाहिए था। उन्होंने आगे लिखा, बड़े दुःख की बात है कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अब अपने नामदार युवराज के दबाव में ह्यार्की एंड पेस्ट' वाली पार्टी बन कर रह गई है। राजनीतिक लोच्युता की परवाहा करने हुए अब राहुल गांधी वाले दुर्बिकार कांग्रेस पार्टी भी अंगीकार करने लगी है। विडंबना यह भी है कि

वह उससे ही अपने आपको अलंकृत भी महसूस करने लगी है। कांग्रेस एंड कंपनी के नेताओं ने पिछले 10 सालों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 110 से अधिक गालियां दी हैं और दुर्भाग्य की बात यह भी है कि इसमें कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी शामिल हैं। तब क्यों राजनीतिक शुचिता, मर्यादा, अनुशासन, शिष्टाचार जैसे शब्द आपकी और कांग्रेस की डिक्शनरी से गायब हो जाते हैं? एक तरफ आप राजनीतिक शुचिता की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर आपकी पार्टी और आपके नेताओं का इतिहास ही राजनीतिक शुचिता की धज्जियां उड़ाने का रहा है। ऐसा दोहरा रवैया क्यों? क्या-क्या नहीं कहा गया आपके नेताओं के द्वारा देश के प्रधानमंत्री के लिए?

उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के अनुच्छेद 370 और 35ए वापस लाने के एजेंडे को राहुल गांधी और फारुक अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर में आगे बढ़ा रहे हैं। एनसी और कांग्रेस का नेतृत्व पाकिस्तान की कडपुतली के रूप में जम्मू-कश्मीर में काम कर रहा है। जम्मू-कश्मीर की जनता पाकिस्तान की धुन पर नाचने वाले राहुल गांधी और फारुक अब्दुल्ला के एजेंडे को प्रदेश में लागू नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35ए वापस लाने का पाकिस्तान, राहुल गांधी और अब्दुल्ला परावर का एजेंडा हथगोरी लाल का हसीन सपनाह ही बन कर रह जाएगा। एनसी-कांग्रेस गठबंधन के मसूबों और एजेंडे पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को इस राष्ट्र विरोधी गठबंधन के प्रति सतर्क रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 और 35ए की जंजीरों से जम्मू-कश्मीर को मुक्ति दिलाई है। देश में नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार है और अब जम्मू-कश्मीर को दोबारा किसी भी बेदियों में बंधने नहीं दिया जाएगा।

### एनसी-कांग्रेस गठबंधन का चुनावी एजेंडा तय कर रहा है पाकिस्तान : तरुण चुघ



भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय महासचिव एवं जम्मू-कश्मीर के प्रभारी तरुण चुघ ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को लेकर आरोप लगाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और कांग्रेस के गठबंधन का चुनावी एजेंडा पाकिस्तान तय कर रहा है। तरुण चुघ ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी और फारुक अब्दुल्ला अब एक्सपोज हो गए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी और फारुक अब्दुल्ला पाकिस्तान की भाषा बोल रहे

हैं और उसके इशारे पर चल रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अलगाववाद, देश को तोड़ने, आतंकवादियों को जेल से छोड़ने समेत जितने वारे भी इस गठबंधन ने किए हैं, उसके लिए इन्हें पाकिस्तान से ही आदेश मिले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के अनुच्छेद 370 और 35ए वापस लाने के एजेंडे को राहुल गांधी और फारुक अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर में आगे बढ़ा रहे हैं। एनसी और कांग्रेस का नेतृत्व पाकिस्तान की कडपुतली के रूप में जम्मू-कश्मीर में काम कर रहा है। जम्मू-कश्मीर की जनता पाकिस्तान की धुन पर नाचने वाले राहुल गांधी और फारुक अब्दुल्ला के एजेंडे को प्रदेश में लागू नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35ए वापस लाने का पाकिस्तान, राहुल गांधी और अब्दुल्ला परावर का एजेंडा हथगोरी लाल का हसीन सपनाह ही बन कर रह जाएगा। एनसी-कांग्रेस गठबंधन के मसूबों और एजेंडे पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को इस राष्ट्र विरोधी गठबंधन के प्रति सतर्क रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 और 35ए की जंजीरों से जम्मू-कश्मीर को मुक्ति दिलाई है। देश में नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार है और अब जम्मू-कश्मीर को दोबारा किसी भी बेदियों में बंधने नहीं दिया जाएगा।

### भारत ने आईडब्ल्यूटी की समीक्षा और संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस भेजा

नई दिल्ली, एजेंसी

भारत ने पाकिस्तान को सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) की समीक्षा एवं संशोधन के लिए औपचारिक नोटिस भेजा है जिसमें परिस्थितियों में मूलभूत और अप्रत्याशित परिवर्तनों को उजागर किया गया है और जिसके लिए संधि के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। यह नोटिस 30 अगस्त को आईडब्ल्यूटी के अनुच्छेद 12(3) के तहत संधि की समीक्षा और संशोधन के लिए भेजा गया था। नोटिस के अनुसार इसके प्रावधानों को समय-समय पर दोनों सरकारों के बीच उस उद्देश्य के लिए संपन्न एक विधिवत अनुसंधान संधि द्वारा संशोधित किया जा सकता

है। भारत द्वारा उजागर की गई विभिन्न चिंताओं में जनसंख्या जनसांख्यिकी में परिवर्तन, पर्यावरणीय मुद्दे भारत के उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा के विकास में तेजी लाने की आवश्यकता, लगातार सीमा पर आतंकवाद का प्रभाव आदि महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इस अधिसूचना के तहत भारत है जबकि किशनगंगा बांधीपोरा के उत्तर में झेलम नदी पर स्थित है। भारत और पाकिस्तान ने नौ साल की बातचीत के बाद सितंबर 1960 में आईडब्ल्यूटी पर हस्ताक्षर किए जिसमें विश्व बैंक ने भी इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जो सिंधु नदी और इसकी पांच सहायक नदियों सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब के पानी के उपयोग को निर्धारित करता है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को वन नेशन, वन इलेक्शन पर कोविंद समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। केन्द्र सरकार के इस कदम को लेकर सियासत तेज हो चली है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस प्रस्ताव पर एतराज जताया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने कहा कि, पीएम मोदी के पास कुछ बचा नहीं है। इसलिए वो इस तरह के कदम उठा रहे हैं। वो केवल और केवल राहुल गांधी की झूठी आलोचना कर रहे हैं। मैं नहीं मानता कि वन नेशन, वन इलेक्शन प्रैक्टिकल तरीके से लागू हो पाएगा। मान लीजिए इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाए और लोकसभा को भंग करनी पड़े तो वो क्या करेंगे। ये सबको उलझाने के

### वन नेशन, वन इलेक्शन उलझाने के लिए पीएम मोदी का खिलौना : कमलनाथ

छिंदवाड़ा, एजेंसी



लिए पीएम मोदी का एक खिलौना है। वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। समिति काठन

2 सितंबर 2023 को किया गया था। समिति ने 191 दिन तक राजनीतिक दलों तथा विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा के बाद 18,626 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार (18

सितंबर) को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कोविंद समिति की सिफारिशों को मंजूरी मिली। वहीं वन नेशन, वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी के बाद कांग्रेस नेता और प्रवक्ता सुप्रिया श्रिनेत कहा कि, ये व्यावहारिक नहीं है। क्या चुनी हुई राज्य सरकार को गिराया जाएगा? इस मुद्दे पर भाजपा के लोग ही बवाल मचाएंगे। चुनावी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये चीजें लगातार की जाती हैं। उन्होंने आगे कहा कि चुनावी मुद्दे अभी बेरोजगारी, महंगाई और अस्माजिक असमानता हैं। तंज कसते हुए आगे कहा कि भाजपा के कुछ नफरती चिट्ठे हमारे नेता राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा और नफरत की बात कर रहे हैं, उससे देश में आक्रोश है और इससे ध्यान भटकाने के लिए इसको लाया गया है। ये हॉट एयर बेलून हैं, जो समय-समय पर छोड़े जाते हैं।

### सरकार को घेरा

देश की सरकार से लेकर कॉरपोरेट जगत तक को इस पत्र को एक चेतावनी और सलाह के रूप में लेना चाहिए...

## 'सरकार जिस दिन अपने को दोषी मानकर बदलाव लाएगी, उस दिन से सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देंगे'

लखनऊ, एजेंसी

महाराष्ट्र के पुणे में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली एक युवती के आत्महत्या के मामले को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि सरकार जिस दिन अपने को दोषी मानकर बदलाव लाएगी, उस दिन परिवर्तन दिखाई देंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, वर्क-लाइफ बैलेंस का संतुलित अनुपात किसी भी देश

के विकास का एक मानक होता है। पुणे में एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी में काम करनेवाली एक युवती की काम के तनाव से हुई मृत्यु और उस संदर्भ में उसकी मां का लिखा हुआ भावुक पत्र देश भर के युवक-युवतियों को झकझोर गया है। ये किसी एक कंपनी या सरकार के किसी एक विभाग की बात नहीं बल्कि कहीं थोड़े ज्यादा, कहीं थोड़े कम, हर जगह लगभग एक-से ही प्रतिकूल हालात हैं। उन्होंने आगे कहा, देश की सरकार से लेकर कॉरपोरेट जगत तक को इस पत्र को एक चेतावनी और



सलाह के रूप में लेना चाहिए। यदि काम की दशाएं और परिस्थितियां ही अनुकूल नहीं होंगी तो परफॉरमेंस और रिजल्ट्स कैसे अनुकूल होंगे।

इस संदर्भ में नियम-कानून से अधिक आर्थिक हालातों को सुधारने की जरूरत है। सच तो ये है कि जिस प्रकार बेरोजगारी है और काम व कारोबार सरकार की गलत नीतियों और बेतहाशा टैक्स की वजह से मंदी और घटती मांग का शिकार हुआ है, उससे व्यापारिक घाटें की ओर बढ़ते कारोबार पर कम-से-कम एम्प्लॉयीज से अधिक-से-अधिक काम करवाए जाने का जबरदस्त दबाव है। ऊपर-से-लेकर नीचे तक हर एम्प्लॉयीज के दूसरे के दबाव में हैं। बड़े संदर्भों में देखा जाए तो दरअसल इस दबाव-तनाव का मूल कारण आर्थिक नीतियों

की नाकामी है। अखिलेश यादव कहा, सरकार जिस दिन अपने को दोषी मानकर बदलाव लाएगी, सकारात्मक आर्थिक नीतियां बनाएगी, टैक्स सिस्टम और रेट को शोषणकारी न बनाकर लाजिकल बनाएगी, वरिष्ठ कैंडीडैट्स को टेंशन फ्री बनाएगी, उस दिन से सरकारी कर्मचारियों से लेकर काम-कारोबार-कॉरपोरेट जगत के एम्प्लॉयीज तक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगेगे। जब देश की मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तभी तरक्की होगी। सरकार को इस संदर्भ में सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी और

काम करने के तरीकों को भी, जहां ज्यादा-से-ज्यादा घंटे काम करने का दिखावटी पैमाना नहीं बल्कि अंत में परिणाम क्या निकला, वे आधार होना चाहिए। बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में जानी मानी कंपनी अनर्स्ट एंड यंग (ईवाई) में काम करने वाली युवती की मौत हो गई थी। वह कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट थी। युवती की मां ने अत्यधिक काम के दबाव को मौत का कारण बताया। यह जानकारी उनके द्वारा कंपनी को लिखे पत्र से सामने आई है। पत्र सामने आने के बाद लोग कंपनी के खतरनाक कार्य संस्कृति पर बहस कर रहे हैं।



# राजधानी किरण

## संक्षिप्त खबरें

**कौन है लेडी डॉन काजल खत्री, दिल्ली में घला रही जेल में बंद पति का साम्राज्य**

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार की गई काजल खत्री को रिमांड पर लिया जाएगा। काजल खत्री गौगी गिरोह के बढमाश कपिल मान की पत्नी है। फिलहाल काजल का पति कपिल मान कई मामलों में जेल में बंद है। वहीं, पुलिस ने काजल खत्री पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। अब जाकर पुलिस को सफलता मिली है।

पुलिस ने काजल खत्री को लिया रिमांड पर एयरलाईस कर्मी सूरज मान की हत्या की योजना बनाने वाली लेडी डान काजल खत्री को रिस्ट्र-39 कोतवाली पुलिस से संचार पर लिया गया है। हत्या के पीछे की मास्टरमाइंड कपिल मान की प्रेमिका काजल खत्री ही बताई जा रही थी। काजल मोबाइल के जेकर जेल में बंद कपिल और शूटर्स के बीच संवाद स्थापित करवाती थी। उसने ही शूटर्स को पैसा देना कराया था।

## अब हरियाणा चुनाव में जोर आजमाइश करेंगे केजरीवाल

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा चुनाव को लेकर अहम जानकारी साझा की। उन्होंने कहा, हम पूरी ताकत से हरियाणा में चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरें हैं। हम जनता के मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगे और जनता हमें आशीर्वाद देगी। उन्होंने कहा कि हम सभी विधानसभा सीटों पर अच्छे सरकारी स्कूल और अस्पताल, किसानों, जवानों और युवाओं को न्याय दिलाने के मुद्दे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 20 सितंबर से हरियाणा में अरविंद केजरीवाल रोड शो करेंगे। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और अरविंद केजरीवाल जी कल 20 सितंबर से प्रदेश की विभिन्न विधानसभाओं में रोड शो करेंगे।

## दिल्ली में दिखा रफ्तार का कहर, फुटपाथ पर सो रहे दो लोगों को कार ने कुचला

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पूर्वी दिल्ली के गांधी नगर इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने फुटपाथ पर सो रहे दो लोगों को कुचल दिया। इसमें एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है। पुलिस ने बताया कि घटना रात करीब दो बजे के करीब घटी। पुलिस के मुताबिक घटना में जताने वाले वाला शख्स मजदूर था और वह फुटपाथ पर ही सोता था। मृतक की पहचान सोनू के तौर पर हुई है। पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

## दिल्ली के लाष्टी लोग नरक से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर

नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। हालांकि उन्होंने अभी तक सीएम पद की शपथ नहीं ली है। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल ने राजधानी के विभिन्न इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को एलजी ने नांगलोई मेट्रो स्टेशन के पास सड़क पर जलभरण और गंदगी का निरीक्षण किया। उन्होंने एक्स पर तस्वीरें पोस्ट कर लिखा, सरकार की उपेक्षा और संबंधित प्रशासनिक जड़ता के कारण पड़ोसी दिल्ली के लाखों लोग नरक से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं।

## आतिशी के साथ पांच नेता भी लेंगे मंत्री पद की शपथ

नई दिल्ली। दिल्ली की भावी मुख्यमंत्री आतिशी और उनका मंत्रिमंडल 21 सितंबर को शपथ लेंगे। आतिशी मालेनॉ अरविंद केजरीवाल की जगह लेंगी। कहा जा रहा है कि आतिशी के साथ 5 मंत्री शपथ ले सकतें हैं। कैबिनेट में शामिल होने वाले संभावित मंत्रियों के नामों पर चर्चा जोरों पर है। इन नामों में गोपाल राव, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत शपथ ले सकते हैं।

## वाहन चोर गिरफ्तार, एक स्कूटी बरामद

नई दिल्ली। तिलक विहार पुलिस चौकी में तेनात स्टाफ ने 17 सितंबर को एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी शिवम उर्फ गुंगा के पास से चोरी की स्कूटी बरामद हुई है। पुलिस उपायुक्त विचित्र वीर ने बताया कि एसआई नरेश कुमार, हेडकांस्टेबल धर्मवीर और कर्नलकेबल सुन्दर तिलक विहार में गश्त कर रहे थे। उन्हें सूचना मिली कि मनोहर नगर पुरंद्वारा के पास एक वाहन चोर आने वाला है। पुलिस ने ट्रैप लगाकर आरोपी को दबोच लिया।

# अरविंद केजरीवाल 20 सितंबर से हरियाणा में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे: संदीप पाठक

नई दिल्ली, प्रातः किरण संवाददाता

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कल से हरियाणा में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डॉ संदीप पाठक ने गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी पहली बार हरियाणा में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ईश्वर की कृपा और आपकी दुआओं से भाजपा के षडयंत्र और चंगुल से निकलकर जेल से बाहर आ गए हैं। अब अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अरविंद केजरीवाल जी 20 सितंबर से हरियाणा में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी कल यमुनानगर के जगाधरी विधानसभा में अपना पहला रोड शो करेंगे। जगाधरी के बाद अरविंद केजरीवाल डबवाली, रानिया, भिवानी, मेहम, पूंडरी, कलायत, रेवाड़ी, दादरी, असंध, बल्लभगढ़ और बादरा में भी चुनाव प्रचार करेंगे। फिलहाल अरविंद केजरीवाल जी 11 जिलों में चुनाव प्रचार करेंगे, जहां पर उनके 13 कार्यक्रम होंगे। इसके बाद



का उनका शेड्यूल आने वाले कुछ दिनों में मीडिया के साथ शेयर कर दिया जाएगा।

राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने आगे कहा कि अगर आप हरियाणा की राजनीति को देखेंगे तो यह बड़ा स्पष्ट है कि भाजपा इस बार पूर्ण रूप से हरियाणा से साफ होने वाली है। पिछले 10 सालों से भाजपा की सरकार हरियाणा में चल रही है। भाजपा को खुद ही अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं था इसलिए उन्होंने मनोहर लाल खट्टर जी को मुख्यमंत्री पद से हटाकर नायब सिंह सैनी को नया मुख्यमंत्री बनाया। यह सवाल तो बनता है कि भाजपा को आखरी साल में नया मुख्यमंत्री लाने की क्या

जरूरत पड़ गई? इन्होंने किसनों के साथ अन्याय किया, उनका अपमान किया। जवानों का अपमान और उनके साथ अन्याय किया, हमारी माताओं और बहनों के मान-सम्मान के साथ खिलवाड़ किया। हरियाणा में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, महंगाई रिकॉर्ड तोड़ है। चारों तरफ कुशासन और अव्यवस्था फैली हुई है। भाजपा को मालूम है कि वह इस बार हरियाणा से उनका सफाया होने वाला है। संदीप पाठक ने आगे कहा कि अब बड़ी सवाल यह उठता है कि जब बीजेपी हरियाणा से जा रही है, जनता बदलाव लेकर आ रही है तो फिर इस बदलाव में कौनसी पार्टी को मौका मिलेगा? हरियाणा में पहले

## रविवार तक राम मय हो गया तिहाड़ का जेल नंबर 3

● देवी राजेश्वरी से कथा सुन रहे कैदी और जेल के अफसर

संवाददाता

जेल में बंद कैदियों के मन में सकारात्मक विचार का संचार करने के लिए उनके मन में शांति लाने के लिए और उनके अंदर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए तिहाड़ जेल नंबर 3 में श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। जो रविवार तक चलेगा, इसकी शुरुआत बुधवार से की गई है। इसकी जानकारी देते हुए तिहाड़ जेल के प्रवक्ता ने बताया कि श्री राम कथा का श्रवण जेल में बंद कैदियों के साथ-साथ जेल के कर्मचारी और अधिकारी



भी ले रहे हैं। श्री राम कथा सुनने से शांति का संचार सबके मन में होता है। इस कथा का आयोजन राजेश्वरी मानव कल्याण एवं धार्मिक ट्रस्ट अयोध्या के तत्वाधान में किया जा रहा है। कथा

## रैपिडो ऐप से ऑटो बुक कर चालक को लूटा



नई दिल्ली। रैपिडो ऐप से ऑटो बुक करने के बाद 16 सितंबर को चार दोस्तों ने ऑटो चालक को लूट की वारदात को अंजाम दिया था। फतेहपुर बेरी थाना पुलिस ने 17 सितंबर को चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। संदीप, विपिन कुमार, सोनू उर्फ आशु तथा अभिषेक वर्मा के पास से लूटा गया फोन, ऑटो बुक करने वाले फोन और अपराध में इस्तेमाल किए गए स्कू ड्राइवर बरामद किया है। सभी आरोपी नशे के आदी हैं। पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि 16 सितंबर को एक ऑटो चालक ने पुलिस को शिकायत दी कि रैपिडो ऐप के माध्यम से उसे बुकिंग मिली थी। इसके बाद वह पिकअप पॉइंट यानी जोनापुर पहुंचे, जहां 04 व्यक्ति मौजूद पाए गए। आरोपियों ने उसे चालक को कुचल दिया। इसमें उसके पैसों और मोबाइल था। पॉइंट की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। एसआई नसीब सिंह, एएसआई इंरेंद्र, हेडकांस्टेबल दिलीप कुमार, राकेश कुमार, लखमी चंद खत्री की टीम ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण और मोबाइल फोन का विश्लेषण निकाला, जिससे ऑटो बुक किया गया था। जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी संदीप को मोबाइल के साथ दबोच लिया। संदीप से पूछताछ के बाद बाकि आरोपियों विपिन कुमार, सोनू और अभिषेक वर्मा को गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानेदही पर बाकि सामान भी बरामद किया गया। आरोपियों ने बताया कि वह नशे के आदि है और उसके लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए लूट की वारदात को अंजाम देते हैं।

## शादी का झांसा देकर 50 से अधिक महिलाओं से टगी करने वाला गिरफ्तार

नई दिल्ली, प्रातः किरण संवाददाता

शादी का झांसा देकर विभिन्न राज्यों की 50 से अधिक महिलाओं से लाखों रुपये धोखाधड़ी करने वाले शाहिर उम मुक़ीम अय्यूब खान को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। जीवनसाथी डॉट कॉम और शादी डॉट कॉम जैसी वैवाहिक वेबसाइटों पर आकर्षक विवरण के साथ फर्जी आईडी बनाकर वह शादी के बहाने हाई-प्रोफाइल व सामान्य महिलाओं को बनाता था शिकार था। महिलाओं को झांसे में लेने के लिए वह खुद को सरकारी विभाग में वरिष्ठ अधिकारी होने का दावा करता था।

डोसीपी क्राइम ब्रांच संजय कुमार सेन के मुताबिक मुक़ीम अय्यूब खान, शास्त्री पार्क में रहता था। वैसे मूलरूप से वह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का रहने वाला है। कई राज्यों की रहने वाली महिलाओं से टगी करने के कारण उक्त राज्यों की पुलिस मुक़ीम की तलाश कर रही थी। क्राइम ब्रांच को गत दिनों जानकारी मिली कि मुक़ीम खान नाम के शख्स ने शादी के बहाने कई महिलाओं को धोखा दिया है। विभिन्न राज्यों की पुलिस के लिए वह वांछित है। एसपी सुशील कुमार डैला की टीम ने मुक़ीम खान को पकड़ने के लिए छानबीन शुरू कर दी। पुलिस टीम अलग-अलग राज्यों में सभी संभावित ठिकानों पर छापेमारी करती रही लेकिन शुरू में उसका कोई अता पता नहीं चल रहा था क्योंकि मुक़ीम खान लगातार वह वारंटों को अंजाम देकर ठिकाना बदल लेता था।



बुधवार को पुलिस को पता चला कि मुक़ीम अय्यूब खान वडोदरा, गुजरात से दिल्ली आ रहा है। पुलिस ने उक्त सूचना के आधार पर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास से उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में मुक़ीम ने बताया कि वह खुद को सरकारी विभाग में वरिष्ठ अधिकारी बताकर हाई-प्रोफाइल मुस्लिम अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा आदि महिलाओं और युवतियों को शादी का शिकार बनाता था। टारगेट तय करने के बाद वह महिलाओं से अपना मोबाइल नंबर साझा कर उनसे लुभावनी बातें कर उन्हें मनागढ़त कहानी बताता था कि वह सरकारी नौकर है। पत्नी की मृत्यु के कारण पारिवारिक समस्याओं के कारण वह इकलौती बेटी की देखभाल करने में असमर्थ है।

महिलाओं को निशाना बनाने के लिए धूमता रहशादी के बाद दोनों कुछ समय साथ रहे लेकिन मुक़ीम के मन में महिलाओं को इस तरह से धोखा देकर आसानी से पैसा कमाने का आपराधिक विचार आया। इसके बाद 2023 में उसने प्रीत विहार की एक महिला से इसी तरह झांसे में लेकर शादी कर ली। महिला को तब विधवा और उसकी पांच साल की बेटी है। इसी तरह देश के विभिन्न राज्यों में वह वैवाहिक साइटों से महिलाओं को निशाना बनाने की पिराक में घूमता रहा। शादी के नाम पर लक्षित महिलाओं से वह नकदी,

जानता ने 5 साल एक पार्टी को मौका दिया, फिर 10 साल दूसरी पार्टी मौका दिया और अभी 10 सालों से तीसरी पार्टी की सरकार है। सारी पार्टियों को हरियाणा की जनता ने मौका दिया है। हरियाणा में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो यह कह सके कि हमें यहां की जनता ने मौका नहीं दिया। अब सवाल यह उठता है कि क्या इन सभी पार्टियों ने अपनी जिम्मेदारियों का सही तरह से निर्वहन किया? क्या इन्होंने जनता की वह सेवा की जो जनता इनसे चाहती थी? इसका सीधो और सरल भाषा में उत्तर है कि इन्होंने हरियाणा की जनता को कोई सेवा नहीं की।

इन्होंने आगे कहा कि हरियाणा की जनता सभी पार्टियों से त्रस्त हो चुकी है, अब वह बदलाव चाहती है। इस बार हरियाणा की जनता के सामने पहली बार अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी को लेकर उतरें हैं। अब हरियाणा की जनता के सामने बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी एक बेहतर विकल्प है। हरियाणा की जनता ने पंजाब और दिल्ली सरकार के कामों को करीब से देखा है। इन कामों को देखकर हरियाणा की जनता इस बार बदलाव के लिए जाएगी और अरविंद केजरीवाल जी की नई और ईमानदार राजनीति के लिए आम आदमी पार्टी को वोट करेगी।

## सर्येंद्र जैन ने नई जमानत याचिका दायर की



नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने धन शोधन मामले में नई जमानत याचिका दायर की। न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद गुरुवार को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। जमानत आवेदन पर विशेष सीबीआई जज राकेश सयाल ने ईडी को नॉटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत जमानत अर्जी पर 25 सितंबर को सुनवाई करेगी। वहीं मुख्य मामले में जहां आरोप पत्र पर बहस हो रही है को 5 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध किया है। सत्येंद्र जैन की ओर से वकील विवेक जैन पेश हुए। जैन को मई 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। जैन की याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान आरोपी को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता। जैन की डिफॉल्ट जमानत याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। उनकी पिछली जमानत अर्जी और अंतरिम जमानत अर्जी ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी थी। हालांकि, उच्च स्वास्थ्य आधार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम अनुमति दी गई थी। कई माह तक अंतरिम जमानत पर रहने के बाद उन्हें दोबारा न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। बता दें जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

## गुजरात का गरबा, भोपाल की शस्त्र शिक्षा, दिल्ली का फूड

- इको फ्रेंडली गां की मूर्ति की होगी द्वारका में दुर्गा पूजा
- से. 10 मेट्रो स्टेशन के पास होगा दिल्ली का बड़ा उल्हाव

नई दिल्ली, प्रातः किरण संवाददाता

आमतौर पर राजधानी दिल्ली में दुर्गा पूजा का आयोजन तीन दिनों के लिए किया जाता है। लेकिन इस बार दिल्ली के द्वारका में 10 दिवसीय दुर्गा पूजा उत्सव बड़े स्तर पर मनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। इसकी तैयारी जोर-जोर से द्वारका सेक्टर 10 मेट्रो स्टेशन के पास वाले ग्राउंड में की जा रही है। इस दुर्गा पूजा के दौरान यहां पर गुजरात से आ रही गरबा की टीम के साथ लोगों को आनंद लेने का अवसर मिलेगा। वहीं भोपाल पुरुकुल से आने वाली टीम लड़कियों को महिलाओं को शस्त्र अस्त्र की शिक्षा देगी, उन्हें सेल्फ डिफेंस के लिए ट्रेड करेगी। तो दिल्ली के फूड का आनंद लोग देशी स्टाइल में ले सकेंगे। खास यह है, की यह इंतजाम महिलाओं की टीम के द्वारा किया जा रहा है।

द रक्षा सेवियर संस्था की प्रेसिडेंट इंदु राजपुर ने बताया की पूरे देश भर में



2 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। देश के दूसरे राज्यों में बड़े कार्यक्रम तो करते ही हैं। इस बार दिल्ली में बड़े लेवल पर दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन करने का फैसला लिया गया है। एक ही जगह मां दुर्गा की पुर्ति की पूजा भी होगी, शस्त्र की शिक्षा भी होगी, अलग-अलग तरह के व्यंजनों के लोग आनंद भी लेंगे और रात में देशी स्टाइल में गरबा का आनंद भी लेंगे।

राष्ट्रीय संगठन मंत्री अंजना सिन्हा ने बताया की सुबह पूजा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी जो रात में गरबा के साथ संपन्न होगी। यहां होने वाले कार्यक्रम में स्कूल और कॉलेज की छात्राएं भी पार्टिसिपेट करेगी। वो अलग अलग तरह की एक्टिविटी में शामिल होगी और उन्हें भी सेल्फ

## शमशान घाट के पास मिली कार में भारी मात्रा में शराब

● पकड़े गए दो शराब तस्कर, 2050 क्वार्टर शराब बरामद

संवाददाता

वसंत कुंज साउथ थाना को पुलिस टीम ने दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 41 पेट्री शराब की बरामद की गई है। जिसमें 2050 क्वार्टर भरकर लाए गए थे। शराब तस्करों ने इस्तेमाल एक कार को भी पुलिस ने जब्त किया है। डीसीपी रोहित मीणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विनोद और शिवम सैनी के रूप में हुई है। यह दोनों रंगपुरी गांव और महिपालपुर के रहने वाले हैं। बरामद शराब हरियाणा में ही विकने



के लिए मान्य थी। इनके बारे में एक इनफार्मेशन पुलिस को मिली, जिसके आधार पर एसएचओ अरविंद प्रताप सिंह के देखरेख में पुलिस टीम ने बंगाली बस्ती के पास स्थित शमशान घाट के पास ट्रैप लगाया और उनकी गाड़ी को रोका। तलाशी में शराब की

## पॉकेटमार्गे से खरीदता मोबाइल, बेचना यूपी और बिहार में

● अरुंधे टैप बेचकर चला रहा था मोबाइल सेल का खेल

संवाददाता

द्वारका जिला के एंटी बरगलरी सेल की पुलिस टीम ने दो शांति चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 20 चोरी का मोबाइल और स्कूटी बरामद किया गया है। बरामद मोबाइल डाबडी, बिंदुपुर, उत्तम नगर, नजफगढ़, बाबा हरिदस नगर और मोहन गार्डन थाना इलाके से चुराई गई थी। स्कूटी भी डाबडी थाना



इलाके से चोरी की निकली। इन्हें महावीर एंकेलव एमसीडी पार्क के पास ट्रैप लगाकर पुलिस ने गिरफ्तार किया। डीसीपी अंकित सिंह के

## डकैती के मामले में फरार आरोपी को पकड़ा

नई दिल्ली, प्रातः किरण संवाददाता

रघुबीर नगर पुलिस चौकी में तेनात स्टाफ ने 17 सितंबर को डकैती के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी तनु उर्फ कुणाल के पास से दो चोरी की स्कूटी और चाकू बरामद हुए हैं। आरोपी पर 14 मामले दर्ज हैं। पुलिस उपायुक्त विचित्र वीर ने बताया कि एसआई सुदीप पुनिया, एएसआई संतोष और हेडकांस्टेबल सुरेंद्र की टीम इलाके में गश्त कर रहे थे। रात करीब 1:30 बजे एक स्कूटी चालक को सड़िध परिस्थिति में रोड नंबर 29 की ओर जाते देख कर रुकने का इशारा किया। आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे स्कूटी के साथ दबोच लिया।

## दिल्ली दंगा फसाद के 14 साल पुराने केस में कांग्रेस के पूर्व विधायक समेत सात आरोपी बरी

नई दिल्ली, प्रातः किरण संवाददाता

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 2010 में दंगा फसाद और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान समेत सात आरोपियों को बरी कर दिया है। एडिशनल चीफ जस्टिशियल मजिस्ट्रेट तान्या बामनिवाल ने सभी आरोपियों को संहिता का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। कोर्ट ने आसिफ मोहम्मद खान के अलावा जिन आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया उनमें अकील अहमद, जावेद निसार खान, मुकरम आता उर्फ मिक्की, नवाब अहमद, सिराज और वहाब शामिल हैं। इन आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 186, 353, 332, 427 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी की धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। घटना 14 मार्च 2010 की है, जब ओखला के तत्कालीन विधायक आसिफ मोहम्मद खान रात में करीब दस बजकर 45 मिनट



पर अपने डेढ़-दो सौ समर्थकों के साथ जामिया नगर थाने पहुंचे और तत्कालीन राज्यसभा सदस्य परवेज हाशमी के खिलाफ नारे लगाने लगे। पथरबाजी अपने कुछ समर्थक मोहम्मद खान अपने तीन-चार समर्थकों के साथ थाने के अंदर घुस गए। एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। जब परवेज हाशमी अपने 20 मिमर्थकों के साथ पहुंचे। परवेज हाशमी को देखते ही आसिफ मोहम्मद के समर्थकों ने थाने के दीवार पर पथर फेंकना शुरू कर दिया। जब स्थिति पुलिस के नियंत्रण से बाहर हो गई तो

माईक से चेतवनी दी गई कि ये कानून के खिलाफ हो रहा है, लेकिन भीड़ ने एक नहीं सुनी। आरोपियों को संहिता का मिला लाभ: पत्थर फेंकने की वजह से कार्टेबल ओएमप्रकाश और हेड कार्टेबल प्रकाश चंद को चोटें आईं। पथरबाजी में आसिफ मोहम्मद खान और परवेज हाशमी के वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। कोर्ट ने इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 23 गवाहों के बयान दर्ज किए थे। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष की आरोपियों को संहिता से परे उन्हें दोषी साबित करने में विफल रहा है, इसलिए आरोपी संहिता का लाभ पाने के हकदार हैं। कोर्ट ने सभी सातों आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया।



## भारत-बांग्लादेश पहला टेस्ट

# आर अश्विन ने जड़ा टेस्ट करियर का छठां शतक

## भारत ने की मजबूत वापसी

नई दिल्ली (एजेंसी)। टीम इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में वापसी कर ली है। चेन्नई में खेले जा रहे इस मुकाबले के पहले दिन तीसरे सेशन में भारतीय टीम 6 विकेट पर 321 रन बना चुकी है। रवींद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन क्रमिक पर हैं। अश्विन ने अपनी सेंचुरी पूरी की। वहीं जडेजा फिफ्टी लगाकर नाबाद हैं। दोनों ने 7वें विकेट के लिए शतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली है। एक समय टीम इंडिया ने 144 पर 6 विकेट विकेट गंवा दिए थे। इससे पहले, ओपनर यशस्वी जायसवाल ने 56 रन बनाए। ऋषभ पंत ने 39 रन की पारी खेली। बांग्लादेश के लिए हसन महमूद ने 4 विकेट लिए। मेहदी हसन मिराज और नाहिद राणा ने 1-1 विकेट लिया है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। बांग्लादेशी पेसर्स ने शुरुआत से भारतीय पारी को दबाव में रखा। कप्तान रोहित शर्मा 6, शुभमन गिल 0 और विराट कोहली 6 रन बनाकर आउट हुए। इन तीनों का विकेट हसन ने लिया। यहां से जायसवाल और पंत ने चौथे विकेट के लिए 62 रन जोड़े। हसन ने पंत को आउट कर इस पार्टनरशिप को तोड़ा। राहुल का विकेट मिराज ने और जायसवाल का विकेट नाहिद ने लिया।



### भारत का स्कोर 300 पार

भारत का स्कोर 300 पार हो गया है। रविचंद्रन अश्विन ने मेहदी हसन मिराज की बॉल पर 6 लगाकर टीम के 300 रन पूरे किए।

## संग्राम सिंह MMA में डेब्यू के लिए तैयार

### पाकिस्तान के अली रजा नासिर के खिलाफ पहला मुकाबला

त्विलिसी (जॉर्जिया), एजेंसी। जाने-माने पहलवान और कॉमनवेल्थ हैवीवेट कुश्ती चैंपियन संग्राम सिंह यहां यूरोपियन यूनिवर्सिटी में होने वाले गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अली रजा नासिर के खिलाफ अपने बहुप्रतीक्षित मिक्सड मार्शल आर्ट पदार्पण के लिए तैयार हैं। अपने पहले रू मुकाबले की मांगों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 2-3 किलोग्राम वजन बढ़ाने के प्रशिक्षण के बारे में बात करते हुए संग्राम सिंह ने कहा, मेरा मानना है कि तैयारी का हर पल मायने रखता है। मैं इस मुकाबले के लिए सर्वोत्तम संभव आकार में रहना चाहता हूँ। हालांकि, यह नई चुनौती अपने साथ कुछ भावनाएं लेकर आई है। उन्होंने कहा, मैं इसे एक रोमांचक अवसर के रूप में देखता हूँ, जो भगवान ने मुझे दिया है। अपने पहले रू मुकाबले को लेकर अपनी घबराहट के बारे में बात करते हुए संग्राम ने कहा, मैं इसे एक रोमांचक अवसर के रूप में देखता हूँ। मैं प्रशिक्षण की परवाह किए बिना शानदार प्रदर्शन करना चाहता हूँ। मैं नर्वस हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा डेब्यू एक यादगार मैच हो। मैं जीतने के बारे में इतना जुनूनी नहीं हूँ, बल्कि अपने साथियों और प्रशंसकों का सम्मान पाने की उम्मीद कर रहा हूँ। संग्राम ब्रह्म में मुख्य फाइट कार्ड के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान हैं। वह पाकिस्तान के खिलाफ 93 किलोग्राम वर्ग की रू फाइट में अपनी पहली भागीदारी को लेकर काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा, इस तरह के प्रतिष्ठित मैच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि आप वैश्विक आयोजनों में भाग लेते समय अपने देश को नहीं देखते हैं, तो कुछ कमी है। मैं इस पद पर पहला भारतीय पुरुष पहलवान बनकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ और मेरा लक्ष्य अपने देश को गौरवान्वित करना है। जॉर्जिया में होने वाली चैंपियनशिप में जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, पाकिस्तान और यूक्रेन सहित 5 अन्य देश भाग लेंगे। व्यक्तिगत सफलता के अलावा, संग्राम को उम्मीद है कि रू में उनकी यात्रा भारत के युवाओं को इस खेल को अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। उन्होंने कहा, यह खेल उन युवाओं के लिए है जो अपने जुनून को आगे बढ़ाने और सक्रिय रहने की इच्छा रखते हैं। उन्होंने रू को युवाओं का खेल बताते हुए कहा, इसमें अनुशासन, फिटनेस और प्रतिस्पर्धा की भावना समाहित है। मुझे उम्मीद है कि मेरी लड़ाई भविष्य में उनके लिए हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने का मार्ग प्रशस्त करेगी।



संग्राम ब्रह्म में मुख्य फाइट कार्ड के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान हैं। वह पाकिस्तान के खिलाफ 93 किलोग्राम वर्ग की रू फाइट में अपनी पहली भागीदारी को लेकर काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा, इस तरह के प्रतिष्ठित मैच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि आप वैश्विक आयोजनों में भाग लेते समय अपने देश को नहीं देखते हैं, तो कुछ कमी है। मैं इस पद पर पहला भारतीय पुरुष पहलवान बनकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ और मेरा लक्ष्य अपने देश को गौरवान्वित करना है। जॉर्जिया में होने वाली चैंपियनशिप में जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, पाकिस्तान और यूक्रेन सहित 5 अन्य देश भाग लेंगे। व्यक्तिगत सफलता के अलावा, संग्राम को उम्मीद है कि रू में उनकी यात्रा भारत के युवाओं को इस खेल को अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। उन्होंने कहा, यह खेल उन युवाओं के लिए है जो अपने जुनून को आगे बढ़ाने और सक्रिय रहने की इच्छा रखते हैं। उन्होंने रू को युवाओं का खेल बताते हुए कहा, इसमें अनुशासन, फिटनेस और प्रतिस्पर्धा की भावना समाहित है। मुझे उम्मीद है कि मेरी लड़ाई भविष्य में उनके लिए हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

## नवदीप सिंह, क्यों ये नाम बना हुआ है सोशल मीडिया सेंसेशन?



नई दिल्ली। कद छोटा है, पर काम बड़े होंगे, ये शब्द नवदीप सिंह के हैं जिन्होंने पेरिस पैरालंपिक में जैवलिन थ्रो (एफ41 इवेंट) में गोल्ड जीता। देश के इस एथलीट का हैसला देख पीएम मोदी भी खुशी से गदगद हुए। पेरिस पैरालंपिक से पहले जो नाम गुनगुना था, आज वही सोशल मीडिया सेंसेशन बना हुआ है। टीवी-अखबार से लेकर पॉडकास्ट तक नवदीप सिंह का जलवा है। गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने खूब वाहवाही बटोरी, लेकिन इस एथलीट का सफर बेहद मुश्किलों से भरा रहा है। टोक्यो पैरालंपिक में चौथे स्थान पर रहने वाले नवदीप का लक्ष्य पेरिस में सिर्फ मेडल था। यहां वो केवल भारतीय जर्सी में नजर आने वाले एक एथलीट थे, लेकिन अब वो भारत समेत पूरी दुनिया के लिए एक मिशाल बन गए। इस एथलीट को अपनी छोटी हाइट (बौनेपन) के लिए ताना मारा जाता था। इन तमाम चुनौतियों से परेशान होकर एक समय ऐसा था जब वो आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगे थे। लेकिन हर ताने को उन्होंने मोटिवेशन में बदला और खुद को साबित करने की टानी।

एरिगो की का 100 प्रतिशत जीत का रिकॉर्ड समाप्त हो गया, हालांकि वह एक समय शीर्ष-10 खिलाड़ी रहे बु जिआंगझी के साथ ड्रॉ के बाद अपराजित रहे। आर प्रनानदा ने यू यांगी के साथ ड्रॉ खेला जबकि विदित गुजराती की जगह आए पेंटला हरिकृष्णा को कम रेटिंग वाले वांग यू ने ड्रॉ पर रोका। महिला वर्ग में, भारतीय टीम ने मजबूत जॉर्जिया टीम को हराकर लगातार सातवीं जीत के साथ अपना अपराजित क्रम बरकरार रखा। वैशाली ने काले मोहरों से इंटरनेशनल मास्टर लेला जावाखिशविली को हराया जबकि वतिका अग्रवाल ने उच्च श्रेणी की बेला खोतेनाश्विली को हराया। पहले बोर्ड पर द्रोणवल्ली हरिका ने नाना दजार्गिनडेज के साथ ड्रॉ खेला जबकि तीसरे बोर्ड पर दिव्या देशमुख को नीना बत्सियाधली ने ड्रॉ कराया। लेकिन वैशाली और वतिका की जीत ने सुनिश्चित किया कि भारतीय महिलाओं का अपराजित क्रम बना रहे।

## आंद्रे रसेल ने सबसे ज्यादा मारे छक्के सीपीएल 2024 में 240 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 15 गेंदों में जिताया...

गयाना, एजेंसी। आंद्रे रसेल का नाम भी सुना होगा और उनके काम के बारे में भी जानते होंगे। बिल्कुल वैसा ही वो सीपीएल 2024 में 18 सितंबर को खेले मुकाबले में

उन्होंने ही बनाए। रसेल ने खेले मैच पलटने वाली पारी - गयाना अमेजन वॉरियर्स से मिले 149 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए त्रिनिदाद नाइट राइडर्स की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही। उसके टॉप के 5 विकेट सिर्फ 89 रन पर गिर गए। लेकिन, उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे आंद्रे रसेल ने अपने साथी खिलाड़ी टिम डेविड के साथ मिलकर मैच को पलटने वाली इनिंग खेली।



रसेल ने जोड़े 60 रन - रसेल और डेविड के बीच छठे विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी हुई, जिसने त्रिनिदाद नाइट राइडर्स के लिए मैच जीतने का काम किया। बल्ले से रंग जमाकर इन दो बल्लेबाजों ने मैच में एक वक्त लड़खड़ाती त्रिनिदाद नाइट राइडर्स की पारी को 4 गेंद पहले ही जीत के दर्शन करा दिए। 149 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए त्रिनिदाद नाइट राइडर्स ने ये मुकाबला 19.2 ओवर में 5 विकेट से जीता।

रसेल ने जोड़े 60 रन - रसेल और डेविड के बीच छठे विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी हुई, जिसने त्रिनिदाद नाइट राइडर्स के लिए मैच जीतने का काम किया। बल्ले से रंग जमाकर इन दो बल्लेबाजों ने मैच में एक वक्त लड़खड़ाती त्रिनिदाद नाइट राइडर्स की पारी को 4 गेंद पहले ही जीत के दर्शन करा दिए। 149 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए त्रिनिदाद नाइट राइडर्स ने ये मुकाबला 19.2 ओवर में 5 विकेट से जीता।

करते दिखे हैं। त्रिनिदाद नाइट राइडर्स की ओर से खेलते हुए रसेल ने सिर्फ 15 गेंदों पर मैच जिताने वाली पारी खेली। गयाना अमेजन वॉरियर्स से मिले 149 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रसेल आखिर तक नाबाद रहे। 240 की स्ट्राइक रेट से खेले अपनी इनिंग के बाद वो ना सिर्फ अपनी टीम की ओर से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज रहे बल्कि सबसे ज्यादा रन भी



## श्रीलंका-न्यूजीलैंड टेस्ट श्रीलंका पहली पारी में 305 रन पर ऑलआउट

### कमिंडू का शतक, कुसल की फिफ्टी; विलियम ओरुर्के ने 5 विकेट झटके

न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रीलंका पहले टेस्ट के पहली पारी में दूसरे दिन 305 रन पर ऑलआउट हो गई। गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका ने दूसरे दिन गुरुवार को 302/7 के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया। टीम 3 रन बनाने में 3 विकेट गंवा दिए। पहले दिन बुधवार को श्रीलंका ने कमिंडू और कुसल की पारियों के सहारे 7 विकेट पर 302 रन बनाए। कमिंडू मॉडिस ने 114 रन की पारी खेली। उन्होंने करियर की चौथी सेंचुरी लगाई। उनके अलावा कुसल मॉडिस ने 50 रन बनाए। न्यूजीलैंड की तरफ से विलियम ओरुर्के ने 5 विकेट झटके। ग्लेन फिलिप्स और एजाज पटेल ने 2-2 विकेट लिए। यह मुकाबला गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। मेजबान श्रीलंका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। कमिंडू मॉडिस का शतक बुधवार को पहले सेशन में श्रीलंका की शुरुआत अच्छी



रही। ओपनर पथुम निसांका 27 रन और दिमुथ करुणारते 2 रन बनाकर आउट हुए। दोनों को विलियम ओरुर्के ने पवेलियन भेजा। इसके बाद दिनेश चांदीमल ने 30 और एंजेलो मैथ्यूज ने 36 रन की पारी खेली। चांदीमल को साउथी और मैथ्यूज को विलियम ओरुर्के ने आउट किया। कप्तान धनंजय डी सिल्वा को 11 रन पर ग्लेन फिलिप्स ने आउट किया।

## 634 दिन बार टेस्ट में वापसी कर ऋषभ पंत ने टेस्ट में हासिल किया खास मुकाम

### धोनी के बाद ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय विकेटकीपर बने

चैन्नई, एजेंसी। बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई टेस्ट मैच के जरिए ऋषभ पंत ने क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप में 634 दिन के बाद वापसी की। टेस्ट में वापसी से पहले पंत ने दलीप ट्रॉफी 2024 में भी अपना हाथ आजमाया था और अच्छा प्रदर्शन किया था। पंत को पहले टेस्ट मैच में भारत की प्लेइंग इलेवन में मौका दिया गया और उन्होंने पहली पारी में कठिन परिस्थिति में भारत के लिए संघर्षपूर्ण पारी खेली। हालांकि पंत अपनी इस पारी को बड़े स्कोर में नब्दील नहीं कर पाए, लेकिन प्रभावी साबित हुए। अपनी इस पारी के जरिए पंत ने बतौर भारतीय विकेटकीपर 4000 रन पूरे किए और एमएस धोनी के बाद ऐसा करने वाले दूसरे

भारतीय विकेटकीपर बने। पंत ने पूरे किए 4000 रन ऋषभ पंत ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में 52 गेंदों पर 6 चौकों की मदद से 39 रन की पारी खेली और बतौर विकेटकीपर उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 4000 रन पूरे कर लिए। भारत की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में 4000 रन पूरे करने वाले पंत दूसरे विकेटकीपर बन गए। पंत का बतौर विकेटकीपर इंटरनेशनल क्रिकेट में अब टोटल स्कोर 4014 रन हो गया। भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में 4000 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज एमएस धोनी थे। पंत अब धोनी की लिस्ट में शामिल हो गए।

## शतरंज ओलंपियाड: गुकेश की जीत से भारत ने चीन को हराया

बुडापेस्ट (हंगरी) विश्व शतरंज चैंपियनशिप फाइनल चैलेंजर डेमाराजू गुकेश ने समय के दबाव में शानदार प्रदर्शन किया और बुधवार को यहां 45वें शतरंज ओलंपियाड के ओपन सेक्शन के सातवें दौर में भारत ने तीसरी वरीयता प्राप्त चीन को हराकर एकमात्र जीत दर्ज की। भारत ने महिला वर्ग में भी अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा, जिसमें वैशाली रमेशबाबू और वतिका अग्रवाल ने काले मोहरों से जीत हासिल कर टीम को जॉर्जिया की मजबूत टीम को 3-1 से हराते में मदद की। जॉर्जिया 2008 में शतरंज ओलंपियाड का पूर्व विजेता है। भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने अपना अजेय क्रम बरकरार रखा, जिससे उनके अंकों की संख्या 14 हो गई और वे सात राउंड के बाद स्टैंडिंग में एकमात्र लीडर बने

### महिला टीम जॉर्जिया को हराकर अजेय रही



रहे। ओपन सेक्शन में, उज्बेकिस्तान, ईरान और हंगरी ने अपने-अपने मैच जीतकर फिर से प्रतिस्पर्धा में वापसी की। ईरान ने वियतनाम को हराया, जिसने पिछले राउंड में चीन को 2.5-1.5 से हराया था, हंगरी ने लिथुआनिया को इसी अंतर से हराया जबकि उज्बेकिस्तान ने यूक्रेन को 3-1 से हराया। हालांकि, एक दिन के आराम के बाद जब खेल फिर से शुरू हुआ, तो सभी की निगाहें भारत और चीन के बीच होने वाले मुकाबले पर टिकी थीं। सिंगापूर में होने वाले मेगा मुकाबले से पहले विश्व चैंपियनशिप के फाइनल के दानेदार डिंग लिरेन और गुकेश के बीच मुकाबला देखने की प्रशंसकों की उम्मीदें पूरी नहीं हुईं। चीनी टीम ने इस राउंड में मौजूदा विश्व चैंपियन को आराम दिया और यह एक समझदारी भरा कदम लगा, खासकर तब

जब डिंग लिरेन छठे राउंड में वियतनाम के ले क्रांग लिम से हार गए थे। हालांकि उनका सामना विश्व चैंपियन से नहीं हुआ, लेकिन गुकेश फिर भी भारत के लिए स्टार परफॉर्मर रहे क्योंकि उन्होंने पहले बोर्ड पर शीर्ष चीनी ग्रैंडमास्टर वेई यी को हराया। लगभग समान रेटिंग वाले दो खिलाड़ियों के बीच मुकाबले में, गुकेश एक ऐसे खेल में विजेता बनकर उभरे जिसमें शुरुआत में उन्हें थोड़ी बढ़त मिली थी, लेकिन चीनी जीएम ने बहादुरी से वापसी की और बढ़त हासिल की। हालांकि, गुकेश ने बढ़त हासिल करने के लिए कुछ सटीक चालें चलीं और अंततः चीनी खिलाड़ियों की कुछ धूलि चालों का फायदा उठाते हुए 80 चालों में मैच जीत लिया। भारतीय प्रशंसकों के लिए बड़ी खबर यह रही कि इस दौर में अर्जुन





## संक्षिप्त समाचार

## ऋतिका सिंह ने कहा, "मनासा शर्मा मेरे किरदार मीनाक्षी का जीता-जागता उदाहरण है"

मुंबई, एजेंसी। सोनी लिव की नई सीरीज बेंच लाइफ में एक कर्मचारी की कॉर्पोरेट जिंदगी को एक नए अंदाज में दिखाया गया है। इसमें आर्टी की दुनिया का वह सच सामने आता है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जब किसी कर्मचारी के पास काम नहीं होता, तो उसे 'बेंच' कहा जाता है। इस शो में एक मजेदार दोस्तों का ग्रुप है, जो कॉर्पोरेट कल्चर के उतार-चढ़ावों का सामना करते हुए बेंच होने का भी अपना ही मजा लेते हैं। बालू, मीनाक्षी, ईशा और रवि के किरदार इस शो में अपनी-अपनी खासियत लेकर आते हैं। वे कभी महत्वाकांक्षी होते हैं, तो कभी आराम की तलाश में। इस अनोखी कहानी में ये चारों दोस्त मिलकर जिंदगी के अलग-अलग पहलुओं का सामना करते हैं, जिससे दर्शकों को एक अलग ही नजरिया देखने को मिलता है। इस शो में मीनाक्षी का किरदार भी बहुत खास है, जो डायरेक्टर बनना चाहती है, लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया की उलझनों में फंसी हुई है। इस किरदार को एक्ट्रेस ऋतिका सिंह ने निभाया है। हाल ही में उन्होंने अपने किरदार के पीछे की असल प्रेरणा के बारे में बात की और बताया, बेंच लाइफ में मेरा किरदार हमारी निर्देशक मनासा शर्मा की असल जिंदगी पर आधारित है। उनके सफर को देखना मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक था। उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम किया और अब अपनी खुद की सीरीज का निर्देशन कर रही हैं। यह देखा जाकर ई खुशी की बात है कि महिलाएं अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने जुनून को बनाए रखती हैं, अपने दिल की बात सुनती हैं, और पूरी मेहनत से उस पर काम करती हैं। समाज की उम्मीदों और नियमों के बीच अपने पसंदीदा काम को करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। बेंच लाइफ में ऐसे किरदार को निभाने का मौका पाकर मैं बहुत खुश हूँ। सोनी लिव की सीरीज बेंच लाइफ का निर्देशन मनासा शर्मा ने किया है और इसका निर्माण पिंक एलीफेंट पिक्चर्स के तहत निहारिका कोनिडला ने किया है।

## पुरानी रजिश्त के चलते तीन लोगों को चाकू मारा, तीन आरोपी गिरफ्तार, दो फरार

बेंगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक के चेन्नम्मा सर्कल में मंगलवार आधी रात को तीन युवकों को चाकू मारने की घटना हुई। पुलिस ने बताया कि घटना में दर्शन पाटिल, सतीश पुजारी और प्रवीण गुड्डियागोला घायल हो गए। युवक के पेट में चाकू घोंपकर पांच आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, घायलों को इलाज के लिए बेलगावी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने जिला अस्पताल जाकर घटना की जानकारी ली। मामले पर टिप्पणी करते हुए सिटी पुलिस कमिश्नर डेड इन्टिन्स मार्बिनियान ने मीडिया से कहा, यह घटना चेन्नम्मा सर्किल में हुई। गणेश विमर्जन जुलूस में चाकूबाजी नहीं हुई, यह सिर्फ एक झगड़ा था। पुलिस ने झगड़ा रकवाया और युवकों को वापस भेज दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि दोनों समूहों के बीच पुरानी दुश्मनी थी। जुलूस के दौरान नाचते समय सभी एक-दूसरे को छू रहे थे।

## देश में मंकीपावस के दूसरे मामले की पुष्टि, यूएई से केरल लौटा शख्स पाया गया पॉजिटिव

तिरुवनंतपुरम, एजेंसी। देश में मंकीपावस का दूसरा मामला सामने आया है। केरल सरकार ने बुधवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से हाल ही में लौटे 38 वर्षीय शख्स इस संक्रमण से संक्रमित पाए गए हैं। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि मलपुरम के 38 वर्षीय व्यक्ति का संयुक्त अरब अमीरात से लौटने के बाद परीक्षण कराया गया था, जो पॉजिटिव आया है। फेसबुक पर एक पोस्ट में जॉर्ज ने लोगों से उपचार लेने और बीमारी से संबंधित कोई भी ज्ञात लक्षण दिखाई देने पर स्वास्थ्य विभाग को सूचित करने का आग्रह किया है। स्वास्थ्य मंत्री जॉर्ज ने कहा कि एमपावस के मरीज को अलग कर दिया गया है और मॉडर्न प्रोटोकॉल के अनुसार उसका इलाज किया जा रहा है। बता दें कि 9 दिन पहले देश में पहले मंकीपावस केस की पुष्टि हुई थी। पीड़ित शख्स ने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की थी।

## श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनपीपी नेता दिसानायके का बड़ा दावा

कोलंबो, एजेंसी। श्रीलंका में अगले हफ्ते राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। इसी को लेकर सभी पार्टियों ने कर्म कस ली है। इस बीच, नेशनल पीपल्स पावर (एनपीपी) गठबंधन की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार अनुरा कुमार दिसानायके ने आगामी चुनाव के लिए अपना अभियान पूरा कर लिया है। उन्होंने दावा किया है कि वह इस साल का चुनाव जीतने जा रहे हैं।

बता दें, श्रीलंका में राष्ट्रपति पद के लिए 21 सितंबर को मतदान होना है। ऐसे में 48 घंटे पहले यानी बुधवार को प्रचार अभियानों पर रोक लगा दी गई है। मतदान शनिवार को सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक 13,400 से अधिक मतदान केंद्रों पर होगा। यहां 1.7 करोड़ से अधिक पंजीकृत मतदाता हैं।

जनता विमुक्ति परामुना यानी जेवीपी के नेता दिसानायके ने कोलंबो के घनी आबादी वाले नुगेगोडा में अपनी अंतिम रैली की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी जीत सुनिश्चित है। हम 22 सितंबर की सुबह राष्ट्रपति पद पर जीत हासिल कर निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी एनपीपी जीत के बाद संपूर्ण शासन और सामाजिक परिवर्तन लाएंगे। उन्होंने यह भी कहा, हमारे पास तमिल और मुस्लिम अल्पसंख्यकों सहित सभी वर्गों के लोगों का अविश्वसनीय समर्थन है। हमारी सरकार एक सच्ची श्रीलंकाई सरकार होगी, जो कठिन संघर्षों के वर्षों के दौरान केवल एक सपना ही रह गई थी। गौरतलब है, दिसानायके नेशनल पीपुल्स पावर (एनपीपी) के प्रमुख हैं, जो



सामान विचारधारा वाले समूहों का गठबंधन है। लेकिन वह मुख्य रूप से 2014 से जनता विमुक्ति परामुना (जेवीपी) के नेता हैं, जो श्रीलंका का सबसे प्रभावशाली मार्क्सवादी संगठन है, जिसने 1971 और 1987-90 में राज्य की सत्ता पर कब्जा करने के लिए खूनी

विद्रोह किए थे। उत्तर कोरिया ने 1971 के विद्रोह का सक्रिय रूप से समर्थन किया था, जिसे भारत सहित कई देशों की मदद से श्रीलंकाई सुरक्षा बलों ने कुचल दिया था, जिससे दोनों पक्षों में हजारों लोग मारे गए थे।

देश में शनिवार को होने वाले चुनाव से पहले जमकर प्रचार-प्रसार किया जा रहा था। आज और कल चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं है। ऐसे में पहले ही प्रचार अभियान को पूरा कर लिया गया। श्रीलंका में एक नया राष्ट्रपति पांच साल के कार्यकाल के लिए चुना जाएगा, जो 73 वर्षों में आए सबसे खराब आर्थिक संकट के बाद पहला चुनाव होगा।

तीन प्रमुख उम्मीदवारों में से एक, वर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने बुधवार को अपनी रैली के दौरान कहा कि

आइएमएफ सुधार के तहत आर्थिक सुधार का वर्तमान कार्यक्रम देश को एक और दिवालियापन में जाने से बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 75 साल के नेता ने कहा, मैं युवा पीढ़ी के लिए एक भविष्य बनाना चाहता हूँ ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि श्रीलंका कर्ज लेने और कर्ज में डूबने पर निर्भर नहीं रहे। उन्होंने कहा कि दिसानायके और साजित प्रेमदासा की नीतियों से एक और आर्थिक मंदी आएगी। लोगों को आर्थिक सुधार को बनाए रखने के लिए बुद्धिमानी से मतदान करना चाहिए। वहीं, प्रेमदासा ने अपनी अंतिम रैली में कहा कि वह 20 लाख से अधिक मतों के बहुमत से जीतेंगे। वह आर्थिक समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत करेंगे। साथ ही आर्थिक संकट से प्रभावित लोगों को रियायतें देंगे।

## नवादा में महादलित टोला पर दबंगों का आतंक जंगलराज का प्रमाण: मल्लिकार्जुन खड़गे

नवादा, एजेंसी।

बिहार के नवादा में महादलित टोला में दबंगों द्वारा फायरिंग के बाद 80 घरों में आग लगाने के घटना को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जंगलराज का नाम दिया है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारी की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस घटना को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि, बिहार के नवादा में महादलित टोला पर दबंगों का आतंक एनडीए की डबल इंजन सरकार के जंगलराज का एक और प्रमाण है। बेहद निंदनीय है कि करीब 100 दलित घरों में आग लगाई गई, गोलीबारी की गई और रात के अंधेरे में गरीब परिवारों का सब कुछ खीन लिया गया। भाजपा और उसके सहयोगी दलों की दलितों-बच्चों के प्रति घोर उदासीनता, आपराधिक उपेक्षा व असाामाजिक तत्वों को बढ़ावा अब चरम पर है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा की तरह मौन हैं, नीतीश जी सत्ता के लोभ में बेफिक्र हैं और एनडीए की सहयोगी पार्टियों के मुंह में दही जम गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पोस्ट पर



लिखा, नवादा, बिहार में महादलितों के 80 से ज्यादा घरों को जला देने की घटना बेहद खौफनाक और निंदनीय है। दर्जनों राउंड फायरिंग करते हुए इतने बड़े पैमाने पर आतंक मचाकर लोगों को बेघर कर देना यह दिखाता है कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। आम ग्रामीण-गरीब असुरक्षा और खौफ के साये में जीने को मजबूर हैं। हमारी राज्य सरकार से मांग है कि ऐसी अन्याय करने वाले दबंगों पर सख्त कार्रवाई हो और सभी पीड़ितों का समुचित पुनर्वास किया जाए।

दरअसल यह घटना नवादा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के देदौर कृष्णा नगर टोले की है। इस महादलित

टोला में लगभग 100 घरों से अधिक महादलित परिवार रहते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक अचानक हुई घटना की वजह से लोग कुछ समझ नहीं पाए। दनादन गोलियों की आवाज सुनकर बस्ती में अफरातफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए लोग इधर-उधर भागने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि, यह घटना बुधवार रात करीब साढ़े सात बजे की है, जब महादलित बस्ती में कई घरों में महिलाएं खाना बना रही थीं। इस घटना में घर के जरूरी सामान जलकर खाक हो गए, वहीं इस आगजनी में कई मवेशियों के जलकर मरने की भी सूचना है। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशकत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से टोला में पीड़ित परिवारों को खाने की सामग्री वितरित की गई।

घटनास्थल पर पहुंचे जिलाधिकारी आशुतोष कुमार वमां ने कहा कि, घटना के बाद 10 लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस घटना की जांच पड़ताल जारी है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी।

## नोएडा में नौवीं क्लास का छात्र चला रहा था वाहन चोरी का गैंग

एनसीआर में अलग-अलग जगह मिलीं गायब गाड़ियां

नोएडा एजेंसी। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में बाइक चलाने और अन्य शौक पूरा करने के लिए वाहन चोरी करने वाले 9वीं कक्षा के नाबालिग छात्र समेत दो लोगों को थाना फेज-वन पुलिस ने दबोचा है। आरोपियों के पास से अलग-अलग स्थान से चोरी की गई पांच बाइक बरामद हुई हैं। गैंग के फरार चल रहे साथियों को पुलिस खोज रही है। एडीसीपी मनीष कुमार मिश्र ने बताया कि मंगलवार रात थाना फेज-वन पुलिस को सूचना मिली थी। बताया गया कि टकसाल के पास दो लोग खड़े हैं। दोनों लोग दोपहिया वाहन चोरी करते हैं। सूचना को पुछता कर पुलिस ने निखिल शर्मा और एक बाल अपचारी को हिरासत में ले लिया। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने एनसीआर के विभिन्न जगहों से चोरी की गई पांच बाइक बरामद हुई हैं। पूछताछ करने पर पता चला कि निगरानी में लिया गया बाल अपचारी 9वीं कक्षा में फेल हो चुका है। पुलिस ने आगे बताया कि नाबालिग पिछले दो माह से सेक्टर-15 में कम्प्यूटर को चिंग कर रहा है।

आरोपी की मित्रता आरोपी निखिल शर्मा उर्फ सॉफ्टवेयर से हुई जो इंडिलोवी ब्याग का काम करता है तथा 9वीं तक पढ़ा है। दोनों बाइक चलाने व अन्य शौक पूरा करने के लिए बाइक चोरी करते थे। साथ ही बदल बदलकर कभी पार्किंग में तो कभी मैट्रो स्टेशन के आस पास अन्य बाइक के साथ खड़ी कर दिया करते थे। मौका पाकर बाइक को बेच देते थे। आरोपी बेची गई बाइक से मिली धनराशि से अपना खर्चा चलाते थे और अपने शौक पूरे करते थे। पूछताछ में यह भी पुलिस को पता चला है कि आरोपी घटनाओं का मास्टरमाइंड बाल अपचारी है। उसके शैक्षिक व अन्य दस्तावेजों से जन्मतिथि भिन्न भिन्न हैं। इसके संबंध में जांच की जा रही है।

## हमास के युद्ध के बीच जर्मनी ने इस्राइल को हथियारों की सप्लाई रोकी, रिपोर्ट्स में दावा

बर्लिन, एजेंसी। इस्राइल इन दिनों अपने इतिहास के सबसे बड़े संघर्षों में से एक में उलझा हुआ है और ऐसे वकत में जर्मनी ने इस्राइल को हथियारों की सप्लाई रोकने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में जर्मनी के अर्थव्यवस्था मंत्रालय के हवाले से यह दावा किया गया है। बीते साल जर्मनी ने इस्राइल को करीब 36 करोड़ डॉलर के हथियार सप्लाई किए थे, यह साल 2022 की तुलना में 10 गुना ज्यादा था। हालांकि इस साल जर्मनी से इस्राइल को हथियारों की सप्लाई में गिरावट आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जर्मनी ने इस साल इस्राइल को सिर्फ एक करोड़ साठ लाख डॉलर के ही हथियार भेजने की ही मंजूरी दी है। जर्मनी की संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में ये आंकड़े अर्थव्यवस्था मंत्रालय द्वारा दिए गए हैं। जर्मनी के अधिकारियों का कहना है कि इस्राइल के खिलाफ मानवाधिकार संबंधी कानूनी मामले चल रहे हैं। यही वजह है कि इन मानवाधिकार संबंधी कानूनों का उल्लंघन न हो, इसलिए जर्मनी ने इस्राइल को हथियारों



की सप्लाई रोकने का फैसला किया है। हालांकि अभी तक जर्मनी की सरकार की तरफ से इसे लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। इस्राइल के खिलाफ गाजा में जारी नरसंहार के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चल रहा है। साथ ही इस्राइल को हथियारों की सप्लाई रोकने की मांग करते हुए एक केस यूरोपीयन सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ह्यूमन राइट्स द्वारा बर्लिन में दर्ज कराया गया है। इन्हीं मामलों में जर्मनी सरकार ने इस्राइल को हथियारों की सप्लाई रोकने का फैसला किया है।

## सलमान खान के घर गोलीबारी के आरोपी का दावा-जेल के डॉक्टर ने मांगे 10 हजार रुपये

मुंबई, एजेंसी। अभिनेता सलमान खान के आवास के बाहर गोलीबारी की घटना के एक आरोपी ने बुधवार को आरोप लगाया कि जेल के एक डॉक्टर ने उसकी टूटी हुई उंगली के इलाज के लिए पैसे मांगे। अप्रैल में गोलीबारी की घटना में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किए गए हरपाल सिंह ने न्यायाधीश बीडी शेल्वे के समक्ष यह आरोप लगाया, जब उसे वीडियो लिंक के जरिये मुंबई में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की विशेष अदालत में पेश किया गया।

अदालत ने तलोजा जेल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। सिंह इसी जेल में बंद है। अदालत ने जेल अधिकारियों से आरोपी को आवश्यक उपचार प्रदान करने के लिए भी कहा।

बांद्रा में 14 अप्रैल की सुबह सलमान के आवास गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर मोटरसाइकिल सवार दो लोगों ने पांच राउंड गोलीबारी की थी। पुलिस ने दावा किया था कि हमले के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का हाथ है। अब तक इस मामले में छह लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

सिंह ने बुधवार को अदालत को बताया कि पिछले आठ महीने से उनके दाहिने हाथ की एक उंगली चोटिल है। उसने आरोप लगाया कि सीएमओ ने उसे अस्पताल भेजने के लिए 10,000 रुपये की मांग की। अदालत ने मामले में सात अक्टूबर तक रिपोर्ट मांगी है।

## गुरुग्राम में बच्चा चोर गिरोह का भंडाफोड़, भीख मंगवाने के लिए उठाया था 5 साल का मासूम

गुरुग्राम एजेंसी। गुरुग्राम पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह की दो महिलाओं समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के चंगुल से 5 साल के एक बच्चे को भी बचाया गया है। बच्चे का मंगलवार को अपहरण किया गया था। गुरुग्राम पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आरोपियों ने बताया है कि उन्होंने बच्चे को सड़कों पर भीख मांगवाने के लिए अगवा किया था।

पुलिस के अनुसार, मंगलवार शाम को बेहरामपुर गांव निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई कि जब उसका पांच वर्षीय बेटा खेल रहा था उसी दौरान एक अज्ञात महिला आई और उसे उठकर ले गई। इसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्रारंभिकी दर्ज की। बच्चे की तलाश के लिए आनन-फानन में पुलिस की दो स्पेशल टीमें गठित की गईं।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने मंगलवार देर रात को बताया कि सेक्टर 52 इलाके से दो महिलाओं समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान वर्षा (27), आशा उर्फ ??सपना (23) और उसके पति मुकुल (27) के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने हैरान करने वाले खुलासे किए। आरोपियों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि दोनों महिलाएं मंगलवार को बच्चे का अपहरण करने के लिए बेहरामपुर गांव आई थीं। जब बच्चा सड़क पर खेल रहा था उस दौरान वर्षा ने उसका अपहरण किया। वह बच्चे को घाटा गांव ले आई, जहां मुकुल और सपना बच्चे को अपने किराए के कमरे में ले आए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने बच्चे को बिहार ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते उसे बचा लिया। अधिकारी ने यह भी बताया कि आरोपियों ने कबूल किया है कि उन्होंने बच्चे को सड़कों पर भीख मांगवाने के लिए अगवा किया था।

## गुरुग्राम में 555 जर्जर इमारतें, दिल्ली जैसे हादसे का बड़ा खतरा



में जलभराव होने से पानी जर्जर इमारतों की नींव में चला जाता है। जिस कारण यह जर्जर इमारतें भरभरा कर गिर जाने का हर समय खतरा रहता है। दिल्ली से पहले ऐसा ही एक हादसा यूपी के मेरठ शहर में भी हुआ था, जिसमें एक ही परिवार चार से ज्यादा लोगों की दबने से मौत हो गई थी। अब दिल्ली के करोड़ों बाग में भी यह हादसा हो गया है। ऐसे में गुरुग्राम में भी ऐसा हादसा नहीं हो इसके लिए निगम की तरफ से जर्जर इमारतों

का सर्वे तो करवा लिया है, लेकिन इनके खिलाफ आज कोई कार्रवाई नहीं की गई है। डिजिटल अनुसार कार्यकारी अभियंताओं द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में जर्जर इमारतों की रिपोर्ट तैयार करनी होती है। इसके बाद निगम की तरफ से इन भवन मालिकों को नोटिस दिया जाता है, अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिलता है तो उसे खाली करने के लिए बोला जाता है या फिर मकान को तोड़ने के निर्देश दिए जाते हैं। अगर मकान

## तालिबान के राजदूत ने कर दिया पाकिस्तान के राष्ट्रगान का अपमान, भड़क गई शहबाज सरकार

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत में एक बार फिर टन गई है। मामला पाकिस्तान के पेशावर में एक कार्यक्रम से जुड़ा है। जब कार्यक्रम की शुरुआत में पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान चलाया गया तो उपस्थित अफगान राजदूत अपनी कुर्सी पर ही बैठे थे। इस मामले को पाकिस्तान सरकार ने गंभीरता से लिया है। अफगान राजदूत की तालिबान से शिकायत की है। विदेश मंत्रालय ने मामले में अफगान के प्रभारी राजदूत को भी तलब किया। अफगान दूतावास की तरफ से अजीबो-गरीब दलील आई है। पाकिस्तान के अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि शहबाज शरीफ सरकार ने तालिबान से शिकायत की है कि देश के उत्तर-पश्चिम में एक कार्यक्रम के दौरान जब पाकिस्तानी राष्ट्रगान गाया गया तो एक अफगान राजनयिक खड़ा नहीं हुआ। विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर विरोध



जताते हुए अफगानिस्तान के प्रभारी राजदूत और इस्लामाबाद में अपने सबसे वरिष्ठ राजनयिक अहमद शाकिब को तलब किया। पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार, पेशावर में अफगान वाणिज्य दूत मोहिबुल्लाह शाकिर एक आधिकारिक समारोह के दौरान जब राष्ट्रगान गाया गया तो वे अपनी सीट पर ही बैठे रहे। मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलुच ने कहा कि मेजबान देश के राष्ट्रगान का ऐसा अनादर कूटनीतिक मानदंडों के खिलाफ है।

अफगान दूतावास की अजीबो-गरीब दलील: पेशावर में अफगान वाणिज्य दूतावास ने इस मामले में बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि शाकिर इसलिए खड़े नहीं हुए क्योंकि राष्ट्रगान संगीत के साथ चल रहा था। अगर राष्ट्रगान बिना संगीत के गाया जाता तो शाकिर सम्मान में खड़े हो जाते। उन्होंने कहा कि शाकिर को यह जानकारी थी कि अगर राष्ट्रगान संगीत के साथ चले तो खड़े होने की जरूरत नहीं है, वरना वो राष्ट्रगान को सम्मान जरूर देते।

## पाकिस्तान ने फिर अलापा कश्मीर राग: हम अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस गठबंधन के साथ, रक्षा मंत्री का बेतुका बयान

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनका देश जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर कांग्रेस गठबंधन के रुख से सहमत है। हालांकि कांग्रेस द्वारा अपने घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की बात है, लेकिन अनुच्छेद 370 पर पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। बुधवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान हुआ। मतदान के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जिससे पाकिस्तान का चिंतित होना स्वाभाविक है। पाकिस्तान के एक टीवी कार्यक्रम में वह के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ शामिल हुए। इस दौरान एंकर ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल किया और कहा कि जम्मू कश्मीर चुनाव को कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35ए जलकर नुपुा किया गया था तो उस वकत केंद्र में कांग्रेस क पडित नेहरू और जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला सत्ता में थे। अब एक बार फिर दोनों साथ आए हैं।